


# People Speak



# PACS Madhya Pradesh & Chhatisgarh

## *People Speak* 2006

This book has been produced by Write Solutions, Bhopal, the PACS State-Based Communications Agency for and on behalf of the Poorest Areas Civil Society (PACS) Programme, being implemented by a consortium of Development Alternatives and PricewaterhouseCoopers (P) Limited; New Delhi. The PACS Programme is supported by Department for International Development,

Government of The United Kingdom (UK).

For more information, please call or write to us at:

**DEVELOPMENT ALTERNATIVES**

111/9-Z, Kishangarh, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)

Phones: +91 +711 26134103/26890380; email: pacsindia@devalt.org

[www.empowerpoor.org](http://www.empowerpoor.org)

**Programme Support Team (PST)**

E4/185, Arera Colony, Bhopal-462016 (Madhya Pradesh) India.

Phone: +91 +755 4202234; email: mpmit@rediffmail.com

*Enabling the poor to do what they want to do*

**POOREST AREAS CIVIL SOCIETY (PACS) PROGRAMME**

Management Consultants

Supported by



**Development Alternatives**



**PricewaterhouseCoopers (P) Ltd.**

# Contents

Meet the Tana-Bana weavers	4
Organic farming	6
Holistic approach to health	9
Community celebration!	10
The washing powder experience	11
Capacity building: the route to success	12
Woman power: Moving far beyond making ends meet	14
Decision making: moving from the hands of a few to the masses	16
PACS is more than just a one-time programme: CSOs	18
Land grabbing scandal in Govardhan (Tambapara) village	21
Dairy cooperative	24
The story of an animator	25
Integrated media: A new way to tell our story!	27
A very special month!	31
Bonded to the 'lender'	33
युवा प्रेरक के बढ़ते कदम	36
गडीवान समुह बना प्रेरणा का स्रोत	37
महिलाओं द्वारा कांति की पहल	38
महिलाओं में उत्सुकता	39
महिलाओं ने परिस्थितियाँ बदली	40
परिवर्तन परियोजना ब्लाक घनसौर	41
आयवर्धक मिर्ची	43
सब्जी उत्पादन के कार्य से ग्राम की पहचान बनी	44
पुरुष समूह गठित	45
स्कूल में नियमितता बनी	46
ग्राम समिति ने दिलाई मजदूरी	47
जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगे उनको 251/- रुपये जुर्माना	48
अतिरिक्त आय का स्रोत	50
अनाज संग्रह	51
महिला पुरुषों के समूह	52
नवाचारों से हर प्रसव सुरक्षित हर बच्चा स्वस्थ	53
सहयोग से मिला योग	54
बंजर में बहार	55
घुघरी की वन सुरक्षा समिति	56
फलोद्यान	60
श्रमदान	62
मोहनझीर के ग्रामदूत सरपंच	63

# Preface

***Every community has a memory of itself.***

***Not a history, nor an archive, nor an authoritative record...***

***A living memory, an awareness of a collective identity woven of a thousand stories.***

The third edition of People's Speak – where experiences of PACS CSOs, inputs of Resource Organizations and the SMC, come together to give a holistic perspective of the PACS Programme in Madhya Pradesh and Chhattisgarh.

Having learnt from the previous two editions, this edition was preceded by small capacity building workshops with a few CSOs on how to present their work. What has emerged from these interactions has been the tracking of the work being done by CSOs.

Inputs from resource organisations and the State Meal Coordinator were also taken into account to present the complete picture on growth and progress towards the objectives of the Programme.

Taking from the MEAL reports, supplementing processes with inputs from animators, chief functionaries, photographs and graphics, this edition gives a holistic view of the programme process-

es. This edition has some case studies and more importantly, the case studies reflect the voices of the CSO animators who work closely with the village communities on the ground.

This edition of People Speak, also carries writings of professional journalists who have been traveling through project areas, trying to develop an understanding on how the poor are able to bring change in their lives with a little support from a programme like PACS.

The State-Based Communication Agency (SBCA) has been interacting with CSOs during communication trainings and visits since the last year-and-a-half and have been diligently documenting some of the communication processes which are critical for creating a platform to reflect the voices of the voiceless!

Apart from enabling CSOs to review their achievements and failures, this has also created space for other stakeholders to participate in similar trainings in the future.

The case studies presented here could provide opportunities for further innovations and experimentation in the field of development communication. I would like to acknowledge all those who have worked hard and contributed towards the development of this edition of People Speak. My special thanks to all the resource organizations and the State Manager for making this publication possible.

The objective of putting out these case studies is to make readers get a flavour of the trials and tribulations of the Poorest of the Poor in the state of Madhya Pradesh and Chhattisgarh and share in the small successes and applaud their courage to seek hope, even in the most difficult of circumstances.

**Kiran Sharma**  
**Programme Director**  
**PACS**  
**New Delhi.**

**Sanjeev Ranjan**  
**State Anchor**  
**PACS: Madhya Pradesh & Chhattisgarh**  
**Bhopal.**

**September 12, 2006**

# English Stories

## Meet the Tana-Bana weavers



Satpura Integrated Rural Development Institution's (SIRDI) Tana-Bana project was introduced in 2001 for a year with support from the Canadian Fund for Local Initiatives (CFLI) in four villages of the Pipalna cluster to develop skills among women for economic development, create awareness among them regarding health and nutrition and reduce illiteracy.

Under the project women were supported to earn additional income for household consumption items like pickles, jellies, jams, spices and honey - all produced on a cottage scale in small groups under hygienic conditions. This project got an extension for another year in 2005.

Through the 'Tana-Bana' project 40 tribal women were also trained by a master craftsman from a near by town, Achalpur in spinning and weaving and 36 more were trained by SIRDI under the Christian Children's Fund's (CCF) livelihood project. While some of these women were Mahars, who are traditional weavers of coarse country cloth, other women had undergone training under a Swashakti Project in 2002 and were unable to put to use their training. The women had approached SIRDI looking for work and began collecting Rs 10 each a month in the form of groups.

In continuation of this work, under DFID-supported Poorest Areas Civil Society Programme (PACS), which is being implemented by the Development Alternatives-Pricewaterhouse Coopers Management Consultants, New Delhi, SIRDI has further strengthened its work on development of tribal communities through empowerment of women individually and collectively in 52 villages of Bhainsdehi and Athner blocks of Betul district in Madhya Pradesh.

SIRDI's PACS project seeks to ensure income security to members of 138 women SHGs to further encourage them to effectively participate in the politico-development process through gram sabha, panchayat and other local level institutions.

Handloom weaving work by tribal women for economic support for their families is carried out in two places, one in Pipalna village at SIRDI campus and another in Dhaba village in the community hall of the panchayat.

Currently 76 women are engaged in weaving and allied activities, 40 of them are in the Pipalna cluster and have a full-time job, while 36 in Dhaba village in the Kothalkund cluster have part-time jobs. The decision of sharing by working part-time was taken by women themselves, to ensure that all women in the

group get employment opportunities. By doing half day's work they earn about Rs 40 a day. Earlier, the women were working within their private dwelling but they were only able to make very small durries.

One evening when MLA Vijay Khandwal visited village Dhabha these women gave him an application asking for a community centre where they

**SIRDI's PACS project seeks to ensure income security to members of 138 women SHGs to further encourage them to effectively participate in the politico-development process through gram sabha, panchayat and other local level institutions. Handloom weaving work by tribal women for economic support for their families. Currently, 76 women are engaged in weaving and allied activities, 40 of them in the Pipalna cluster and have a full-time job, while 36 in Dhaba village in the Kothalkund cluster have part-time jobs.**



*The Tana-Bana retail shop Pipalna cluster*

could weave bigger carpets. The building was completed in 2003- 2004 on a piece of land given by the panchayat. Four groups Ujwal, Maya, Badi Sharda and Chotti Sharda work in these centres.

Kala Shridwala who earlier used to work as a labourer says, "I used to go three kilometers looking for work and I would earn Rs 25 to Rs 30." Of the 20 members of the Badi Sharda group she was among the five who was trained and now she is able to make close to Rs 1,000 a month. "I go out for daily labour only if I am free," she says.

Other women working in the Dhabha centre, Damni Kargal, Kalawati Kargal say the money they earn from weaving is now used at home.

The women have registered themselves as a primary Handloom Co-operative Society Limited in Betul district, consisting of seven self help groups who are entitled to access loan for the bank. These women make bedsheets, towels, handkerchiefs, dhotis, dress material, curtain cloth, durries, bhojan patties etc. These items are sold through a shop 'Sahyog' located in Sawalmendha village

and also at the SIRDI Palaskhedi-Bahiram campus.

Apart from this, the products are advertised and sold at state-level fairs and exhibitions. The establishment of a weaving centre and formation of women primary handloom weaving cooperative for sustainable income generation for the beneficiaries, "In the process of learning spinning and weaving skills under the Tana-Bana project, women have learned counting, measurement, financial and marketing management skills," says PACS supervisor Virendra Singh.

Over the years, SIRDI has developed weekly market centres as focal points for maximum interaction with people at one point of time. Facilities/ services/functions located at weekly market centres are utilized to the optimum at a minimum travel cost. Working with a functional community concept cluster approach, the Bahiram-Palaskhedi, Temni, Kothalkund and Pipalana clusters were identified. These are centralized villages around which clusters of villages are located. Sawalmendha is the biggest weekly market in the area and is used as a sub-centre by SIRDI to dis-

seminate information on health, education and information relevant for villagers and hold meetings.

SIRDI's PACS supervisor Virendra Singh says today the women have orders for 10 durries but, they are unable to keep up with the demand mainly because, the women have still to pick up on speed and learn to make this their main livelihood.

For a 12 X 18 feet durry, women take up to eight to 10 days and women are paid Rs 7 per sq feet.

SIRDI coordinator Sunil Kumar Vidyarthi says, "Most women have to look after their home and children as well as agricultural work, so they have to give a break to weaving occasionally."

*Based on information compiled by SBCA*

# Organic farming

Satpura Integrated Rural Development Institution (SIRDI) for the last 25 years has been working in Bhainsdehi and Athner blocks of Betul district in Madhya Pradesh mainly among Korku, Gond, Dalits, Kunbi, Lohar and Badhais. These heavily forested areas consists of a population that is 21 per cent Scheduled Caste and 60 per cent Scheduled Tribe.

The area is rich in teak, salai, bamboo and minor forest produce and people get gainful employment for 40 to 60 days annually during mahua, chironji and tendu leaf collection. However, the fertility of the land is poor and the geographical terrain is difficult with innumerable deep gullies and nullahs.

SIRDI's work over the years and has nurtured links with remote areas through its growth centres, which are weekly markets. There are six such clusters. Sawalmendha which is the biggest weekly market in the area and at Temni, Dhaba weekly markets, Dhar, Banur and Pipalna clusters where SIRDI workers share information with people in the village.

In continuation with its activities in this region on health, education, women empowerment and income generation, under the DFID-funded Poorest Areas Civil Society (PACS) programme, women self help groups (SHGs) of Khapa village (Sawalmendha Cluster), who have long been looking for sustainable economic activity have for the last two years been experimenting with better agriculture practices.

Says SIRDI Executive Chairman Dr Upma Diwan, "On all SIRDI campuses in Temni, Palaskhedhi-Bahiram and Pipalna. We have been practicing organic farming for close to 20 years."

Taking these practices out of the campuses, PACS animators Lalita Soni, Dwarka Gaikwad under went a training at Khargone distirct Kasrawad Tehsil in March 2006 to learn bio-dynamic farming. Supa Biotech, Dehradun, Uttaranchal Pradesh consultant Rajesh Tiwari trained both PACS and other SIRDI local staff.

Four people including Upma Diwan, Malti, Lalita and Dwarka also went to

Biori Sansthan Kasrawat. During their six-day in Kasrawat they learnt how to make Biodyanmic Agriculture Cow Pat Pit (CPP), compost hip, liquid manure and other biodynamic preparation.

"Neem, custardapple, besharam - anything that goats do not eat can be used to make insecticides," chips in Dwarka, explaining how easy was for her to understand the concepts of organic farming.

Lalita Soni explains that they also follow a calendar which tells them when to sow and when to reap certain crops, referring to the astrological calendar that Supa Biotech has devised to help farmers get maximum benefit from their land and crop.

Supa Biotech has devised a biodynamic agricultural calendar for farmers which guides them on when (date) to sow seeds, when to sow and reap root crops like carrot and radish and leafy vegetables like spinach (palak) and fenugreek (methi). Complete month-wise details are given in this calendar keeping in view the zodiac and planetary positions of the sun and moon and 'dashas' since all this also effects crops.

"Farmers following the 'panchang' while sowing and reaping crops have benefiting," claim SIRDI workers. These women brought this training down to the SHGs in Dhywani village - Magri Mata Samuh, Durga Sawyam Shahata Samuh, Neha Sawyam Shahata Samuh, Mahalaxmi Sawyam Shahata Samuh.

In April 2006 this group of enthusiastic women carried out a survey of 40 households and begun experimenting with bio dynamics in Khapa and Dhaywani. Later about 40 women from SIRDI supported self help groups and



SIRDI coordinator Sunil Kumar Vidyarthi went to a Biodynamic field in Dhuliya, Maharashtra for an exposure visit. They gathered information about CPP compost beds, liquid fertilizer, pesticides and other organic techniques and returned to their village to try these experiments. They also began adopting organic techniques of farming in their own fields also.

Women self help groups from Khapa village have made their own CPPs.

When their CPP culture was ready they sold it to SIRD I and got the full value of their product. Seeing this group, other members also began to prepare their own CPP cultures and sold it to SIRD I.

CCF coordinator Sunil K. Vidhyarthi who has been associated with SIRD I's organic farming initiatives, however, says it is very difficult to convince people, who have become accustomed to chemical fertilizers to shift to organic farming so many people who they approached opted to try out organic farming only on one or two acres. "Today if a farmer has 10 acres, he is willing to try organic farming only on two acres," he explains.

After several rounds of meetings and rallies 50 per cent of people in two villages of Khapa and Dhaywani have begun to try organic farming.

In 2006 Magari Mata SHG women approached SIRD I for support to be able to earn more as they were dependent on single crop agriculture which barely provided subsistence. People in the region depend on migration and often after the monsoon crop they have to migrate to neighbouring Maharashtra to work in orchards and cotton picking to earn enough to see them through the year. While some families migrate from 30 to 180 days in exceptional cases some people even up to 240 to 300 days.

Since SIRD I had been working on organic farming since 1992 Dr Upma Diwan urged Magari Mata's Pramila Bai to opt for organic farming to save themselves from this unsettled life every year.

Dr Diwan initiated the women's capacity building in organic agriculture, preparation of compost, biodynamic culture and relevant technology.

Says Gond tribal Raso Bai (40), "In the beginning, all members of the groups made their own culture and it was purchased by SIRD I. Culture can be prepared at a very small cost and we can do this work at our own pace when we are free at home."

Once the culture was ready, she thought why not use it as a fertilizer in their fields. "This year we have used the compost and our crop is good," she says.

Rukmini Bai, 38, "If the work is done on time, it keeps land fit for cultivation for long. Chemical fertilizer is very expensive and we have to take a loan for purchasing fertilizer. But with this fertilizer, we do not have to take a loan." She adds that SIRD I guides them from time to time.

SIRD I hopes this would give villagers higher production and better quality of food and related produce. Pramila Bai, 24, Gond says, "We have less land and we cultivate land which we take on contract and whatever time we have left we make culture. After making the compost bed, we have sown tuvar, moong, urad seeds in this kharif season."

She says while organic farming is cheaper it takes more efforts and is time consuming but admits, "Making and selling culture fetches us more money."

However, Mahadev Tekram, 40, Gond who has been attempting to use organic farming says even this year his crop was not so good. "In organic farming, we have to put in more efforts and we spend more time so this time we used compost fertilizer but crop is not good. Without chemical fertiliser, the crop does not come out well. The effect of liquid pesticides is also very slow."

Such training programmes have encouraged SHG women to undertake preparation of CPP, Culture Material for own use and selling it to nearby families. There are now 85 compost pits in the village.

The Khapa SHG Magri Mata Samuha initiative and positive response from the participating women has meant that other SHGs women have also begun to show great interest in the project. As a result, now the whole village has been covered under organic agriculture initiative after support from Dr Diwan and other specialists.

This also created interest in the adjacent village of Dhyawani and women, from Neha SHG here, also attended SIRD I training programmes in 2006. These women are now preparing culture and compost.

From the 2006 monsoons, 80 families in these two villages have accepted the idea of organic agriculture practices and are trying it out in one acre of their farm land to produce organic 'moong', 'tuar' and 'urad' pulses.

Six SHG groups the group 20 SHGs made CPP and they sold it to Market which further sold it in Maharashtra where PACS supervisor Virendra Singh says. There is a demand for 10,000 tonne of CPP, but at present there are only very few women's groups who are involved in this task".

Despite all the work that has gone in to encourage organic farming there are some challenges that the groups face. The basic ingredient for CPPs, cowdung is not easily available in villages, water is not available during summers to make

the compost bed with CPP culture, dry waste but not green waste is available in summers.

To store CPP, adequate utensils and storage facilities are not available, huge plastic containers are needed for making liquid fertilizer, spray pumps are needed for spraying liquid fertiliser and pesticides and one kg polythene bags are needed for packing of ready CPPs.

To encourage these groups, SIRD I offers assistance to women in making available Biodynamic preparation 502-207, polythene bags of one kg for packing of CPP culture, marketing of culture, spray pumps for spraying biodynamic preparation, liquid, pesticide and guidance to the women according to biodynamic panchang.

SIRD I is manufacturing organic manure and similar products from cow dung with technical support from Supa Biotech, Dehradun (Uttaranchal Pradesh). It is marketed under the brand "Gaay Shakti". The product has the following applications:

- I Compost manure
- II Treating seeds
- III Pesticide & plant nutrient
- IV Liquid manure

Pesticide: Neem, sitaphal and besharam leaves (5 kg each) are mixed in 5 litres of cow urine after grinding them into a paste. The entire mix is then poured into 15 litres of water alongwith 1 kg CPP culture. It is then kept in storage for 35 days; make sure it is stirred every few days. After 35 days, sieve the mixture and separate the residue from the liquid. Take 1 litre of the concentrate and mix it with 7 litres of water and spray in on the crops. This will make sure that pests like caterpillars, illi's etc are destroyed and the plants receive nutrients.

**Other SHGs women have also showed interest and now the whole village has been covered for organic agriculture after consultation by Dr Diwan with other specialists. From the 2006 monsoons, 80 families in these two villages have accepted the idea of organic agriculture practices and are trying it out in one acre of their farm land to produce organic 'moong', 'tuar' and 'urad' pulses.**

In the future SIRD I will help these farmers in certification of organic produce once total stoppage of chemical fertilizers and pesticides is practiced in these two villages. Hopefully chemical free agriculture.

They also provide seeds, arhar, urad and moong for certification and contribute to the grain seed bank.

Cow Pat Pit (CPP) - Manure from a Cow Pat Pit is a useful vehicle or medium for



spreading the influence of the compost preparations 502-207 over a large area of farmland, orchard or garden 60 kgs cow dung gives about 30-35 kg CPP.

### Material

460 kgs cow dung from a fresh lactating cow, given good feed (Trace elements/NPK).

4200 gms Crushed egg shells (Ca)

4200 gms Basalt rock/Blue granite dust or Bore well soil (SiO<sub>2</sub> and minerals)

43 sets of preps 502-506 (3 gm of each)

430 ml of 507 added at 5% dilution)

### Preparation Process

1. Choose a site with good drainage, well-shaded and aerated. A vegetable garden is ideal.

2. Dig a pit 600 cm x 1m x 150mm deep (3'x2'x1')

3. Line the side of the pit with bricks (or untreated timber 300 mm deep). Ensure that the bricks are wet prior to placing the dung. The bottom is not lined.

4. Add water by sprinkling it over the cow dung if dry. Cow dung should not be too dry or too wet.

5. Sprinkle the above mineral (basalt rock, etc.) and egg shells over the cow dung.

6. Mix for 10-30 minutes.

7. Place the dung mixture into the pit to a depth of 4-6 inches (100-150 mm) any deeper would take too long to breakdown into humus. The dung should not be tightly packed.

8. Make six holes 2 inches (50mm) deep after gently patting the dung into the pit.

9. Insert 3 sets of Preps 502-506 individually into the holes by placing each into a handful of compost.

10. Stir Prep 507 in 350ml rain/pure water, alternately clockwise and then anti-clockwise, for 10 minutes.

11. Add half of stirred Prep 507 into the remaining hole.

12. Sprinkle balance stirred Prep 507 evenly over the entire pit.

13. Place a wet jute sack over the cow pat pit to maintain moisture. (Waterproof cover should be raised at one side to allow water to run off and air to circulate.)

14. Once a month gently turn/aerate with a garden fork, leaving the surface level on completion to avoid excessive drying.

15. If manure worms, *Eisenia fetida* (gold banded lavender colour), *den-drobaeria rubida*, or *lumbricus rubellus* (small red), are not already present in the pit, they may be introduced by inoculation to aid in the later stages of the breakdown process.

16. Remove mature CPP in 3 to 4 months.

### Storage

1. Store in an earthen pot placed in a darkroom. A shed may be constructed for storage.

2. Maintain moisture.

3. Use within 6 months.

### Application Process

Apply in evenings in cooler seasons.

### Per acre:

1. 2 kg CPP

2. 40 liters of water

3. Soak overnight prior to application

4. Mix for 20 minutes

5. Strain through a cotton cloth

6. Spray as required.

### Other applications of CPP

1. Stir with Prep 500 (25gms BD500 to 100gm - 1kg CPP)

2. Stir with liquid manures at an approx. Rate of 50gm per gallon

3. Dissolve in water and use as a liquid manure in its own right.

4. Take handful of CPP, add water to make slurry and apply as pruning paste to stop bleeding and help healing.

5. Soak seeds in CPP slurry overnight before sowing.

6. Cuttings can be dipped into CPP slurry also.

### Distinguish green and dry compost

Plant Nutrients are maintained in the soil by addition of composts made from animal manures which are usually combined with plant materials, such as green legume crops and dry strawy material where the organic materials are converted into a stable humus through a fermentation process.

### Compost Making

A mixture of protein rich materials (eg. animal manures, lawn clippings, fresh green grass, leaves and shoots of legume trees, such as glirisidia, erythrina, crotalaria) and carbon rich materials (eg shredded coconut fronds, coir pith, straw, hay, wood chips, dry leaves and grasses) in a proportion of 60% protein and 40% carbonaceous.

Usually the best compost is made in a layering method, with the carbonaceous layer about 10 cms deep, alternating with the protein material which is about 15 cms deep. In this way the protein of the green will supply the nitrogen, that the bacteria require for their growth, to break down the carbon material.

If animal dung is in short supply it can be made into a slurry and watered onto the carbon layer. This will bring the animal effect into the compost and also feed the microorganisms which will break down the dry material. Care must be taken that the dry carbon materials is moist enough. Generally it is best to wet any dry material before it is put on to the heap.

### Use of insecticides

1. Spray,

2. Use 2-3% of herbal extract (of 2-3 material combo) while the pest attack is at early stage.

3. Increase the dosage to 5-6% if the attack is very severe.

# Holistic approach to health

In a rare display of newly acquired power in-terms of Gram Sabha resolutions in the Panchayat Extensions to Scheduled Area (PESA), people of Chandan Nagar, Prem Nagar and other six villages have passed several resolutions not to leave their land for the proposed 1000 MW thermal power plant by IFFCO-CSEB combine. They are not against development but against their livelihood being affected due to these activities.

Indian Farmers Fertilizer Co-op Limited has entered into a joint venture with Chhattisgarh State Electricity Board to set up 1,000 MW power plant in Sarguja district at an investment of Rs 4,500 crore.

Share Holders Agreement (SHA) to this effect was signed recently between IFFCO Managing Director U S Awasthi and CSEB Chairman Rajib Ranjan.

Elaborating on the details of the project, Awasthi and Ranjan said the estimated cost of the power project would be Rs 4,500 crore and the financing would be on 70:30 debt-equity pattern. IFFCO and CSEB would share the equity in the ratio of 74 per cent and 26 per cent respectively, a joint press statement said, adding the JV company would be known as IFFCO-Chhattisgarh Power Ltd (ICPL).

The financial closure (arranging financial resources) of the project is targeted to be achieved by the end of next year. The project would start generating power from 2010. CSEB would off-take up to 90 per cent of power generated from the project.

"It is a pit head thermal power project which shall provide livelihood opportunities to the people of under developed area of District Sarguja

As Chief Minister Dr. Raman Singh on Aug 20, 2006, declared that the process of land acquisition has been completed for the Rs.4500 crores (US \$ 1 billions) 1000 MW IFFCO-CSEB thermal power plant in the dense forest covered Sarguja district, people of these villages have vowed not to leave an inch of



land till their last breath if the government did not compensate them on a land-for-land basis. In fact, on Aug 14, 2006, at the specially convened GS at Chandan Nagar which was presided over by the additional Collector, a proposal was passed against the power plant. Another resolution was passed in the Gram Sabha in the same village on Aug 20, 2006. Similar resolutions have been passed in the villages of Abhaypur and Namra panchayats.

Thanks to the efforts of Margadarshak Samajsevi Santhan (MSS), a PACS partner which is engaged in creating awareness on civil rights and empowerment of Panchayats, people are now taking proactive steps to safeguard their rights. And passing resolutions in Gram Sabha against such activities has been the main action they are resorting to.

Admitted Ghasiram, chief of Prem Nagar. "Now we know how to use the gram sabha for the benefit of our people. The initial victory being that we have so far able to keep the power plant protagonists away from taking our lands, the chief minister's claim notwithstanding" he added.

Kalam Sai, a member of the 'Gram Seva Parishad (GSP)' under the banner which people are fighting against the power plant made it clear that they would resist all movement of the state government till they are not provided suitable compensation along with proportionate land- for- land deal.

Mehendilal, who is spear-heading the GSP, said all detailed proceedings of the gram sabhas have been submitted to the state administration as well as to the state government on regular basis. He expressed his surprise over the CM's declaration on land acquisition and said it was the gross violation of Supreme Court (SC) ruling on Samatha case. "In the Samatha case, the SC had made it clear that no land could be acquired by the government if the respective Gram Sabhas did not consent for it. And here, the day Several GSs have passed resolution against the plant, the chief minister said land acquisition was completed," he said.

The proposed power plant needs about 4200 hectares of land near the Tara Block Coal reserves, which in turn will displace more than 31 villages because of coal mining, water reservoirs and captive equipment and plant and machinery .

**As Chief Minister Dr. Raman Singh on Aug 20, 2006, declared that the process of land acquisition has been completed for the Rs.4500 crores (US \$ 1 billions) 1000 MW IFFCO-CSEB thermal power plant in Sarguja district, people of these villages have vowed not to leave an inch of land till their last breath... In fact, on August 14, 2006, at the specially convened GS at Chandan Nagar which was presided over by the additional Collector, a proposal was passed against the power plant. Another resolution was passed in the Gram Sabha in the same village on Aug 20, 2006. Similar resolutions have been passed in the villages of Abhaypur and Namra panchayats.**

# Community celebration!



The Bard of Avon's immortal words 'What's in a name . . .' is a matter of truth for many Gond tribals. Naming a new born, though imperative, is an expensive proposition, and therefore often postponed, sometimes indefinitely. But the youth in Thanamgaon of Niwas block of Mandla district hit on the perfect solution.

Often a naming ceremony costs upwards of Rs 2,000 and involves feeding almost the entire village. For those living on the edge of poverty, it could mean using up a lifetime's savings, or a lifetime of bondage to the moneylender. That's when the Thanamgaon's youngsters hit on the idea of a mass naming ceremony, with the villagers' pooling in their resources and helping each other out.

However, it is not something that happened overnight. Thanamgaon was like any other village until the DFID-funded Poorest Areas Civil Society (PACS),

implemented through partner civil society organisation (CSO) Kamyab Yuvak Sanskar Samiti, began creating awareness about self-help groups. Like elsewhere, the concept was treated with some suspicion, but various groups came into being, and the youth of the village decided to network themselves as well. The problem of the naming ceremonies presented the ideal challenge.

"It was something that was constantly at the back of the minds of the villagers. So we decided to hold a mass naming ceremony since it would solve everybody's problems. We identified about 25 infants who had to be named. The families of the infants paid Rs 200 and contributed 20 kg of grains, while each of the other households in the village paid Rs 5 and contributed one kg of grain. It was a complete community thing and a great success. The whole village turned up because everyone felt it was their event," Sarpanch Samir Singh says.

A view of Thanamgaon with Samir Singh (inset)

The event was such a resounding success, that the group is planning is something more ambitious - a mass marriage. "If a naming ceremony is expensive, a marriage is even more so. Now the villagers are also aware of the benefits of such an exercise and are more open to the idea of such community activities. We are planning to conduct a mass marriage so that the expense is shared and the whole community participates. We feel it is much better this way," he says.

For the youngsters, such initiatives are seen as an essential part of becoming self-reliant as well as uniting the whole community. The self-help groups, whether women, farmers, youngsters or forest, are units for spreading awareness and bonding. Through the groups, the village has seen development and improvement of livelihoods.

# The washing powder experience



Getting to Lutgaon, a tiny little village of Amarpur block in Dindori district could pose a substantial problem. The road is bad, there are few directions and the terrain is inhospitable. Worse still, travelling has to be done beneath a blazing sun and the scorching heat radiated by the earth.

Lutgaon itself is more of an overgrown hamlet, with houses scattered over a few rough roads. The villagers are hardworking, trying to make ends meet with whatever employment they can get. And in times of distress, the men often travel for hours in an attempt to find employment and sustenance.

A few years ago, when the DFID-funded Poorest Areas Civil Society (PACS) was initiated through the National Institute for Women, Child and Youth Development (NIWCYD), the villagers realised the potential benefits of forming groups. Especially successful

has been the Lakshmi self help group formed by 10 women members of the village.

"Forming the group has been a good thing. Even though we do not save much, we have realised what is possible through such a group. Not only has it helped us in improving our finances but has served as a forum to discuss various problems, whether domestic or things pertaining to the village," says group president Shivavati Dhumketi.

However, the group quickly realised it needed to get ahead. "After our group account had accumulated enough funds, we thought we should do something about it. We discussed it and decided we should make washing powder (detergent). We took some training, then bought the ingredients and mixed them ourselves. We then sold it in the village itself. The materials cost us Rs 8 and we sold it for Rs 10, making a profit of Rs

2. But even with that it is much lesser than what we get in the shops, and for which we have travel a distance," Shivavati says.

According to her, whatever they are producing now is being consumed in the village itself. "But we want to make more and sell it to the shops outside. For that we need to do proper packaging and everything else. We also want to expand and made bar soaps, but for that we required training and it will take a little longer, but we are determined," she says.

Says NIWCYD'S Ganesh Kaiwart, who has been working in the village: "The positive changes are something that are amazing. These are the same people we had so much trouble to even get them out of their houses to meet. But after the groups were formed and they realised what is possible, they are keen to explore many things. They are united in their fight for getting BPL cards and in pressing for work for their village. It is heartening to see these

changes."

**"After our group account had accumulated enough funds, we thought we should do something about it. We discussed it and decided we should make washing powder (detergent). We took some training, then bought the ingredients and mixed them ourselves. We then sold it in the village itself. The materials cost us Rs 8 and we sold it for Rs 10, making a profit of Rs 2. But even with that it is much less than what we get in the shops, and for which we have travel a distance," Shivavati says.**

# Capacity building: the route to success



After the end of ambitious intervention programmes, often times, both the intervening organization and the government find that the structure and the programmes frequently collapse and disappear without a trace since not enough thought is given to establish a mechanism that can sustain it.

In stark contrast to many such programmes which believe in the top-down approach, the DFID funded Poorest Areas Civil Society (PACS) programme underway in Madhya Pradesh relies on creating awareness about rights and strengthening the approaches of villagers, especially in areas where it is run by the National Institute of Women, Child and Youth Development (NIW-CYD) through its nine network partners.

It is difficult to gauge and measure the success of a programme such as this since there are no measurable parameters. And the indicators are not always

uniform since so much of it depends on people's own initiative. But surprisingly enough, the results are not only heartening but an eye-opener and a treasure-trove for social anthropologists.

"We never knew what we could do before when we ran into problems and we used to just teach ourselves to live with our problems. Now, we have a voice, the confidence and awareness to fight injustice," says Shankarlal Marskule, gramdoot of Kataral village in Betul district.

Marskule, in fact, sums up a sentiment that is heard with regular frequency in village after village where the PACS programme is running. The facilitating civil society organization (CSO), with its band of local field workers, usually begins collecting people, and attempts to create awareness about rights and the need to fight for them through unity. Whether it is women's empower-

ment, livelihood or any of the core themes, the approach is to 'talk to' and never 'talk at.' The effort is always to educate and enlighten the villagers and convince them to fight for one's rights and that it is also possible to take a path that need not necessarily lead to confrontation. Seldom does the CSO go in with guns blazing since the emphasis is on capacity building.

"There was no unity before; we never even thought of forming a group since we had no idea what it could achieve. After the CSO spoke to us about and convinced us of the benefits, we reluctantly agreed to form a women's self help group. But we soon realized what we could achieve. Now we meet before the day the gram sabha meets, to decide what issues we need to take to the meeting. We have successfully raised issues

## People Speak

like pension for widows and education of the village children," says Sukhwati Bai, president of the Matrushakti Samuha of Jamania village in Sonpur block.

In the middle of Baigachuk, remote and difficult-to-access Dhaba is a tiny tribal village of over 20 households, whose lives are intertwined with the forest. But for years, the community was mute witness to the forest department's indiscriminate felling of trees and the department never even thought to consult them.

"When we formed the local forest committee, we realized we do have a say in this matter. After all, we do look after the trees like our children. Last year, we protested against their arbitrary method of marking trees for felling and refused to let them enter the forest. Finally, the department agreed to cut only those trees which we approved since the officer in charge was sensible. Now things are on an even keel and we share a cordial relationship, since the department has grudgingly accepted that the forest is part of our lives," says Shankar Singh, gramdoot of Dhaba village.

Creating awareness and providing information to make informed choices brings with it a whole new perspective and its attendant benefits. Not just standing up for rights or fighting with the administration, but creating and establishing unified institutions has meant better livelihoods as well.

"Our area is very rich in cash crops. But unfortunately, people never used to discuss things about their crops like farming methods, good practices and

**"When we formed the local forest committee, we realized we do have a say in this matter. After all, we do look after the trees like our children.**

**Last year, we protested against their arbitrary method of marking trees for felling and refused to let them enter the forest. Finally, the department agreed to cut only those trees which we approved since the officer in charge was sensible. Now things are on an even keel and we share a cordial relationship," says Shankar Singh, gramdoot of Dhaba village.**

such things, because they thought revealing such things would take away their advantage and they would end up losing money. But after the formation of farmers' groups, such discussions are free and frank and villagers even visit each other's farms to learn.

It is not too difficult to draw conclusions. Creating awareness on a range of issues and building capacity is evidently better than any kind of short term outside help. Not only is it more sustaining, but is a learning process which enables putting up mechanisms perfected after



Not only has it brought about unity, but it has also helped them to put up a united front against middlemen trying to cheat them and family finances have improved in many cases," says Kishore Nikhar of the Ardh Adivasi Vikas Sangh in Sardoni.

trial and error. Better still, the community can constantly improvise and improve on it depending on its needs and circumstances. So the chances of survival and sustenance are better since the community will protect it as it has evolved from among its own.

# Woman power: Moving far beyond making ends meet



► Pushpa Gole of Golebujurg village in Shahpur block of Betul district is spearheading a campaign that is close to her heart - egging on fellow villagers, especially the men, to begin a protest against the illegal sand quarrying from a river bed near the village. Though the villagers get crucial wages from the activity, she is more worried that the village is losing out on royalty that should, in reality, accrue to the village and the gram panchayat.

► Indira Bai of Dhaba village, deep in the heart of Baigachuk, was at the forefront of a pitched battle between the administration and the village, protesting against contractors using tractors and mechanized equipment for digging and clearing rubble for a community tank. The villagers' persistence won and finally all the work is now being done by vil-

**Pushpa Gole of Golebujurg village in Shahpur block of Betul district is spearheading a campaign that is close to her heart - egging on fellow villagers, especially the men, to begin a protest against the illegal sand quarrying from a river bed near the village. Though the villagers get crucial wages from the activity, she is more worried that the village is losing out on royalty that should, in reality, accrue to the village and the gram panchayat.**

*Women from Dhaba village who had their say in cutting forest trees.*

lagers, bringing them some vital financial sustenance.

► Shantabai of Kund Bakajan village in Bhimpur block of Betul district was so taken in by concepts of cleanliness and hygiene that she was aghast at the conditions under which the mid-day meal was served in the local school. Not only did she create awareness among other women but led them in campaign to get the person responsible replaced. Now the children not only get wholesome meals, but cooked and served in hygienic conditions.

At a time when woman power is seen either as a fashionable term or a cliché, tiny examples of women taking deci-



*Shantabai of Kund Bakajan village in Bhimpur block of Betul district*

sions for the good of the family, or better still, for the collective benefit of the village, and then persevering to accomplish them, are springing up all over Madhya Pradesh where the DFID-funded Poorest Areas Civil Society (PACS) programme is under implementation through the National Institute of Women, Child and Youth Development (NIWCYD) along with nine network partners.

There are no drastic changes, no tangible 'things' to show for the transformation. Instead, the differences are mostly internal. But show, they do, in a variety of ways. It is difficult to decide whether the entire change can be attributed to the formation of women's self help groups, but in the absence of any other common factor, the credit probably is well directed.

It would be no exaggeration to say that the formation of self help groups (SHG) under the PACS programme has ushered in a revolution in women empowerment that has rocked the menfolk back on their heels. From financial self-reliance to bringing issues to the table at gram sabha meetings - women are leading from the front and making a difference in their lives individually as well as collectively. More logically, the formation of groups has facilitated a

platform for women to save a small monthly sum, which is then loaned out for practical needs like illness or death in the family of members. Most groups have also used the collected sum to start commercial ventures and share the profits generated. All of this has led to improved livelihood and financial independence. Of course, it requires no economist to pontificate on the fact that financial independence leads to self-reliance, confidence and the inspiration to go further. "Things are different now. We never thought about these things and we rarely used to come out or talk about such things. But now, we get respect and our voice is heard. We attend meetings regularly and raise issues that we think are vital for the well being of the village. We never used to bother earlier, since we were more worried about making ends meet," says Pushpa.

It's been no easy ride; women have had to face opposition, especially from the men who viewed the concept of such groups and unification as alien. "We used to be very scared of doing any thing like this earlier. We did face some resistance earlier, especially from the menfolk, but we managed to bring them around. We have learnt and become aware of many things. We had no idea that unclean surroundings could be dangerous, but after we realized, we

launched a cleanliness drive and the village is spick and span today. It has reduced diseases to a certain extent," says Shantabai.

Women have themselves realized the strength that comes from unity. "We had no idea before what we could do, achieve things which seemed insurmountable earlier. We go together to meetings now and decide on issues that have to be raised. We have had a lot of success in focusing attention on widow and old age pension and we fought for the fights of our villagers," says Kalavati Bai, president of the Jai Ma Sharada SHG of Newari village in Chindwara



*Pushpa Gole of Golebujurg village in Shahpur block of Betul district*

district. Such examples abound in pockets of six districts of Madhya Pradesh where the PACS programme is running. The quiet confidence that has been instilled in many of the women has come from networking and stabilizing their finances through a variety of group activities.

**"We had no idea before what we could do, achieve things which seemed insurmountable earlier. We go together to meetings now and decide on issues that have to be raised," says Kalavati Bai.**

## Decision making: moving from the hands of a few to the masses



Away from urban centres, India's thousands of villages are bastions of the country's myriad practices - some good, some bad and a few downright parochial. In most villages, even today, tradition and hierarchy are practised with surprising zeal, simply because the villagers are often caught in vicious financial traps.

An intrinsic part of this hierarchy is the concentration of power and decision-making process in a few hands, electoral democracy and the 73th amendment to the Constitution notwithstanding. But there are signs of gentle change sweeping slowly across parts of Madhya

Pradesh where the DFID-funded Poorest Areas Civil Society (PACS) programme began five years ago.

Among its many focus themes is the emphasis on governance, where PACS aims to create awareness and then build their capacity to voice their opinions through the Panchayat Raj system, to hold democratically elected representatives accountable for creation of assets and delivery of services.

It is not as if the changes occurred overnight, what with concepts of hierarchy and power centres being ingrained for centuries. Initially the villagers were sceptical and reluctant even, to upset the

*Pic 1 : Kishore Nikhar (right) and Gajanan Mahale of AAVS which works in Sardoni, Chindwara district.*

apple cart. But slowly, villagers in many of the villages where PACS is being implemented, realised that it is possible raise their voice even as it is possible to work alongside the administration and the top order.

"It is fascinating to see the gradual change in equations, even in the power structure. Except for those who were politically inclined, villagers, more so women, never came to gram sabha meetings. In fact, meetings were held very

infrequently and those who controlled power took unilateral decisions. But things have changed and so has the thinking. Not only do people attend meetings, but demand transparency, accounts and clarity. They even confront their political leaders and the officials about various things," says Kishore Nikhar of the Ardh Adivasi Vikas Sangh, a partner civil society organisation working in Sardoni of Chindwara district.

Once they got going, it seemed there was no stopping them. From issues of livelihood to those that concerned the common good of the village, everything was raised, discussed and those in power were held responsible and accountable.

Take the instance of Chinchagaon village of Sonpur block of Chindwara district, where it was a question of the children's education. "A couple of years ago, the school teacher was transferred and nobody was posted. We were worried about the children's education; more so because the teacher was really good and we wanted him to remain. Earlier, we would probably not have done anything, but with awareness, we raised the issue in the gram sabha and fought for it. Our efforts paid off and we were able to retain the teacher," says Ramesh Kumar Navare, gramdoot of the village.

Or the case of Jamania village in the same area. "The administration is notorious for ignoring people's wants, especially benefits that should accrue to us. And if the issue is something like old-age or widow pension, it becomes all the more problematic since these are marginalized sections. But after the formation of our self help group, we not only raise issues that concern the entire village but we have also successfully taken up causes like widow pension," says Sukhwatibai of the village.

Sometimes, the process has thrown up astonishing results, where the villagers, having tasted the kind of power they can wield, have gone on to improve the system and make it work for the common good of the entire village.

Like the case of Thanamgaon of Niwas block in Mandla district where the villagers are so highly aware that planning experts can take a leaf or two from their experience. Says Samir Singh, the young Sarpanch of Thanamgaon, who is himself a product of a highly informed electoral process during the last Panchayat Raj elections: "Gone are the days when a handful of people decide on behalf of the village. Now the agenda for the village is set after the entire village is informed. All government schemes and programmes are dis-



Pic 2 : Sukhwatibai of Jamania village

cussed. The work plan for the year is

**"A couple of years ago, the school teacher was transferred and nobody was posted. We were worried ... more so because the teacher was really good and we wanted him to remain. Earlier, we would probably not have done anything, but with awareness, we raised the issue in the gram sabha ... Our efforts paid off and we were able to retain the teacher," says Ramesh Kumar Navare, gramdoot of the village.**

finalised only after the entire village is consulted and has given its consent. The

process of drawing up plans and financing them has also undergone a lot of change - we now prepare micro-plans and the whole village is aware of what is in store for the village for that year."

It is said that for a democracy to work, all its citizens, irrespective of status, should have the capability to question its representatives and take part in the governance process. By no account has this been achieved. But the first beginnings have been made. There have been setbacks and failures, disappointments and frustration. Yet, in village after village, the heady feeling from achievements is inspiring citizens to persevere and succeed.

# PACS is more than just a one-time programme: CSOs

PACS is more than just a one-time programme: CSOs

The success of a programme is usually gauged not only by what results it directly yields, but its capacity to sustain itself and the ripple-effect it can create.

Shunning the top-down approach and active intervention, the DFID-funded Poorest Areas Civil Society (PACS) programme underway in Madhya Pradesh chose to follow an entirely different path - capacity building and awareness towards self-sustenance.

Across southern MP where the programme is being implemented by the National Institute of Women, Child and Youth Development (NIWCYD) in 450 villages of four districts with the help of nine network partners of civil society organisations (CSOs), the results are visible in varying degrees, but it is evident that the changes have occurred in more than just the target audiences.

"PACS has done some really wonderful things. Because of the way it is implemented and because of its goals, migration has reduced and 70 per cent of small loans are met from within the groups in the communities and they don't go to the moneylender any more for such things. But the biggest difference has been women's empowerment and the opportunities it has created for them. In some 30 villages that we handle in Betul district, more than 300 women have begun their own businesses with various things like candles, agarbathi,

**"PACS has done some really wonderful things. Because of the way it is implemented and because of its goals, migration has reduced and 70 per cent of small loans are met from within the groups in the communities and they don't go to the moneylender any more for such things. But the biggest difference has been women's empowerment and the opportunities it has created for them."**



*Dhurandhar Bhakre of Gram Kalyan Seva Samiti.*

poultry, chyawanprash and selling various like things like grains and mahua," says Rekha Gujre of Pradeepan.

She should know. From her area of operation has come the example of Sunitabai Vikhe, a tribal woman who hardly knew Hindi a few years ago but became the Sarpanch on a reserved seat. But she made bigger news when she fought the elections for a second term, and won, on an unreserved seat and a greater majority than the previous time.

"The transformation has been amazing and it has really been good to be in the midst of that process. Just because they are poor and from villages, we assume they are not intelligent, but that's a wrong assumption. The single most important thing they lack is awareness, but once that it provided they will internalise it. They pick up very quickly but

the most surprising thing is that they will then take it forward and come up with some of the most innovative ideas. The credit probably must go to PACS for the way it set up the ideals" says Shamrao Dhavle of the Gramin Adivasi Samaj Vikas Sanstha, which runs the PACS programme in Sausar block of Chindwara district.

But a bigger success has been the fact that PACS has inspired people beyond the boundaries of its implementation. "So successful has this method been that people from villages where PACS is not implemented have been inspired and have picked up things like forming groups and holding gramsabhas and implemented it on their own. We are glad of this and we throw open our train



Rekha Gujre of Pradeepan.



Srikant Chaturvedi of Kamyab Yuva Sanstha.

that they can fight their own battles and stand up for themselves long after all of us are gone. It is this confidence, this belief in one's own self that is most important."

There are hiccups galore and implementation has depended a lot on the motivation of the CSOs and their field workers. But even where the links are the weakest, there have been results, however feeble. That, probably, is the greatest contribution of PACS.

## PACS has created the atmosphere for social mobilisation: Rajesh Malviya

When the DFID-funded Poorest Areas Civil Society (PACS) programme began in 2001, most civil society organisations (CSOs) that came on board were a little perplexed due to the different kind of approach that it advocated.

But as the programme draws to a close, the lessons it has thrown up are being keenly analysed. As lead CSO for Madhya Pradesh area, the National Institute of Women, Child and Youth Development (NIWCYD) has been implementing the project in 450 villages in 16 blocks of four southern districts through a network of nine CSO partners.

As head of NIWCYD and project coordinator, Rajesh Malviya is clearly impressed with the programme and the learning process it has led to. He talks about PACS and its effects in an interview. Excerpts:

**Q: What according to you is the biggest attribute of PACS.**

A: Poverty is the biggest problem in these tribal districts and the issue of sustained livelihood of the tribals has been a big concern. So poverty alleviation is probably the biggest goal of PACS but it is being done through capacity building, and creating awareness of government programmes and policies and the way they are implemented. The most important characteristic has been that of capacity building.

**Q: How was the networking process accomplished?**

A: Because of the nature of the programme, it was essential to partner with CSOs who would be able to understand

building, giving access to information and making the rural poor strong from within so that they can sustain their lives and stand on their own feet for whatever they want," says Shrikant Chaturvedi of Kamyab Yuva Sanskar Samiti, whose organisation is implementing PACS in Niwas block of Mandla district.

But the mindset changes among the target groups is not the only thing that has happened. It has led to more fundamental changes. "In the process of implementing PACS, it has strengthened us as well, since it has taught us to view things differently. We have learnt that instead of propping something up, it is best to create awareness and build their capacities and withdraw because only then can they sustain themselves," he says.

So what happens when the programme ends in early 2008?

Says Dhurandhar Bakhare of the Gram Kalthan Sewa Samiti, which handles the programme in remote villages of Sonpur block of Chindwara district: "The greatest attribute of this programme has been the fact that it has made the villagers, especially the poorest of the poor, aware of their strengths, their rights and capabilities. This is not a mean achievement. The villagers have become so confident

ing sessions for anybody so that the process can spread far beyond the demarcated boundaries," he says.

"The biggest difference between PACS and any other project is the approach. It was never top-down but bottom-up. The goal was never to create any infrastructure, so in that sense there can be no hard results to see. But I believe the results are much more important since the emphasis is on capacity

the concepts and take them forward. Of the nine partners that we are working with, some were those with whom we have been associated earlier while others came on board through the partners we already had.

There were a few problems because the method of working was different. But I feel, it was also easy to work with because the programme has been process-driven and transparent. In the process our capacity has also increased.

**Q: What has been the experience with the government?**

A: It was quite surprising actually. A lot of the time, we found that the government officials were actually eager to help because they wanted the programmes to reach the people and realised that it was best to work with NGOs who already had the communication lines to the villagers. It probably saved them the time and energy that would have been spent if they had to do it themselves and we were an excellent via-media.

**Q: What according to you have been the most important consequences of PACS so far?**

A: As part of capacity building, I think it has most heartening to see the rise of local leadership, especially among the youth. The concept of gramdoot (social volunteer) has had amazing results.

In our area of operation, there are 450 gramdoots, one for each village, who are chosen by the villagers to interact with various agencies. These people have grown into positions of greater responsibilities, getting elected to the Panchayat and even becoming Sarpanchs. At least in 50 per cent of the villages, the change is very visible. This has strengthened grassroot level capabilities as these people act as catalysts for implementation of government policies and schemes.

**Q: How successful do you think PACS has been?**

A: If people, at the poor and rural level, are making time for social and development issues, especially those issues that are capable of affecting their personal and community life, this is the



Rajesh Malviya, NIWCYD, Nagpur

biggest achievement. For these people, the struggle for livelihood and earning two meals a day is all encompassing. That they are interested in the welfare of the community as a whole is in itself a commendable achievement.

PACS has certainly created the atmosphere in the country for social mobilisation and created awareness of the government's social responsibility while paving way for the development of social leadership.

It has also made people realise that for total change, the government has to work with CSOs and only a joint effort can achieve proper development. We have also realised that for anything to sustain itself, we have to make the villagers aware, build their capacity. Only this can lead to change from the ground level which will in turn be sustainable.

**PACS has certainly created the atmosphere in the country for social mobilisation and created awareness of the government's social responsibility while paving way for the development of social leadership. It has also made people realise that for total change, the government has to work with CSOs and only a joint effort can achieve proper development. We have also realised that for anything to sustain itself, we have to make the villagers aware, build their capacity.**

# Land grabbing scandal in Govardhan (Tambapara) village



Mr. Chhatrapratapdev Dugga, son of Mr. Devlal Dugga (Member of Legislative Assembly from Bhanupratappur, Dist. Kanker, Chhattisgarh) and his two brothers illegally bought and or encroached around 72.25 acres of land in 2005 at village Govardhan (Tambapara), Gram Panchayat- Kulgaon, Dist. Kanker, Chhattisgarh.

This land includes village pond, public land, revenue govt. land of farmers, the distribute ceiling land of landless, village forest & other properties. Mr. Chhatrapratapdev Dugga himself is a tribal (belongs to Gond tribe) and bought the land from the Adivasis with the use of muscle power and other means of forgery.

The village pond was constructed before 3 years by the village Panchayat with the help from the govt., whose are

as around 5 acres. Dugga brothers are cultivating fish in this pond and not allowing the villagers to other into it. Around half km of the village road has fenced to mark their landed property. However the revenue department was forced to defense it. Still the barbed wire is lying there.

They (Dugga brothers) are threatening to break legs if anybody enters their land, which is against Human Rights. Around 20.36 acres of revenue govt. land belonging to villagers has been encroached or bought through forgery. He has also encroached 9 acres of land of lend less farmers, which they govt. from the government during land ceiling before 25 years. They also cut big trees from the revenue land and village forest.

They have used these trees in their bricks factory and house construction. When the villagers did protest it, he

threatened to send them to jail. Thus the villagers did not approach the police or administration. Mr. Dugga has also encroached 7 acres of land which was

**They (Dugga brothers) are threatening to break legs if anybody enters their land, which is against Human Rights. Around 20.36 acres of revenue govt. land belonging to villagers has been encroached or bought through forgery. He has also encroached 9 acres of land of lend less farmers, which they govt. from the government during land ceiling before 25 years. They also cut big trees from the revenue land & village forest.**



unused or used as crematorium. The villagers filed a complaint against Chhatrapratapdev Dugga with the Tahshildar, Kanker on 3rd Jan, 2005. However, the Tahshildar, revenue inspector and the local patwari did not listen to the complaint due to the influence of the culprits father, who is a sitting M.L.A. in the Chhattisgarh State Legislative Assembly. When the villagers did not get justice in getting back their landed properties, they approached Ekta Parishad, Bastar to justify their land rights.

The first step taken by the Ekta Parishad was on July 27th, 06 when they questioned the legality of cutting thousand of trees by Chhatrapratapdev Dugga at village Govardhan. They sent a petition to the District Magistrate Kanker to enquire into the land scandal, the role of Tahshildar, revenue inspector and the local Patwari in it. When there was no response from the District Administration regarding the land scandal, Ekta Parishad sent a memorandum to the Chief Minister & Revenue Minister (Chhattisgarh State), District Magistrate & Superintendent of police,

Kanker dated on 27th July 06. On 2nd August 06, Ekta Parishad, Bastar organized a peaceful foot march rally from village Govardhan to Dist. headquarter (around 15 km.) After a rally inside Kanker Town, they submitted a memorandum to the Chief Minister through the District Magistrate. On the same day, the co-coordinator of Ekta Parishad, Bastar released a press note.

It claiming that the sons of Mr. Dugga have used muscle power and forgery to buy the land of innocent poor Adivasis of village Govardhan (Tambapara). It is inhuman as they are the owners of this land five generations. No villager knows the seller of this land as it is evidenced from the statements of some elder persons. Ratneshwar Nath also added that the local Patwari (Ishwar Sing Netam) and Naib Tahshildar (Thakur) is directly responsible for this scandal. The MLA Mr. Devlal Dugga is indirectly responsible for it. Thus the enquiry committee consisting of SDM (Mr. Soni), Patwari and the Naib Tahshildar is laughable. Nath also added that the use of muscle power by Mr. Chhatrapratapdev Dugga to threaten innocent, poor Adivasi and to

**Ekta Parishad, Bastar, demanded CBI enquiry in to the land grabbing scandal. The said land was illegally registered on 01-02-2005. In 2006 rice was shown with the help of 4-5 tractors and trees were cut in 3-4 acres of land with the help of Pokland Machine. The number of plants was not mentioned in the forgery registration. In this grabbed land, 1.5 lakh plants were cultivated and taken care of by the villagers.**

cut trees has been a national issue. Ekta Parishad will try its best to bring justice to the poor innocent Adivasi and punishment to the culprits. Ekta Parishad demanded an enquiry into the land scandal of Govardhan through the Lokayukta. The present enquiry committee constituted by the revenue depart

ment can not be trusted as it constitutes people who have helped exploit the system to get land in their name.

Thus, enquiry through Lokayukta is a must to bring out the reality. Mr. Nath claimed that the registration of the said land by Mr. Dugga is completely forged. The making of the forged registration by the revenue officials, politicians and dalals does not mean the transfer of poor Adivasi land to some body else. The villagers have cultivated and saved around 2 lakh plants in the village forest. The law says that this land should be under the control of the villagers. Thus it is a crime to displace the Adivasi from their land and habitation.

It is also against the norms of tribal development. It is very much undemocratic to constitute the enquiry committee with the same officials who have helped the culprit to buy the land illegally. The Dugga brothers are using saw machines to cut the trees.

The Patwari and Tahshildar are doing all forgery under the protection of Mr. Devlal Dugga, the MLA from Bhanupratappur.

Ekta Parishad demanded (1) Enquiry by the Lokayukta, (2) Protection to old woman Phulmat Bai and to register her protest and (3) To stop Dugga brothers and their associates in threatening to villagers and Ekta Parishad workers.

Devlal Dugga is the chief of the tribal cell in the state unit of Bhartiya Janta Party. It is unexpected and unfortunate that a leader of his stature in giving protection to his sons in harassing innocent poor Adivasi. It can also be perceived the BJP's concern for tribal development. If Mr. Dugga has a little bit of thought for his adivasi brothers, he must return the land which was grabbed by his sons. If he can not do it, he must resign.

Ekta Parishad, Bastar, demanded CBI enquiry in to the land grabbing scandal. The said land was illegally registered on 01-02-2005. In 2006 rice was shown with the help of 4-5 tractors and trees were cut in 3-4 acres of land with the help of Pokland Machine. The number of plants was not mentioned in the forged registration. In this grabbed land, 1.5 lakh plants were cultivated and taken care of by the villagers. There is also huge irregularities in the trading of this land, which brought loss of lakh & crore of rupees to the revenue department. Ekta Parishad sent a petition to the Chief Minister of Chhattisgarh through the District Collector. They got it signed by local labourers, farmers, rally people and sympathizers of tribal cause.

In relation to the rally and petition, on 2nd August '06 Mr. Chhatrapratapdev Dugga, his body guard Ranjan Dhruwa and other anti social elements went to Govardhan village and scolded to elders, woman and Ekta Parishad members. Ekta Parishad filed on FIR in the local police station against Chhatrapratapdev Dugga.

Currently Parivartan is engaged in four important movements:

▶ There is an Asia Development Bank (ADB) funded project whereby a 13 km road is to be built as bypass to Kanker. After the survey, over 350-acre adivasi agricultural land from 18 villages is to go into it. This is not permissible under PESA without permission from Village Councils. The ADB and govt. are either bypassing, manipulating or fudging such permissions. Parivartan has organized the people and an indefinite strike is continuing. People are protesting at the Distt HQs, sub-divisional hqs, police stations and road building agencies. Rallies and foot marches are on, Memorandums and petitions are being submitted too. Now the media is also highlighting the issue. Political parties are joining the fray. Neither ADB nor govt. seems willing to give in. Atmosphere is surcharged.

The struggle is likely to continue for long.

▶ Seventy two acre agricultural and village common land and some govt. land has been 'purchased' by the local MLA (Member of Legislative Assembly); he himself is an adivasi and belongs the ruling political party. The land has been 'purchased' in connivance with the bureaucracy. He, his sons and the mafia are not allowing people access to it. Apart from agricultural fields, the land has common grazing grounds, pond, school, two temples, mineral beds and of course close to 100 000 trees. According to govt. rates, the total worth of the land and the resources thereon/in comes to over Rs. 150 million. He has paid only Rs. 0.7 million as per entries in government records. Access to the land and resources is being denied through muscle power and manipulation of law. Parivartan has raised the issue in a very big way. The ruling party's hedging outfits are coming out on streets maligning Parivartan. This land-grab is amongst the hottest topics in Bastar now. The ruling party, bureaucracy, mafia and the trading class (because of their anti-adivasi bias) are quite together on the issue. However, the MLA is getting on the defensive now, ready to apologize, hinting that he would vacate the land (though not saying a word on the trees

which are obviously many times more costly than the land, or the hundreds that have already been felled and money pocketed). I do not think this is a change of heart so much as a strategy to gain time, ward off the intense heat of the moment and re-mobilize his resources. At the moment the media is strongly with the people and Parivartan; but as time passes it may cool off (such being the nature of modern media). Village meetings are going on practically every day; then there are rallies, petitions etc, though protest rallies are not being allowed so they have to be converted to Attention Drawing Foot Marches. Political parties are joining in; but they clearly want to use the issue to malign the govt. and gain power.

It is evident from their village visits, meetings with Parivartan and press releases that land-grab, its reversion back to villagers and punishment under the law are not so much the issue for them. Hence, with entrance of parties the main issue runs the risk of being side-tracked. People face a double challenge now: to keep the issue from being hijacked and to keep the parties at a healthy distance. Clearly, it will be a long drawn battle.

▶ Kawardha is another district where Parivartan has strong adivasi organizations (Baiga Mahapanchayat) under PACS programme. Lately, when about 2000 Baiga adivasis were on a sit-in at the district hqs, peacefully demanding land for livelihood, they were severely beaten up by the police and forced to disperse. After such beating and dispersal they have been implicated in false cases. Now they have again re-organized and are again on the sit-in. Some more Parivartan personnel and volunteers attended there to help out the matter.

▶ This year Parivartan's annual 'Footmarch to the State Capital' for land, forest and water is scheduled from October 2 - 10. As usual a lot of energy and time would go into organizing it, and they are very hard pressed for it. Though the footmarch is scheduled to end on Oct. 10, such may not be the case. People are planning a longer sit-in in the Capital. This could be somewhat indefinite.

▶ We are also very busy with follow up of the recommendations of Central Empowered Committee, Supreme Court of India, which delivered the judgment in favor of Parivartan; as also the judgment related to stopping forest felling in the name of roads construction (PMGSY).

# Dairy cooperative

Kharmau is a very small village located around 10 km away from Jaisinagar block of Sagar district in Madhya Pradesh, with only 110 families [most of which belong to OBC] Agriculture is the only source of livelihood and as irrigation facilities are not available, farmers are forced to practice rain-fed agriculture. Landholding is fragmented and almost 80 per cent farmers are marginal farmers.

SRIJAN team has so far formed 6 SHGs in this village. In the initial years of DPIP it experimented with livelihood options like trading of utensils and cloths but got very limited success. Then women suggested to give buffeloes as herding milk animals was a traditional practice. Considering proximity with Sagar, the district place, women thought of sending milk to Sagar. SRIJAN team members thought over the idea, studied market availability and realized the potential. Through DPIP, so far SRIJAN has given 50 buffeloes in the village.

Initially women were sending milk individually, but soon realized the problems [late and irregular payments, lower rate, monopoly of private players etc.] and then decided to send milk collectively. Women formed a dairy cooperative called as Sameeksha Dairy Cooperative, purchased required equipments for fat testing and transporting milk through their own contribution. Using PACS resources, women were given training of running a dairy cooperative and were sent to Bhopal Dugdh Sangh to get more insights and inputs.

A woman who has studied up to 8th class is working as secretary and keeping records of the dairy along with looking after day to day management. It was found that she is keeping records meticulously. She tests fat of each and every sample, and payment is done on that basis only. A passbook is given to each member. Basic rules of how members are supposed to cooperate for efficient management of dairy cooperative, what practices they need to follow and rules for members are written clearly on the wall. Transparency is also maintained as is evident from the rate card displayed on the wall of milk collection center.

SHG members from 6 groups have selected a 10 member body of Directors

of Sameeksha Dairy Cooperative. Dairy cooperative has initiated its operations since last 2 months [7th June]. Around 70 liters of milk is collected daily in the morning. After observing continuity, farmers from neighboring villages also have started sending milk.

As women are afraid of purchasing improved varieties of buffeloes-that give more milk-so far they have purchased local variety that gives less milk. A lot of inputs [technical-clean milk production, feed and fodder management, and managerial-cooperative governance principles] need to be given to these enthusiastic women. Women are also eager to know more about how to expand this initiative and have demanded training on para-veterinary skills.

Women are now expecting support to get linked to the bank through their SHGs so that they would be able to purchase another buffalo which will stabilize their dairy initiative.

SRIJAN has mobilized similar kind of groups and launched a dairy cooperative in another cluster of villages [Jamunia Gond] and formed a milk producer's company 'Sagar Shri Mahila Dairy cooperative'.

As envisaged in the proposal, SRIJAN has established a very good example of convergence by pooling together resources from DPIP [for hard core livelihood support] and from PACS [for institution and capacity building]. Other PACS partners shall learn a lesson from this initiative.

## Jamunia Gond

One can not believe that it's a village located just 20 km. away from Sagar, the district place and still has no approach road. One has to reach this village after crossing a testing patch of 5 km of kucha rasta. This is also a small village located on an undulating land, with around 900 population, comprised mainly of 187 families from different castes such as Yadav, Kachi Patel and SCs. Main occupation is agriculture and as is the significant characteristics of the area, most farmers are marginal farmers.

SRIJAN is working in this village since last 5 years. Initially women used

to roll bidis and were getting hardly around 100 rupees per week.

Under DPIP, SRIJAN has formed 7 groups of women and distributed around 60 buffeloes to these women. Similar kind of processes took place [as already explained above in case of Kharmau] in this village also. Around two months back, women have promoted Sai Shyam Dairy Cooperative. Initially when women were sending milk individually, private dairy owners [read milk collectors] used to pay them hardly Rs. Ten per liter. Now, with SRIJAN intervention, women are getting fifteen rupees per liter.

Through PACS, women were sent on exposure visit to Bhopal Dugdh Sangh and Kesla.

Now women no more want to roll bidis as is hazardous as well as low paying option. Women are now aspiring for purchasing one more buffalo so that continuity in milk cycle will be ensured. Now the women are looking for technical and managerial inputs for increasing quality of operations and handling milk to ensure clean milk production.

There is a lot of scope to increase business as there is assured market in the form of Sagar city, the closest market place.

However, it was women's groups are not aware about social issues they need to address and are not empowered to address the problems they are facing in the village. For example, the Anganwadi assistant [who is also secretary of dairy cooperative] shared that the Anganwadi worker is utilizing the food grains made available under Mid Day Meal for her personal use rather than giving it to children. But she is not trained by SRIJAN that she should take up this issue. This was evident as she expressed haplessness over the issue. Even neither the VRP nor the team members responded on the issue.

**Vasant Shendye**  
**Green Earth**

# The story of an animator

50 animators are busy facilitating dissemination of information in fifty villages of two blocks Betul and Chicholi of Betul district as part of the PACS program. They play a vital role in village development, in sensitizing villagers, orienting them and generating awareness on different issues of development such as Gram Sabha, government schemes, gender, education, health, NREGS etc.

This is a case study of Dashrath Soni of Siplai village, located 9 Km away from Chicholi block in Betul. Being an animator, this 11th pass, 37-year-old animator is focused on empower villagers on different developmental issues. His determination and commitment to his work has contributed significantly to the process of development in his village.

After the launch of the National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS), most villages of this block had begun to reap the benefits of this scheme, save for the little village of Siplai, because of the inaction of the Sarpanch. The scheme was not even talked about in the village. Dashrath Soni understood the dilemma of the community and on his own initiative, met the Sarpanch to try and motivate him on the issue. He also went about creating awareness amongst the villagers. The effort paid off finally, and till June 30, 2006, forty families had received employment and were beginning to benefit from the scheme in a comprehensive way.

---

One morning Mrs. Pinto (32) had been brutally beaten by her husband Shujla (35). This was witnessed by several villagers. Among them was Phunda (32), who spoke out about it. For this, Phunda had to pay heavy price - Phunda was also brutally assaulted by her husband Umarav for her initiative to stop violence against women. The matter came to the knowledge of Dashrath Soni. To stop this senseless violence against women, he, alongwith some villagers, went to their house and tried to resolve the problem. After a long dialogue, he finally succeeded in settling things amicably. Their husbands have taken a decision that this will never be happen again.

---



This is the story a Self-Help Group that calls itself "Gadibaba", which has made impressive profits only because of proper management of their limited resources.

10 villagers (all male) of Devpur Kotami village of Chicholi block formed a group on 23rd March, 2000. All ten members are from Sceduled Tribes (Gond) and from Below Poverty Line (BPL) families. After first grading, they received Rs. 10000/- in the month of September, 2000 and after two months of the grading, another Rs 25000/- as CC limit from the State Bank of India. They used this loan for inter loaning and also decided to establish some business which to augment their livelihood.

They took a decision to start fish rearing. During this time, they came in touch with the YUVA community facilitator of that area. The community facilitator told

them about the SGSY scheme. With some inputs and technical support, the

**Dashrath Soni understood the matter, took initiative and met with the Sarpanch and tried to motivate him. On this issue he generated awareness among the villagers. This effort created very positive impact. Till June 30, 06 forty families got employment and enjoyed the benefits of the scheme. Villagers have appreciated the contribution of Mr. Soni for his effort.**

---



group was registered under SGSY. After this linkage, they received a grant of Rs 90,000 and also a loan to the tune of another Rs. 90,000. In total, they had Rs 180,000 in 2001 to begin their respective initiatives to start their businesses. Till 2006, the group had earned Rs 47,000 as profit from fish rearing and Rs. 15,000 as profit from vegetable production.

This has built their self confidence to manage business. In the village and adjacent villages the group becomes a model.

Three other groups of the same village also started on the same business model. Recently, Gadibaba group was linked with the Van Yojana Scheme. Under this scheme, they received 25 acres of land and Rs 882000 as a grant for seven years. This has opened new avenues of employment for them all.

The group president, Kova Dhurve, (40) and the secretary, Mansu Ivne (35) are very happy with their success and have decided to expand their fishery business in other villages.

---

Jamili is a small village of Chicholi

block of Betul district. In this village, YUVA Rural has formed two groups - Jay Seva women group and Hariom men's group. The Jay-Seva group has begun a small-scale *dal* (pulse) processing unit and the Hariom men's group has started a selling and buying unit that deals with all kinds of grains and pulses like Soybean, wheat etc. in the village. Now these groups have established themselves and are earning profits from their activities.

The village is poor with most families belonging to Scheduled Tribes and marginalized farmers, who are dependent on agriculture and forest produce for their livelihood. But they also spend too much money on the marriage of their daughters, and like most, prefer to take loans from the local moneylender. Not surprisingly, they are not able to repay these loans most of the time and find themselves in the vicious cycle of debt and interest rates. For example, most people say that for a girls' marriage, one has to spend a minimum of Rs 20,000. When they realized that the root of their poverty and misery was the money lending cycle they were trapped into year after year, they decided not to spend extravagantly on these marriages. This year, inspired by the savings and accompany-

ing benefits of self help groups, four families (Bassu, Nandan, Kadak Singh and Sammu) decided to cut the extra expense on marriage. Therefore, they decided to arrange a group marriage for their daughters. With this small but significant step, they have managed to save Rs 80,000, which is very a big amount for these poor families. Now many in the community have understood the basic idea behind the concept, and the power of composite effort at savings and curbing extra expenditure has begun to change many a life in the area.

**The village is a poor where all families belong to ST; these marginalized farmers are dependent on agriculture and forest produce for their livelihood. But they spend so much money on a girls' marriage which is usually a loan from the local moneylender that they are never able to repay it.**

# Integrated media: A new way to tell our story!

## Telling Your Story- Effectively!

There is today a wide variety of new media production practices, and the same is true of our PACS CSOs. The Integrated Media Training workshops the PACS partners have been undergoing reflect this reality. What best describes our approach is its emphasis on personal and facilitative teaching methods.

We all have stories about events, people, and places in our lives. In a group process, the sharing of these stories connects people in special ways. CSOs often come to our workshops feeling insecure about their writing, about the technology, about their design sensibility.


Many stories we show as examples in our workshops are directly connected to the images that CSOs collect in their journey. But our primary concern is encouraging thoughtful and emotionally direct writing. At the end of the workshops, when the stories are presented, there is a bit of magic as the fruits of their own work, and those around them, surprises and inspires the participants.

We hope we have succeeded in doing just this...!

During the training, separate sessions were held on 5 different media by respective resource persons.

The week-long integrated media workshop organised by Write Solutions, for the partners of Poorest Area Civil Society (PACS) programme, in the second week of June this year here at Raipur helped the 30 civil society organisations (CSOs) participants from five organisations namely Jagriti Seva Sansthan (JSS), Baiga Mahapanchayat, Lokshakti Samajsevi Sansthan (LSS), Margdarshak Seva Sansthan (MSS) and Vardaan Samajik Sanstha(VSS) in developing their communication skills.

In the Chhattisgarh training the session on Community Radio was anchored by Vincent Victor; photography by Biswajeet Chakraborty; cartoons by Thomas Sundi and Sunder Mohan; digi-



tal stories by Madan Sharma and print media by Kannan.

K Kannan a media specialist, who has been pivotal in putting this group of decided communicators in place feels there are three similarities between a journalist and a social worker. Both were teachers and taught society, both represent people and both act as referees.

So what are these workshops all about? Kannan says spread over five to 21 days as the NGOs requirement, participants are divided into groups on the first day and asked to write stories.

This is followed by a discussion and participants are introduced to four parts of a story, introduction, incidents, people's participation and how to make a story into news.

Two such media workshops have been organised by the Poorest Areas Civil Society (PACS) Communication Resource Organization - Write Solutions over the last year. The first was held in Jabalpur and CARD, Udyogini, NIW-CYD, Tarun Sanskar and GVM participated.

In the Jabalpur workshop veteran journalist Jayant Verma also spoke to the trainees and said just as a matter/issue

relating to the public was pled through the court, journalists too played such a role?

While most of the trainees are dealing with development issues on a day to day basis, many of them are not aware that they are indeed sitting on a minefield of

**K Kannan a media specialist, who has been pivotal in putting this group of decided communicators in place feels there are three similarities between a journalist and a social worker. Both were teachers and taught society, both represent people and both act as referees. So what are these workshops all about? Kannan says spread over five to 21 days as the NGOs requirement, participants are divided into groups on the first day and asked to write stories.**



news. Verma says, that interaction in these trainings helps trainees identify facts, figures and incidents that are worth reporting.

Once they are clear about this, the participants are urged to write in simple language the topic/issue they have selected, do some research work, understand different aspects, talk to people, then write. They were giving the following guidelines. In an editorial, you can voice your opinion in particular. There should be a central point. In a story what

**Verma says that the interaction in these trainings help trainees identify facts, figures and incidents that are worth reporting. Once they are clear about this, the participants are urged to write in simple language the topic/issue they have selected, do some research work, understand different aspects, talk to people, then write.**

you want to write and how you write in small sentences without repeating it is important. One sentence should be completed before the next begins.

In a story there is always one central character with a specific style. The story should be written in simple (commonly used) language and the sentence should be used at the appropriate point.

On the third day, the story was presented and Kannan explained how the news had to be written.

1. Story 2. News 3. Feature

4. Editorial
5. Interview.

Story - Review and experiences should be maintained in a diary. A good writer should note his/her experiences and reviews without fail.

Review - people's experiences

The next session on was taken by Vincent Victor of TLM who introduced the participants how to prepare themselves to speak on radio. Giving the example of 'meri awaz suno'

He says, when asking questions, "There should be humility in voice, there should be proper voice modulation- example - meri awaz suno and yeh akashvani hai.

The participants introduced to radio waves

1 -FM wave runs close to the ground and is in the range of 30-40 km

1- Medium Wave runs between the sky and the ground (mid air) on 300-400km.

2- Short Wave runs between 500-1000 km.



3- Computer Web -special satellite radio: 600-1000 km


## 4- Web site

The participants were told the salient features of an interview, compel the person concerned to give a detailed answer and not in simply in monosyllables.

Armed with these three day inputs the participants in Jabalpur were taken to Magardha village which is situated in Mandla district, 33 km away from Jabalpur.

Here the trainees interviewed women from self-help groups. The women were asked about their association, group formation, self employment and savings, how to connect with these and the process of employment.

Each story was read out



and radio broadcast was done based on selected stories

In Chhattisgarh, while coming for the training programme, all participants had the feeling that they were just going to attending another training programme where they would be informed as to how to approach people on recent development in government level and how to create awareness in the far-flanged areas. Admits Kumari Jayanti Khirwar of JSS-Abhanpur, "I never thought that I am going to learn something completely new. I was in the radio group and what I learned during the last seven days was just superb."

What will she be doing with her newly acquired knowledge and experi-

ence? "Now I know how to prepare short radio programmes. In the field, I will help my NGO make small radio programmes to spread our message in a more effective and concerted manner. In fact this will help us disseminate the same message amongst a large group of audience repeatedly," she added.

The JSS chief functionary Sinha said the cartoon making and photography trainees showed their talent in the recently concluded NREGA week in July this year. "While the cartoon person prepared cartoons to spread message about NREGA, the photography person took photographs of various meetings and rallies." Sinha made it clear that he was happy with the training programme.

Sashi Manav, a member of VSS who learned digital story making in the IMW, has since developed several digital stories on people and developmental activities in the villages his organisation was

working in. According to Ravi Manav, head of VSS, requests to make digital stories have begun flowing into his organisation. This kind of capacity building of his members has elated Ravi Manav. Sashi, however, felt that similar workshops be arranged in a regular manner to keep them informed about the developments.

**Sashi Manav, a member of VSS who learned digital story making has since developed several digital stories on people and developmental activities in villages. According to Ravi Manav of VSS, requests to make digital stories have begun flowing into his organisation. This kind of capacity building of his members has elated Ravi Manav. Sashi felt that similar workshops be arranged in a regular manner to keep them informed about the developments.**



On his expectation from IMW, when he reached. Sashi admitted that he did not expect much. "I just came to attend the workshop as a part of the

speaking. I now how to prepare the radio programme and this would be implemented at the grass-root level," she added. Pradhan, a senior member of Baiga Mahapanchayat admitted recently that the training did help the members in developing their skills in using communication mediums better in the grass root level. He also felt that such trainings should be imparted on regular basis. Parsuram Singh of MSS, who learned photography in the IMW, used his talent to the fullest during the NREGA week. He took almost all photographs of the



**Sadhana Sinde of Baiga Mahapanchayat, a member of the 'radio group' was elated when the radio programme prepared by them at the IMW was played at the end of the workshop. "I had no idea as to such good radio programme could be made at such tight budget. Besides we never had the idea about our own talent. This helped me in getting rid of the fear of being public speaking.**

doing digital stories," he said. Did the training help the organisation? According to Ravi, it did. "Like Sashi, other members who learned cartoon making, photography and radio story making are trying to reach-out the people in a better manner and I am confident that they would succeed in their task," he added.

Sadhana Sinde of Baiga Mahapanchayat, a member of the 'radio group' was elated when the radio programme prepared by them at the IMW was played at the end of the workshop. "I had no idea as to such good radio programme could be made at such tight budget. Besides we never had the idea about our own talent. This helped me in getting rid of the fear of being public

duty. But by the end of first day I knew I would be doing something better at the end of the workshop and here I am. I am independently

programmes organized by MSS. " I learned photography at the IMW and got it employed to improve my skill," he said. Mehendilal, head of MSS also admitted that the workshop did help the members of his organization improve their capacity in communication technologies and mediums. Similar views came from J.S. Verma of LSS. According to Varma, members of LSS who participated in the IMW are not only happy with the knowledge they gained, but are practically implementing it in the grass-root level to communicate better to them.

While almost the participants of the IMW had the view that they never expected such kind of capacity building, they were elated of having acquiring the new communication skills. At the concluding ceremony of the workshop, all of them promised to effectively implement their knowledge to reach out the targeted audience in their developmental initiatives, in a better way by using the new knowledge. A follow up by Write Solutions on whether these skills are being implemented in the field, finds that the skill is indeed been implemented.

## A very special month!

January 2006 was a very special month for a group of young men in village Salwaha, in the tribal district of Mandla in Madhya Pradesh (Central India). Between January 9-14, 2006 there was a festive atmosphere as villagers joined this youth group to celebrate 'Jal Utsav' (water festival).

From January 9, 2006 for seven days the Jal Sanchay Samiti (Water Conservation Committee) members consecrated a 'Jal Devi' (water Goddess) and offered daily prayers to make village people aware of the importance of water, its conservation, maintenance of water resources and its proper use.

Says secretary of the Samiti Keshav Panariya, "We organised the Jal Utsav on the lines of the Ganesh Utsavs (one of the largest Hindu festivals) to get people's involvement."

"Since people celebrate Ganesh Utsavs with great dedication we also got a Panditiji (priest) and throughout the festival we highlighted the importance of clean drinking water and more pertinently how people should manage their water resources."

This effort was not an outcome of a day or a month but goes back to 2003 when non-Governmental organisation Centre for Advanced Research and Development (CARD) began working in Salwaha to support livelihood activities for rural people.

Those who came in contact with CARD soon began to intervene in the working of the village panchayat (council) and in 2005 panchayat polls they elected a sarpanch (village chief) of their choice. This interaction also led to two people from the village being elected as janpad members (at block).

Says CARD's Poorest Areas Civil Society (PACS) programme coordinator Yogendra Lodhi, which has been working in the area, "Salwaha had a major problem as almost all water sources had dried up. Where there was little water, it was dirty and filthy." There are a total of five ponds in the village, four of which are public wells. The three ponds and two wells, which people relied on for their drinking water too were polluted, he adds.



"For the last 35 years ponds in the village had been totally neglected and many were being used for open defecation. Thus, every year, Salwaha faced a severe water crisis from February up to August and for any newly elected representative this was the challenging task," Lodhi says.

In 2005, CARD organised a visit for 20 newly elected representatives to Delhi to see the functioning of Parliament and to Alwar in Rajasthan understand the work of the Tarun Bharat Sangh, an organisation working on water.

Three representatives and one worker from Salwaha who were part of the tour team were influenced with what they saw at the Tarun Bharat Sangh. On their return to the village, the four narrated their experiences to people and at the Gram Sabha (village council). Some of

**"Since people celebrate Ganesh Utsavs with great dedication we also got a Panditiji (priest) and throughout the festival we highlighted the importance of clean drinking water and more pertinently how people should manage their water resources." This effort was not an outcome of a day or a month but goes back to 2003 when non-Governmental organisation Centre for Advanced Research and Development (CARD) began working in Salwaha to support livelihood activities for rural people.**

the youths were so impressed by the experiences of the team that they decided to work on conservation of water in Salwaha and began discussing these developments amongst themselves.

In April 2005 they were finally able to give shape to their ideas and the aims of the Jal Sanchay Samiti (Water Conservation Committee) were defined to ensure water conservation, collection of money and that the 17 members would help each other.

Jal Sanchay Samiti secretary Keshav Panariya and another youth group member Raghuvir Agnihotri say people had begun to worry about the declining water level in the villages. "As a group we began to think about this, but whenever we took up the issue with elders of the village, we were told that it was not our concern and Panchayat or the Government would look into the issue," he adds.

For a population of 1,712 people there is only one well in Salwaha which provides water throughout the year, while all others dry up by January. Thus, most of the people are forced to depend on one handpump in Narwar Tola and another in Sahu Tola which gives water throughout the year. Says another youth Dinesh Chowksey, "We were fed up with this continuous impasse. Women were faced with water problems everyday and the authorities who were supposed to look into these issues were not able to do so. We were united and decided to begin work on the ponds and began cleaning them out."

Says Keshav Panariya, "We could feel water and related issues were becoming a burning issue in the village." Adds Laxmi Panariya, "The Government Nal Jal Scheme, hardly provides us one days water supply. The administration is not willing to rejuvenate the tanks and villagers need water to drink and bathe and there was absolutely no way that we could solve the problem."

Elections for the Samiti were held on May 6, 2005 and 21 members elected their president and secretary and made their own set of rules. The first task they took up was cleaning of the well. "This was the only well that the village relied on for water and it was full of scum (kai), so people were forced to bringing water from a handpump at a distance," said Keshav.

The committee members collected Rs 5 each and began cleaning up the well after getting a diesel pump on hire. The motivated youth, by going to the community and collecting money organised Rs 1,000 to hire a pump and a diesel

generator with which they pumped out all the water in well and cleaned it up. The group agrees, "If the Panchayat had done this work, it would have cost them close to Rs 20,000 the group did it for free."

Even to achieve this, however, the youth had to put up with opposition from the Panchayat, which began questioning their interests. Apart from this, the group were confronted by residents of a house near the well because they were unable to take water from the well during a marriage function. "After the cleaning work was over, later they were all praise for the committee" says Akhilesh.

In their second meeting in June the committee discussed how they could clean up the biggest pond in the village which could benefit all. They also knew that the well that supplied water to the village throughout the year could be recharged from this pond. Charged with enthusiasm many prominent people in the village also joined work on the ponds on the first day. However, this time the group faced opposition from their own homes. Since the 25-year old pond had been converted into an open toilet, many of the youth's families were aghast that their sons were involved in such menial tasks. Often members worked from 7 am to 9 am and would pool money to have breakfast.

After the pond was cleaned youths began stopping people from using the area as a public toilet. "Those who did were forced to clean up their own mess," the youth recall.

"When we cleaned the main well in the summer of 2005 a dog fell into it," Kalyani says adding "This was the peak season of water shortage and the people desperately needed water. When the issue was taken to the Panchayat, the youth were given a very cold response. And they were certainly not given permission to clean up the well."

Soon villagers began taking water from the handpump. When people began pressurising the sarpanch (village chief) Chotelal that the well should be cleaned up by the Panchayat, he came to speak to the president of the committee Raghuvir Agnihotri.

In view of the opposition they had faced earlier, Raghuvir refused to take up the work. Later he accepted the challenge. "However, although the well was cleaned up twice, people refused to take water from it," he says adding that only after much coaxing and convincing people began to take water. Meanwhile, now that the pond was cleaned committee

members unanimously decided to take up fish farming for which they needed the approval of the panchayat/gram sabha. When they put in their application for the first time, it was rejected. However, the youths did not give up and took Rs 3,000 as revolving fund from CARD with which they purchased seeds from Bamhani, 90 kms away from Salwaha, and put it in the pond.

Since no other group had applied for such an initiative and with no body opposing the group and sarpanch could not find any excuse to stop putting seeds into the pond. In an effort to maintain the pond members decided to bathe at the pond every day.

The swimming and bathing made the fish swim fast (helter-skelter), thus enhancing the possibility of its growing up faster. Alongside all these activities, committee members came up with the idea to celebrate 'Jal Utsav'. An outline was chalked out and all members were entrusted different responsibilities like writing songs or performing the 'arti'. These group members co-ordinated street plays, symposiums, drawing and other competitions organised in the seven-day celebration.

When the 'Jal Devi' was immersed amidst celebration in January, the committee had also cleaned up the Kurmi tola pond and the enthusiastic group is now keen to help other villages clean up their water sources. Says Laxmi Panariya, "Now the Panchayat too tries to help in our endeavours."

Just 20 kms way from the Capital of Madhya Pradesh in several villages even today, many men who take a loan for a personal emergency are 'bonded' to the person who gives the money - until the amount is repaid.

**Even to achieve this, however, the youth had to put up with opposition from the Panchayat, which began questioning their interests. Apart from this, the group were confronted by residents of a house near the well because they were unable to take water from the well during a marriage function. "After the cleaning work was over, later they were all praise for the committee" says Akhilesh.**

## Bonded to the 'lender'

Meet Daya Lal Lodhi Chiklodh Khurd who has two acres of Government land and sows channa and wheat. Engaged with routine agriculture work, he took a loan of Rs 8,000, which he hoped to repay in three months, from a larger farmer Bhagvan Das. "I wanted the money for necessary renovation for my house," he explains.


For the last three years, he was pushed into working 20 hours trying to repay his loan. He says, "I have been trying to repay my loan from my salary which Bhagvan Das set at Rs 1,000." Until now, Daya Lal Lodhi has been able to return only Rs 1,600 and still has to Rs 5,400 to repay.

Not only in his village, but in surrounding villages too, very often men opt to become Haalis or bonded labour because there is no alternative to earn a livelihood. Over the last few years, local civil society organisation Aarambh, with support from the Department of International Development, UK under the Poorest Areas Civil Society (PACS) programme has been trying to make a difference in the lives of families of such men.

Working in 15 villages in the Obaidullaganj and Goharganj blocks of district Raisen in Madhya Pradesh Aarambh conducted a baseline survey in each of these villages. The survey revealed that in the 15 villages - Chiklodh Khurd had 8 haalis, Bhagwanpura had 4, Gudawal had 7, Umraoganj had 13, Munirgarh had 7, Hatiakheda had 6, Devipura had 9, Siyakundal had 16, Chiroliya had 19, Ghatkhedi had 4, Kukhariya had 7, Pipaliya had 6, Thana had 1, Cheniyakhedi had 5, Chhatarpura had 6-totalling to 118 haalis.

Aarambh's report on Landless and Bonded Labourers says the operational definition of Haali households vary from house to house. Haali's may be defined as a person who due to unavailability of alternate resources, has taken a loan of some amount (in thousands) and is, therefore, bonded to the 'lender' till the amount is repaid.

The Haalis are employed by absentee landlords and landed farmers. The male member of the family, engaged in Haali is expected to do all kinds of agricultural



and household activities for the money-lender at a monthly salary ranging from Rs 700 to Rs 1,000. Haalis are employed for almost 24 hours and are required to do all the farm as well as household chores of their employers.

Women and children of the family are, however, independent to work elsewhere to earn for their family. Out of this monthly salary, a fixed amount is cut to repay the loan leaving the family with a meager income to fulfill their monthly requirements.

The meagre income forces the Haali to take a surplus loan from the 'lender' in case of an emergency or occasions leading to a trap in the vicious circle of indebtedness.

However, living with the tag of a 'haali' is not an easy one and many people are reluctant to reveal their status. Take for instance the case of Ram Bharose and his wife Saropi Bai who villagers in Gudawal identify as a 'haali' family. However, the couple refute this

saying they had only taken Rs 8,000 for their son's wedding. When asked, they refuse to divulge how they are repaying

**Women and children of the family are, however, independent to work elsewhere to earn for their family. Out of this monthly salary, a fixed amount is cut to repay the loan leaving the family with a meager income to fulfill their monthly requirements. The meagre income forces the Haali to take a surplus loan from the 'lender' in case of an emergency or occasions leading to a trap in the vicious circle of indebtedness.**

the loan amount.

Another family Sewa Ram and Bhawari Bai who have one acre of land and two sons, had also taken Rs 15,000 from one of the bigger farmers. Sewa Ram says he has been a haali to several of Patels in the village. "I repay my loan at the rate of Rs 1,000 a month." But, he adds, he continues to take more money from the Patel families for illnesses and other emergencies.

Hariprasad and his wife Munni Bai had to take Rs 15,000 first for his own wedding and later Rs 20,000 for his brother's wedding. But he says he stopped working with the Patel from whom he had taken the money. Hariprasad goes on to reveal what many of the other Haalis only hinted or were too ashamed to speak about.

"I stopped working for the Patel because it was getting too much for me. Apart from agricultural work, I often had to stay around the family house and was asked to clean the animal's dwellings," he says. Some of the women in the village who are familiar with the rigours of being a Haali say, "If they (the women in the households of the bigger farmers) had their way, they would get our men to make their rotis too." Implying that men are also asked to chip in with routine household chores that women tend to.

When asked how he proposed to repay his loan Hariprasad said, he had two acres of land and would try to pay back from the earnings from his crop or would go out and look for work as a labourer.

"Haali households are landless and marginalised farmers and inadequate income leads to deprivation of basic facilities to children, affecting their educational and other needs," says Aarambh's chief functionary Anoop Sahay.

The caste-wise distribution of Haalis shows the highest number of Haalis belong to marginalised sections of society Scheduled Castes (33 per cent), Scheduled Tribes (29 per cent) and OBCs. Only two per cent Haalis belong to general caste.

A common trend in these households is that their children drop out of school (54 per cent) and 31 per cent children whose names are registered in the school, do not go to school on a regular basis. Only 15 per cent children of Haali households go to school, and this is only where the family size is small, parents are educated and they aspire that their children should have a better future,

Sahay added.

An analysis of the reasons for children dropping out or not going to school is directly related to the income of Haalis. Many of these children are forced to work in nearby beer factory, soya bean cutting, opening of tea stall etc.



"There is a need to take care of the educational needs of these children and strengthen existing services," says Aarambh's animator Dwarka Prasad.

Since the demand for work is always less than the number of people looking for work Haalis belonging to other villages who have no option but to accept low wages were also found in the study. "Haali households do not raise a voice against low wages as they consider it a more permanent source of income and know that they can take loans too," says a villager Laxminaryan.

In 68 per cent haali households expenditure is more than income, entrapping them in a vicious circle of indebtedness. Being landless, without any source of income they are ineligible for bank loans.

In this situation, for Daya Lal Lodhi it is a big step that he has taken since Aarambh began holding meetings in this village. "During these interactions I was informed that we should not be working 20 hours a day. Now I have begun to work only 8 hours."

For the only provider of the family consisting of his parents and little brother, he is now earning Rs 1,500 and hoping to repay his loan.

**Since the demand for work is always less than the number of people looking for work Haalis belonging to other villages who have no option but to accept low wages were also found in the study. "Haali households do not raise a voice against low wages as they consider it a more permanent source of income and know that they can take loans too," says a villager Laxminaryan. In 68 per cent haali households expenditure is more than income, entrapping them in a vicious circle of indebtedness.**

# Hindi Stories

# युवा प्रेरक के बढ़ते कदम



और इसी का परिणाम है कि आज गांव में वह पहचाने जाते हैं। बात चुरू हुई जब गांव में ही दो परिवारों में आपस में झगडा हुआ। जिसमें गांव की महिला फुंदा बाई द्वारा एक परिवार के पति पत्नी की लडाई में बीच बचाव करने के कारण उसके पति उमराव ने उसे बुरी तरह मारा जिससे स्थिति काफी बिगड गयी और इसकी सुचना जब प्रेरक को मिली तो गांव के

द्वयथ सोनी (ग्राम प्रेरक, उम्र ३७ वर्ष, ११वीं पास) निभा रहे हैं अलग-अलग भूमिका जिसमें ग्राम सिपलाई विकास कि राह में आगे बढ़ रहा है। सिपलाई चिचोली ब्लाक का एक छोटा गांव है जो बैतुल से ४३ किमी की दुरी पर है। गांव की जनसंख्या करीब ४७८ है। जिसमें

**प्रेरक बनने से पहले गांव के विकास पर उनका कोई खास ध्यान नहीं था उनका मानना था कि अपने काम से काम रखो। लेकिन आज यह मुहावरा बदल गया है और आज वह कहते हैं अपने काम के साथ गांव का भी विकास होना चाहिए और इसी सोच के चलते वह युवा द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में शामिल हुए एवं ग्राम विकास से जुड़े तथा योजनाओं से संबंधित सभी मुद्दों पर उनकी समझ बनी और इसी का परिणाम है कि आज गांव में वह पहचाने जाते हैं।**

पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के लोग रहते हैं।

ग्राम के लोग संगठित न होने से यहां पर न लोग ठीक से सरकारी योजना का लाभ उठा पाते थे न ही गांव की छोटी मोटी समस्या का निदान निकाल पाते थे लेकिन २००३ से इस गांव में बदलाव कि प्रक्रिया चुरू हो गयी है। ग्राम में पैक्स कार्यक्रम के अंतर्गत द्वयथ सोनी को ग्राम प्रेरक बनाया गया जो एक छोटे किसान है साथ ही एक पान दुकान चलाते हैं। वह अपने एकल परिवार के साथ रहते हैं।

प्रेरक बनने से पहले गांव के विकास पर उनका कोई खास ध्यान नहीं था उनका मानना था कि अपने काम से काम रखो। लेकिन आज यह मुहावरा बदल गया है और आज वह कहते हैं अपने काम के साथ गांव का भी विकास होना चाहिए और इसी सोच के चलते वह युवा द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में शामिल हुए एवं ग्राम विकास से जुड़े तथा योजनाओं से संबंधित सभी मुद्दों पर उनकी समझ बनी

कुछ लोगों के साथ उसने दोनों परिवारों में समझौता करवाया साथ ही इस मामले को गांव में ही सुलझाया। आज दोनों परिवार के लोग बिना किसी लडाई के रहते हैं।

जब गांव में कई दिनों के बाद भी एनआरजीएस का काम चुरू नहीं किया गया। तो द्वयथ ने हिम्मत दिखाई और उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर सरपंच से बात की और काम चुरू करने का आस्वाचन लिया इसके कुछ दिनों बाद ही काम चुरू हुआ और गांव में करीब ४० परिवारों को रोजगार मिला। आज गांव के हर मामले में वह सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि उन्होंने आज गांव में एक अच्छे नेता की पहचान बना ली है। द्वयथ कहते हैं कि लोगों का भला करना एवं गांव के विकास में सहयोग करना बहुत ही पुण्य का काम है।


**पवन सोनी  
युवा बैतुल**

## गडीवान समुह बना प्रेरणा का स्रोत

ग्राम देवपुर के लोगो के लिए यह एक सुनहरा अवसर था जब युवा संस्था के माध्यम से २००३ में पैक्स कार्यक्रम कि चुरुआत की गयी। जिसमें गांव के १० आदिवासी परिवारो को संगठित किया गया और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाये गये।

बैतुल से ४६ किमी की दुरी पर चिचोली ब्लॉक का यह एक आदिवासी गांव है, जिसमें आदिवासी लोग अधिक संख्या में रहते हैं। गांव तीन ढानो में बटा हुआ है। ग्राम की जनसंख्या २१३७ तथा गरीबी रेखा वाले परिवारो की संख्या २५४ है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृद्धि, मजदुरी एवं वनउपज एकत्र करके बेचना है। यहाँ ज्यादातर परिवारो के पास एक से दो एकड़ जमीन है जो लोगो की जरूरते पुरी नहीं कर पाती है, इसलिए लोग पलायन एवं अकुचल मजदुरी पर निर्भर रहते हैं।

गांव कि परिस्थितियो को ध्यान में रखकर लोगो को समुह के माध्यम से संगठित कर बचत एवं आपसी लेन देन कि प्रक्रिया चुरु की गयी जिसमें चुरुआत में कठिनाई आयी लेकिन धीरे धीरे आदिवासी लोगो ने उसका महत्व समझा और प्रक्रिया मजबुत हुई। अभी मौका था लोगो को लघु व्यवसाय में जोड़ने का, जो आदिवासी समुदाय के लिए कठिन था क्योंकि लोगो के पास न चिक्षा थी न लोग किसी व्यवसाय कुचल थे। गाडीवान समुह कि स्थापना २३ मार्च २००० को जनपद के द्वारा की गई जिसमें २००३ से युवा द्वारा प्रचिक्षण एवं समय समय पर मार्गदर्शन किया गया। समुह द्वारा बचत और आपसी लेन देन का कार्य ठीक चलते देख समुह को स्वर्ण जयंती स्व रोजगार योजना के अन्तर्गत पहली ग्रेडिंग हुई जिसमें समुह को रु. १००००/- मिले जिसका सही उपयोग करने से केवल दो माह के बाद ही इसे सीसीएल (बैंक लिमिट) से रु. २५०००/- मिले। इससे समुह ने अपनी आमदानी



बढाई और लघु व्यवसाय की चुरुआत करने का तय किया। जिसमें समुह के सदस्यो की कुचलता के आधार पर मछली पालन का व्यवसाय चुरु करने का समुह ने निर्णय लिया और इसके लिये जानकारी एकत्र की गयी जब बैंक और जनपद कार्यालय में इसकी बात की गयी तो समुह को रु. १८००००/- का लोन दिया गया जिसमें रु. ६००००/- की ग्रेट मिली। इस काम से समुह ने करीब रु. ४७००००/- का लाभ कमाया एवं बैंक का लोन भी वापस कर दिया। यह पुरी प्रक्रिया गांव के अन्य लोग जानते थे और जब समुह के काम को देखने के लिए बाहर से लोग आते थे तो लोगो को इससे प्रेरणा मिली और गांव में तीन अन्य समुहो का निर्माण हुआ जिन्हे सात वर्डो की ग्राम वन योजना से जोडा

गया जिसमें गाडीवान समुह के साथ ही अन्य तीन समुह को रु. ८८२०००/- प्रति समुह को प्राप्त हुआ। जिसमें गांव के चालिस परिवारो को सुनिश्चित रोजगार मिला। आज देवपुर गांव समुह के काम से चर्चा में है, जहाँ इतनी योजनाओ का लाभ समुह ले रहे हैं। गाडीवान समुह अपने मछली पालन व्यवसाय को बढाने के लिए दुसरे गांव के तालाब को लीज पर लेने की योजना बना रहा है। गाडीवान समुह के अध्यक्ष श्री कोवा एवं सदस्य तो इतने उत्साहित हैं कि वह कहते हैं कि हम अपने काम को बहुत बढायेगे और गरीबी के अभिचाप को हमेचा के लिए मिटा देगे।

पवन सोनी (युवा बैतुल)

# महिलाओं द्वारा क्रांति की पहल

ग्राम थाना की महिलाएँ जो पाँच वर्ष पहले चूल्हा-चौका तक ही सीमित थी जिसके कारण उनको ग्राम की समस्या एवं अपनी आर्थिक समस्याओं पर सोचने तक का समय नहीं मिल पाता था। लेकिन पिछले तीन वर्षों में ग्राम की महिलाओं में विकास की झलक नजर आ रही है। उनमें इस प्रकार का बदलाव तब आया जब आरम्भ संस्था ने २००३ से स्वयं सहायता समूह में जुड़ कर अपनी भागीदारी निभाई तथा अपनी पहचान ग्राम में स्थापित की। आज ग्राम की छोटी बड़ी समस्याओं को सब मिलकर सरकार तथा ग्राम पंचायत में लड़ रहे हैं। गाँव के विकास हेतु श्रीमति फूलवती, कामता प्रसाद, सुनिता, श्यामलाल जाटव, रामकली, रामदयाल जाटव, फूलवती, दयाराम जाटव, मोहनबाई, बाल मुकुंद, कृष्णा सेन, कामता प्रसाद, सुनिता, जगदीश, रूकमा, घनश्याम आगे आये हैं। ये सभी अलग अलग जाति के होने के बावजूद एक होकर ग्राम की अन्य महिलाओं को साथ लेकर ग्राम सभा में अपनी शिकायत दर्ज कर समस्या का निराकरण करवा रहे हैं।

आरम्भ के प्रयासों का नतीजा यह रहा कि आज थाना गाँव के लोग अपने अधिकारों को जानने लगे हैं और अपनी समस्याओं को पंचायत/ब्लाक और जिला स्तर पर अपनी मांग रखकर पूरा करवाने लगे हैं।

ग्राम थाना की शारदाबाई ने बताया कि हमारे ग्राम के हेंड पम्प में पानी कम आता था तथा हेंडपम्प बिगड जाते थे। इससे हम सब को बहुत परेशानी आती थी तथा दूसरे गाँव से पानी सर पर लाना पडता था। तब हमने मिलकर ग्राम सभा में अपना आवेदन दिया तो हमारे घर वाले बहुत नाराज हुए कि इस प्रकार ग्राम सभा में नहीं आना चाहिए इस पर हमने बताया कि

पानी भरने की परेशानी होती है। इसलिए हमें ही आगे आना पडा क्योंकि आप सब तो कुछ कर नहीं सकते हैं इसलिए हमें ही यह सब करना पड रहा है। इस प्रकार आगे आकर अपनी बात कही तो ग्राम



सभा में सरपंच एवं सचिव ने तुरन्त ही हेंडपम्प ठीक कराने के लिए फैसला लिया। फलस्वरूप हेंड पम्प में पाइप डाल दिये गये एवं बिगडे हेंड पम्प सुधारे गये। यह हमारी पहली सफलता थी।

फिर हम सब ने निर्णय लिया कि हम सब ग्राम सभा में जरूर जाया करेंगे और अपने हक के लिए लडते रहेंगे। यदि ग्राम स्तर पर सुनवाई नहीं होती है तो हम जिला तहसील, एवं मंत्री जी के पास समस्या रखेंगे। और अगला कार्य कुछ इस प्रकार का ही रहा। हमारे वार्ड में हेंड पम्प मंजूर हुआ था जो कि ग्राम के पटेल ने अधिकारियों से मिलकर अपनी निजी

जगह में पास करवा लिया था। फिर हम सब ने मिलकर जिले के कलेक्टर के लिए अपना आवेदन दिया और फलस्वरूप कलेक्टर द्वारा आदेश दिया गया कि वार्ड के सार्वजनिक जगह पर ही हेंडपम्प लगाया जाये। किसी की निजी जगह में नहीं। जब हम इस प्रकार के कार्य करने लगे तो हमें हमारे परिवार वालों का भी सहयोग मिलने लगा। हमारे गाँव मे १६ परिवार अति गरीब होने के बावजूद उनका नाम गरीबी रेखा में शामिल नहीं था। हम सब ने मिलकर ग्राम पंचायत में आवेदन दिये। नतीजा कुछ नहीं रहा फिर हमने तहसीलदार को भी इस सम्बंध में आवेदन दिये। कुछ दिनों बाद हमने समूह सम्मेलन में उपस्थित होकर मुख्यमंत्री जी को इस समस्या से अवगत कराया गया। अभी तक नई सूची के राशन कार्ड तक वितरण नहीं हो पाये थे कि हमारे गाँव में गरीबी सूची को लेकर विवादित स्थिति बन गयी। परन्तु हमने ग्राम पंचायत वालों से कह दिया है कि हम शशांत नहीं बैठेंगे अपने हक के लिए लडते रहेंगे।

वर्तमान में हमारे परिवार एवं ग्राम वालों के साथ साथ पंचायत पंच भी हमारा साथ देने लगे हैं। अभी हाल ही में हमारे पंचायत सचिव की लाप. रवाही बरतने के कारण पंचायत वालो ने सचिव से समस्त रिकार्ड छीनकर ब्लाक के सी ओ के पास जमा कर जांच करने को रखा है। पंचो ने बताया कि हमारे परिवार की महिलाएं अपने हक के लिए इतना सब कुछ कर रही है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनका साथ दें।

**रघुवीर सराठे**  
**ग्राम- थाना**  
**आरंभ**  
**गुदावल**

# महिलाओं में उत्सुकता

दिन था २० अक्टूबर, ग्राम थाना, जिला-रायसेन। महिलाओं में आज अजीब सी उत्सुकता दिखाई दे रही थी। महिलाएँ अपनी दैनिक क्रियाओं को रोज की अपेक्षा आज जल्दी जल्दी निपटाने में लगी थी। साथ ही दैनिक मजदूरी पर भी न जाने का मन बना चुकी थी। शायद शाम को चूल्हा न जले इसका डर उनके मन में नहीं था।

विगत दो वर्षों से आरम्भ संस्था डी एफ आई डी के माध्यम से हाली भूमिहीन व सीमान्त किसानों को आत्म निर्भर बनाने में प्रयासरत है। आरम्भ के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज थाना गाँव के लोग अपने अधिकारों को जानने लगे हैं और अपनी समस्याओं को पंचायत/ब्लाक और जिला स्तर पर उठाने लगे हैं।

पैक्स परियोजना के माध्यम से आरम्भ ने महिला सशक्तिकरण हेतु ग्रामीण महिलाओं के छोटे छोटे समुह किया आज यह समुह दबाव समुह के रूप में कार्य कर पंचायत/ब्लाक व जिला स्तर पर अपनी मांग रखकर पूरा करवाता है। आज महिलाओं ने पहली बार इतने भारी तादात में कुल-३८ ने भाग लिया। बल्कि यह कहा जाये तो अच्छा होगा की महिलाएँ ही ग्राम सभा का कोरम पुरा किया।

महिलाओं की भागीदारी जब ३६ थी उस समय कुल १३ पुरुष ही उपस्थित थे। महिलाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए फिर धीरे धीरे पुरुष की संख्या भी बढ़ी। आखिर सबके मन में एक आश्चर्य था की गाँव के इतिहास में पहली बार एक साथ महिलाएँ ग्राम सभा में कैसे उपस्थित हुईं!

पुरुषों में चर्चा छिड़ गयी की आज ऐसे कौन सी बात हो गयी की अपनी बहुत भी ग्राम सभा में उपस्थित होने लगे। आज कुछ तो बात होगी। इस तरह ११ बजे

कर ४८ मिनट पर ग्राम सभा का कोरम पुरा हो गया। समुदाय से आरम्भ पैक्स के टार्गेट ग्रुप के अलावा परियोजना अधिकारी तथा विकास सहायक भी उपस्थित रहे। बल्कि महिलाओं का कहना था कि जब संख्या अधिकारी उनके गाँव में उनके हाल



के लिए कार्य कर रहे हैं तो वे कैसे ग्राम सभा में उपस्थित ना होगा। ग्राम सभा शुरू होने के ठेठ घन्टे बीत चुके हैं, महिलाओं से कोई पुछ नहीं रही है और महिलाएँ भी इंतजार कर रही थी कोई तो उनसे पुछे, संस्था के अधिकारी इस बीच महिलाओं को इसारा कर रहे थे कोई तो बोले।

क्योंकि ये महिलाओं के लिए पहली ग्राम सभा है आखिर वे पहली बार उपस्थित हुई थी इसलिए थोड़ा सा डर झीझक भी है। इस बीच शारदा बाई ने अपनी चुपी तोड़ ही दी आखिर ग्रामीण महिला ने जब चुपी तोड़ती है तो कुछ धमाका सा होता है।

इस तरह एक एक कर महिलाओं ने

अपनी तथा गाँव की समस्या को ग्राम सभा में रखे एवं समुह सहयोग कर रहे थे। महिलाओं की बढ़ती सहभागिता को देखते हुए आखिर ग्राम सभा में सरपंच एवं सचिव ने तुरन्त ही हैंडपम्प ठीक कराने के लिए प्रस्ताव पारित करना पडा।

आज महिलाओं ने इसलिए चुपी तोड़ी क्योंकि आरम्भ पैक्स के द्वारा आज वे बचत समुह में सदस्य हैं साथ साथ सरकारी योजना से कुछ तो लाभान्वित होने लगे हैं। हैंडपम्प के लिए शरारब बंद के लिए कलेक्टर के पास भी आवे. दन देकर अपनी आवाज को बुलन्द करने लगे हैं।

अब वह दिन पास आ गया की महिलाओं ने अपने बचत समुह के अलावा गाँव की समस्या, विधवा भत्ता दीनदयाल उपाध्याय योजना, को लेकर स्थानिय सरकार क सामने अपने अधिकार मांगने लगे हैं।

अब तो महिलाओं ने पहली बार ग्राम सभा में उपस्थित होने के बाद आने वाली ग्राम सभा में भी अपने उपस्थित रहने का निश्चय लिया है। अब तो उनके सबसे बड़े मुद्दा गरीबी रेखा कार्ड को लेकर भी एडवोकेसी करने में पीछे नहीं होंगे।

अब आरम्भ इस अनुभव को अन्य गाँव में भी आजमाने लगे हैं अब डी एफ आई डी पैक्स परियोजना के दूसरे चरण में ग्राम समीति/पंचायत समीति एवं संघ के द्वारा महिलाओं के स्थानिय एवं राज्य स्तर पर भी अपने हक, अपनी जरूरत को पुरा करने के लिए अवाज उठायेगें ताकि स्थानिय स्तर पर सरकारी योजना का पुरा पुरा लाभ उठा सकें।

Nikhil Sahu  
Prog.Coordinator  
PACS

# महिलाओं ने परिस्थितियाँ बदली



ग्राम खामखेड़ा में पैक्स कार्यक्रम के शुरूआती दौर में जब संस्था कार्यकर्ता महिलाओं के स्व सहायता समूहों का गठन कर रहे थे, उस समय गाँव की पुरुषवादी मानसिकता के भी काफी व्यंग झेलना पड़ रहे थे। पुरुष कहते थे कि, “जो काम हम लोग नहीं करा पाये वो लुगाईया क्या करा पायेगी।” इसी तरह जब इन समूहों के खाते बैंक में खुलवाने पहुँचे तो बैंक अधिकारियों ने खाते खोलने से स्पष्ट रूप से मना ही कर दिया।

बैंक मैनेजर का कहना था कि, पहले से ही तकरीबन ४०० समूहों के खाते खुल चुके हैं, जिसमें से वो मुश्किल २-३ ही स्व सहायता समूह सक्रिय हैं। बाकी के सब बंद पड़े हैं। हम लोगों को इनका रिकार्ड जरूर मेंटेन करना पड़ता है और हमारे पास स्टाफ भी इतना नहीं है और आप जिन गाँव में काम कर रहे हैं उन प्रत्येक गाँव में ३०-४० से ऊपर लोग बैंक के कर्जदार एवं डिफाल्टर हैं।

उन सारी विपरीत परिस्थितियों के चलते भी संस्था कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ उन्होंने महिलाओं को संगठित करने का काम जारी रखा वे समूह की नियमित बैठक, बचत एवं लेखा-जोखा कराते रहे।

उन्होंने महिलाओं के संगठन एवं कार्यों को देखते हुये बैंक को विश्वास में लिया और समूहों के खाते खुले। आज तकरीबन समूहों की निजी बचत ८१३४७/- रु. है। समूहों की हलचल सारे विभागों तक पहुँच रही थी। जो शासकीय कर्मचारी पहले दूर-दूर भागते थे वे स्वयं चलकर समूहों से मिल रहे हैं।

इसी का परिणाम है कि कई विभागों की योजनाओं से महिलायें जुड़ चुकी हैं। कृषि विभाग रायसेन की मापवा परियोजना (कृषि में महिलाओं की भागीदारी) के अंतर्गत

३ समूहों को ५०००-५००० हजार रु. अनुदान देकर छोटे-छोटे आयवर्धन कार्यक्रम जिसमें सब्जी-भाजी और कृषि आधारित कार्य हो सकते हैं को करने के लिये सहयोग किया। जिनमें से भवानी स्व सहायता समूह ग्राम खामखेड़ा, ग्राम पंचायत मोहिया में रतनजोत की नर्सरी लगाई जिसमें तकरीबन ३ लाख से ऊपर रतनजोत के पौधे तैयार हो चुके हैं।

इनके बिक्री के लिये भी समूह ने जिला पंचायत सागर एवं नरसिंहपुर जिले में आवेदन किये हैं। महिलाओं के रतनजोत नर्सरी के व्यवसाय में रुझान को देखते हुये जिला पंचायत सी.ई.ओ. ने भी प्रशंसा की है और जिले में व्यापक तौर पर रतनजोत प्लानटेशन की योजना बनाई है।

यह समूह जिले का आदर्श समूह माना गया है। आज शासन-प्रशासन महिलाओं के मेहनत और लगन की प्रशंसा कर रहा है। महिलाओं ने लोगों की मिथ्या धारणा को बदला है।

समूह का नाम : लक्ष्मी स्व सहायता समूह

पता : ग्राम-कोटिखोह, ग्राम पंचायत कोटिखोह

सदस्य संख्या : 13

अध्यक्ष : सुहागरानी

सचिव : सरोजबाई

गठन दिनांक : 12.06.2004

बैंक का नाम : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद शाखा सुल्तानगंज

खाता क्रमांक : 3263

मासिक बचत राशि : 20 रु. प्रति सदस्य

कुल बचत माह जुलाई तक : 5734 /-

# परिवर्तन परियोजना ब्लाक घनसौर

## वर्मी पिट बना सहारा


ग्राम	-	भालीवाड़ा
ग्राम पंचायत	-	भालीवाड़ा
ब्लाक	-	घनसौर
जिला	-	सिवनी

परिवर्तन परियोजना ब्लाक घनसौर के अंतर्गत दूर दराज का एक ग्राम है जाली बाड़ा इस ग्राम में रामसिंह का परिवार रहता है जोकि एक आदिवासी समाज से है रामसिंह नेताम मुख्य रूप से घनसौर के पास समनापुर के रहने वाले हैं।

इनके परिवार में मात्र ४ एकड़ बरा जमीन है जिसमें ये चार भाई हैं रामसिंह का विवाह सन् १९८७ में समनापुर से ३ कि.मी. दूर ग्राम भालीबाड़ा में हुआ था रामसिंह की शिक्षा केवल ५ वीं तक है इनकी पत्नी ५ वीं तक पढ़ी है। ग्राम भालीबाड़ा में लड़की के पिता ने अपनी लड़की को २ एकड़ जमीन दी तब से १९९१ रामसिंह भालीवाड़ा में ही रहने लगे।

रामसिंह की चार संतानें हुईं जिनके एक लड़का १६ वर्ष तीन लड़कियां १४, ११ एवं ९ वर्ष की हैं। रामसिंह का दो एकड़ मात्र में गुजारा नहीं हो रहा था अतः जीवनयापन हेतु ७ से ८ माह तक रामसिंह को पलायन का सहारा लेना पड़ता था। रामसिंह ईंट गारा तथा लकड़ी का छुटपुट काम जानता था। यदि ये दोनों काम नहीं मिले तो जो भी कार्य अजीविका के लिए करने में संकोच नहीं था।

परिवर्तन परियोजना द्वारा ग्राम भालीवाड़ा में ग्राम विकास समिति का गठन किया गया तथा निरंतर संपर्क व बैठक होती रहीं यहां चयनित प्रेरक व समुदाय संगठक दोनों के चुनाव के समय राजनीति सक्रियता के कारण अलग किया गया लेकिन समिति से संपर्क निरन्तर बना रहे समिति की बैठक में उन्नत कृषि के अंतर्गत जैविक खाद के विषय में बात की गई रामसिंह समिति के



सदस्य थे बैठक के बाद रामसिंह ने घनसौर आकर परियोजना कार्यालय में संपर्क किया और जैविक खाद पर पुनः जानकारी ली परियोजना द्वारा जानकारी देने के साथ साथ रामसिंह को कृषि विभाग से संपर्क कराया गया। तथा वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा वर्मीपिट हेतु आवेदन देना स्वीकृत कर ग्राम सेवक को भालीवाड़ा में पिट बनवाने हेतु आदेशित किया गया जिसमें ८ दिन में पिट बन गया।

ग्राम सेवक द्वारा रामसेवक को कचरा संग्रहित कर आफिस में जानकारी देने का सुझाव दिया गया। रामसिंह ने कचरा एकत्र कर संस्था कार्यालय को बताया। संस्था द्वारा कृषि विभाग को जानकारी दी गई कृषि विभाग द्वारा फरवरी २००४ में रामसिंह को डेढ़ किलो केचुआ दिए गये रामसिंह ने पूर्ण लगेन के साथ उन केचुओं को पिट में विधि सहित डालकर उनका पालन किया केचुएं पर्याप्त भोजन व्यवस्था पाकर बढ़ने लगे। बताये अनुसार खाद बनने

लगी। खाद बनते देख रामसिंह को बहुत खुशी हुई।

लेकिन अजीविका का प्रश्न सामने आ गया स्थिति में समिति भालीवाड़ा में बैठक में यह बात रखी गई तथा समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि वर्तमान में नियुक्त प्रेरक नंदलाल मर्सकोले सही काम

ग्राम सेवक द्वारा रामसेवक को कचरा संग्रहित कर आफिस में जानकारी देने का सुझाव दिया गया। रामसिंह ने कचरा एकत्र कर संस्था कार्यालय को बताया। संस्था द्वारा कृषि विभाग को जानकारी दी गई कृषि विभाग द्वारा फरवरी २००४ में रामसिंह को डेढ़ किलो केचुआ दिए गये रामसिंह ने पूर्ण लगेन के साथ उन केचुओं को पिट में विधि सहित डालकर उनका पालन किया केचुएं पर्याप्त भोजन व्यवस्था पाकर बढ़ने लगे। बताये अनुसार खाद बनने लगी। खाद बनते देख रामसिंह को बहुत खुशी हुई।

नहीं कर रहा है। यदि संस्था में रामसिंह को प्रेरक बना लिया जाय तो काफी सहायता इनको मिल सकती है। यह कुछ दिन यहीं मजदूरी भी कर सकते हैं।

समिति के सुझाव को मानकर रामसिंह को प्रेरक बना लिया जिससे रामसिंह को बाहर जाकर काम करने पर बंदिस साथ ही तत्काल में रामसिंह को २००/- रु. की सहायता दी गई रामसिंह अब प्रेरक के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने लगा। तथा पूरा ध्यान वर्मीपिट पर लगाने लगा कार्य में लगन व उत्साह के कारण रामसिंह को फायदा हुआ डेढ कि० केचुए बढ़ते गए खाद बनती गई।

अप्रैल २००४ में १ कि०.

जुलाई २००४ में १ कि०.

अक्टूबर २००४ में २ कि०.

जन० २००४ में १ कि०.

जनवरी २००५ तक केचुआ की मात्रा बहुत हो गई तथा कचरा कम हो गया। तब रामसिंह द्वारा दूसरा पिट बनवाया गया तथा जनवरी से जून के बीच केवल केचुआ के पालन का पूरा ध्यान दिया।

अक्टूबर २००५ में २ कि० खाद निक. ला इस प्रकार ७ कि० खाद फरवारी २००४ से अक्टूबर ०५ तक मिली केचुये अधिक बढ़ने के कारण रामसिंह रामसिंह ने एक पिट और बनाया इस प्रकार तीन पिट हुए।

अब संस्था द्वारा व कृषि विभाग द्वारा गांवों में बैठक एवं संपर्क के दौरान जैविक खाद की जानकारी देते भालीबाड़ा में खाद की उपलब्धता बताई गई। जिसमें रामसिंह के यहां से खाद की बिक्री ३/- कि. होना आरंभ हो गई।

आसपास के पांच ग्रामों में कुल ४ कि० ६० कि० खाद १४७० रु० में बेची गई तथा २ कि० खाद स्वयं की भूमि में प्रयोग किया गया।

इस प्रकार केचुए बिक्री भी १००१- कि० की दर से ६ कि० कृषि विभाग २ कि० निधारी १ कि० खापा १ कि० प्रतापगढ़ १ कि० जाम १ कि० बांदरा २ कि० भालीबाड़ा डेढ कि० ईश्वर मे १७५०/- रु० में बेचा इतना बेचने के बाद अभी १०

कि० केचुए इनके पास में है।

असर - इतनी मेहनत एवं लगन के परिणाम रामसिंह द्वारा बताया गया कि -

१. पलायन पर पूर्ण रोक लगी है। दूसरा

अ जब पलायन करते थे प्रतिवर्ष पत्नी के स्वास्थ्य में ७००/- ८००/- रुपये लगाने पड़ते थे अब इनका स्वास्थ्य खराब नहीं होता।

ब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं सभी के जैसे कपड़े पहनते हैं इनकी आवश्यक फीस समय पर जमा हो जाती है। जिससे बच्चों को स्कूल में डांट नहीं खानी पड़ती। अब अध्यापक इन्हे प्यार देते हैं।

स पलायन न करने से समय मिला और अपनी जमीन का सुधार किया जिसमें अनुमानित २५००/- की लागत लगती इसे धीरे - धीरे बना लिया।

द पशुओं की भी प्रतिदिन देखरेख होने लगी।

इ समाज के आवश्यक कार्यों में सामिल होने लगा कभी नहीं पहुंच सके तो बुलाया जाता। इस प्रकार समाज में पहचान बढ़ी।

फ संस्था में निरन्तर संपर्क में रहने से जानकारी बढ़ी अतः कम पढे होने के बाद भी किसी भी कार्यालय में जाकर अपनी बात कर लेते हैं। आत्मा विस्वास बना है।

ब उक्त परिणामों को समझने के फलस्वरूप लोगो को अपना उदाहरण स्वयं प्रस्तुत कर संगठित करने में सफलता मिली।

भ केचुआ व खाद का विक्रय कर १७००/- रु. कीमत का एक पुराना मकान खरीदा तथा ८ तोला चांदी भी खरीदा है।

म अब रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा पास में रहने लगा है।

परिणामस्वरूप पहले महुआ जल्दी बेच देते थे इस वर्ष रेट बढ़ने पर बेचा तो लाभ मिला।

- पहले छोटी सी जरूरत पर कर्ज लेना पड़ता था इस वर्ष कर्ज नहीं लेना

पड़ा।

- धान में जैविक खाद डालने से धान का उत्पादन १३ गुना हुआ जबकि कभी भी ७-८ गुना से अधिक नहीं होता था।

- नीदा नहीं हुआ जिससे निदाई में लगने वाला ८ दिन का समय ४०/- प्रतिदिन की दर से ३२०/- रु बचे।

- उत्पादित धान के चावल में खाद बहुत मीठा है जिसको खाने से संतुष्टि होती है।

- दाना चमकिला व वजनदार है।

इस प्रकार खरीफ पूर्व में १ एकड़ में ६० कि० लगाकर २४० कि० उत्पादन लेते थे। अब १ एकड़ में ६० कि० लगाकर ७८० कि० उत्पादन ले रहे हैं।

अब रामसिंह पूर्णरूप से खुश है। इन्हे १२ माहों का अनाज भी उपलब्ध हो जाता है और अपना काम पूरे उत्साह के साथ कर रहा है।

भालीबाड़ा में रामसिंह के इस कार्य को देखकर अन्य कृषकों ने भी ६ वर्मीपिट तैयार कर लिए हैं।

जनवरी २००५ तक केचुआ की मात्रा बहुत हो गई तथा कचरा कम हो गया। तब रामसिंह द्वारा दूसरा पिट बनवाया गया तथा जनवरी से जून के बीच केवल केचुआ के पालन का पूरा ध्यान दिया। अक्टूबर २००५ में २ कि० खाद निकाला इस प्रकार ७ कि० खाद फरवारी २००४ से अक्टूबर ०५ तक मिली केचुये अधिक बढ़ने के कारण रामसिंह रामसिंह ने एक पिट और बनाया इस प्रकार तीन पिट हुए। अब संस्था द्वारा व कृषि विभाग द्वारा गांवों में बैठक एवं संपर्क के दौरान जैविक खाद की जानकारी देते भालीबाड़ा में खाद की उपलब्धता बताई गई। जिसमें रामसिंह के यहां से खाद की बिक्री ३/- कि. होना आरंभ हो गई।

# आयवर्धक मिर्ची

परिवर्तन परियोजना घनसौर ब्लाक जिला सिवनी के कार्यक्षेत्र का एक ग्राम है बाजघोडी। यह ग्राम मुख्य मार्ग से बहुत अंदर होने के कारण सभी जानकारियों से विमुख था।

परियोजना के शुरुआत में यहां समूह संगठन बनाने का कार्य किया गया जिसमें लगातार बैठके संपर्क एवं प्रशिक्षण के माध्यम से आयवर्धक गतिविधियों पर जानकारी दी गई।

संकल्प समूह जो कि १८-३-०४ को गठित हुआ इस समूह ने प्रेरणा पाकर सामूहिक रूप से मिर्ची उत्पादन का निर्णय लिया। अब समूह के बचत के कुल ३८८०/- रु० में से ही प्रस्ताव डालकर स्वीकृति बाद पैसा निकालकर मिर्ची की खेती करना १२ ही सदस्यों ने तय किया।

और जुलाई २००५ से दिस. २००५ तक समूह के सभी सदस्यों ने अच्छा लाभ कमाया जो कि इस तुलनात्मक जानकारी से हम समझ सकते हैं।

## पूर्व स्थिति वर्तमान स्थिति

पहले इस जमीन में मक्का लगाते थे जिसमें २ कि० मक्का बोते थे उत्पादन ३-५ कि० तक होता था ।

लागत - जुलाई में ३००/-

निर्दाई में ३००/-

तर्काई / रखाई ३००/-

कुल लागत ९००/-

कुल मक्का उत्पादन हुआ ३५० कि० ग्रा० जो ४ रु० प्रति कि० की दर से १४००/- रु० का हुआ। इसमें यदि ९००/- रु० लागत घटा दे तो शुद्ध लाभ ५००/- रु० हो जाता है ! इसी भूमि पर मिर्ची के लिए लागत १०६३/- रु० आई कुल उत्पादन १.५६ कि० ग्रा० जो कि ३०रु० प्रति कि० की दर से बिका कुल ४६८०/- रु० का बिका।



३०००/- रु० का १० कि० घर पर व्यय कर लिया तो कुल ४६८०/- में से लागत खर्च १०६३/- रु० घटा दें तो ३६१७/- रु० लाभ होता है जोकि मक्का से प्राप्त आय से कहीं बहुत अधिक है और ३० कि० ग्रा० मिर्ची अभी बाड़ी में लगी भी है जो धरेलू उपयोग में ली जावेगी।

इस प्रकार समूह ने एक नवीन प्रयोग व सहमत से एक अच्छी आय प्राप्त की। इस कार्य को देखकर अन्य समूह के लोग भी प्रभावित हुए और मिर्ची का उत्पादन कर व्यक्ति रूप से लाभ प्राप्त किया। इसमें संकल्प समूह क्र. ०१ व संकल्प समूह क्र. ०३ ने भी मिर्ची की खेती सभी १२-१२ सदस्यों के साथ की।

मुख्य रूप से मिर्ची की इस खेती से-

१- सामूहिक मनोबल बढ़ा।

२- समूह के महत्व को समझा गया।

३- आय का स्रोत बना।

४- कम लागत में अधिक लाभ लेने की सोच पैदा हुई।

इस प्रकार समूह ने एक नवीन प्रयोग व सहमत से एक अच्छी आय प्राप्त की। इस कार्य को देखकर अन्य समूह के लोग भी प्रभावित हुए और मिर्ची का उत्पादन कर व्यक्ति रूप से लाभ प्राप्त किया। इसमें संकल्प समूह क्र. ०१ व संकल्प समूह क्र. ०३ ने भी मिर्ची की खेती सभी १२-१२ सदस्यों के साथ की। मुख्य रूप से मिर्ची की इस खेती से - सामूहिक मनोबल बढ़ा -समूह के महत्व को समझा गया -आय का स्रोत बना -कम लागत में अधिक लाभ लेने की सोच पैदा हुई।

# सब्जी उत्पादन के कार्य से ग्राम की पहचान बनी

ग्राम	-	सर्रा
ग्राम पंचायत	-	सर्रा
ब्लाक	-	घनसौर
जिला	-	सिवनी

ग्राम सर्रा एक आदिवासी बाहुल्य ग्राम है जिसकी कुल जनसंख्या ७८१ है यह ब्लाक घनसौर से २६ कि०मी० की दूरी पर बसा हुआ है

पलायन - ग्राम में ३ माह किसानों व अन्य कार्य करने के बाद ६ से ७ माह के लिए पलायन होता था गांव का ७५ प्रतिशत जन समुदाय गांव छोड़कर काम की तलाश में चला जाता था।

गांव की अधिकांश जमीन डूब गई है। दिसम्बर में बरगी बांध का पानी खाली होने से निकली जमीन पर रवि की खेती करते थे। जबकि पानी किनारे से भरा रहता है लेकिन पुरानी परम्परा के अनुसार गेहूं चना मसूर की खेती ही करते थे। और निराश हतास तथा अपनी-अपनी आर्थिक तंगी में जकड़े हुए रहते थे।

इस ग्राम में २००२ में समूह साथी द्वारा ३ पुरुष समूह भी बनाये गये परन्तु ये समूह यहां कुछ नहीं कर रहे थे।

परिवर्तन परियोजना के कार्यक्षेत्र का ग्राम होने के कारण तरुण संस्कार संस्था द्वारा एक पुरुष समूह बनाया गया समूह सदस्यों के साथ लगातार संपर्क एवं बैठक तथा प्रशिक्षण एक्सपोजर काउंसलिंग के माध्यम से जागरूकता लाई गई तथा ये प्रेरणा दी गई की उपलब्ध साधनों को कुशलता तरीके से कैसे उपयोग किया जा सकता है।

कुछ स्वरोजगार पर भी जानकारी दी गई एक दिन समूह द्वारा बैठक कर निर्णय लिया गया की गर्मी में खाली हुई जमीन पर दो से तीन सदस्य सब्जी लगाये यदि फसल ठीक होती है तो आगे इस कार्य को बढ़ाया जावेगा।



आलू, मिर्ची, टमाटर, भटा को लगभग २५-२५ डि० में तीनों सदस्यों ने लगाया फसल का उत्पादन १५-२० गुना तक हुआ।

अतः क्या था हर्षा लगे न फिटकरी रंग चोखा हसेय समूह के सभी सदस्यों ने इस कार्य को किया आज में स्थिति में है कि ग्राम का सभी सदस्य इस सब्जी उत्पादन मे लगा हुआ है और आय प्राप्त कर रहे है।

इस सब्जी उत्पादन के कार्य से ग्राम की पहचान बनी और शासकीय अधिकारी व कर्मचारी वहां नहीं पहुंचते थे वे भी अपनी अपनी योजना लेकर ग्राम सर्रा जाने लगे है।

आलू, मिर्ची, टमाटर, भटा को लगभग २५-२५ डि० में तीनों सदस्यों ने लगाया फसल का उत्पादन १५-२० गुना तक हुआ। अतः क्या था हर्षा लगे न फिटकरी रंग चोखा हसेय समूह के सभी सदस्यों ने इस कार्य को किया आज में स्थिति में है कि ग्राम का सभी सदस्य इस सब्जी उत्पादन मे लगा हुआ है और आय प्राप्त कर रहे है। इस सब्जी उत्पादन के कार्य से ग्राम की पहचान बनी और शासकीय अधिकारी व कर्मचारी वहां नहीं पहुंचते थे वे भी अपनी अपनी योजना लेकर ग्राम सर्रा जाने लगे है।

# पुरुष समूह गठित



ग्राम - लगधरी  
विकास खण्ड - घनसौर  
जिला - सिवनी

ग्राम लगधरी मुख्य कार्यालय जनपद से २७ कि० मी० दूर नर्मदा नदी के भराव क्षेत्र के किनारे विस्थापित गांव - जो पंचायत मुख्यालय भी है लगधरी स्थित है यहां परिवर्तन परियोजना द्वारा ३ पुरुष समूह गठित किए गए हैं।

समूहों की बैठक निरन्तर की जाती है। सम्पर्क होने के कारण प्रत्येक प्रायोजित कार्यक्रमों में समूह सदस्य भाग लेते हैं। प्रभावनुसार समूह में स्वरोजगार की समझ बनी तो गांव की जरूरत के अनुसार आटा चक्की लगाने का मन बना लिया।

निरन्तर ३-४ बैठके में यही चर्चा गंभीरता से की गई। संकल्प समूह टास्क १ के पास कुल ४२२६/- रु. थे।

अंतः संकल्प टास्क २ से ३०००/- रुपये उधार लिया तथा गांव के ही एक आदिवासी परिवार के संतलाल मरावी से १००००/- रुपये बिना ब्याज के लिया।

कुल १७२२६/- रुपये हुए ग्राम निधानी जाकर एक सेकेण्ड हेन्ड डीजल पंप आटा चक्की ६ माह पुरानी १८०००/- रु० में खरीदा यह खरीद अप्रैल २००५ में कहीं गई इसके साथ ही करीब ३५००/- फाउन्डेसन व टांका बनाने में लगा।

अप्रैल में पिसाई कार्य आरंभ हुआ वर्तमान में ६०००/- रुपये मासिक की पिसाई समूह में होती है जिससे डीजल +

मजदूर का खर्च ३५००/- माह होता है। शेष २५००/- रु० बचत होती है। इस बचत से समूह के उधार वापसी का कार्य प्राथमिकता से किया अभी ८०००/- रु० वापसी हो चुके हैं।

समूह द्वारा यह भी उधारी चुकाने के बाद दूसरी चक्की लगाने का निर्णय लिया गया है।

इस बचत से समूह के उधार वापसी का कार्य प्राथमिकता से किया अभी ८०००/- रु० वापसी हो चुके हैं। समूह द्वारा यह भी उधारी चुकाने के बाद दूसरी चक्की लगाने का निर्णय लिया गया है।

# स्कूल मे नियमितता बनी

ग्राम	-	जोवा
ग्राम पंचायत	-	सर्रा
ब्लाक	-	घनसौर
जिला	-	सिवनी


ग्राम जोवा में ई० जी० एस० शाला भवन बनाया गया लेकिन जगह उंची नीची होने के कारण साला के सामने बच्चे खेल कूद नहीं सकते थे।

विगत दिनो खेलते समय एक बच्चे के पैर में मोच आ गई। इस बात पर ग्राम समिति की बैठक बुलाई गई जिसमें ई० जी० एस० स्कूल के सामने मैदान बनाने पर चर्चा हुई समिति के सदस्यों ने तय किया कि बच्चे अपने है पढ़ेंगे तो खेलेगें भी क्यों न हम सब मिलकर वहां गड्ढा भर दें।

समिति सदस्यों ने निर्णय लिया कि प्रत्येक परिवार से दो सदस्य एक महिला एक पुरुष प्रतिदिन समय देकर स्कूल के सामने कार्य करके जगह को समतल करेगें जिस पर की बच्चे पढ़ाई के बाद खेल सकेंगे इस विचार को सभी ने माना तथा अपनी सहमती दी।

दूसरे दिन ग्राम जोवा के सभी लोगों ने मिलकर स्कूल के सामने जगह को समतल कर दिया। इस कार्य में ६० महिला व पुरुषों ने संयुक्त रूप से भागीदारी की जिसकी लगभग ३०००/- रुपये लागत थी। अब बच्चों इस मैदान में खेलते व पढ़ाई भी करते हैं बच्चो को खेल का मैदान मिला तो अब उपस्थिति भी अच्छी रहती है।

इस कार्य को सचिव सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत का कार्य बताकर पैसा निकालना चाहा लेकिन कोषाध्यक्ष की ईमानदारी से असफल हो गये। कोषाध्यक्ष द्वारा इस बात को ग्रामीणजनों के समक्ष रखा गया इस पर



ग्रामवासियों ने सचिव व सरपंच को बुलाया और बहुत डांट भी लगाई इस पर दोनों ने माफी मांगी तथा आगे ऐसी गलती नहीं होगी कहा गया।

इस प्रकार ग्रामवासियों की एकता व जागरुकता में बच्चो के खेलने का मैदान मिला बच्चों की स्कूल मे नियमितता बनी साथ ही बेईमानी पर अंकुश लगा।

विगत दिनो खेलते समय एक बच्चे के पैर में मोच आ गई। इस बात पर ग्राम समिति की बैठक बुलाई गई जिसमें ई० जी० एस० स्कूल के सामने मैदान बनाने पर चर्चा हुई समिति के सदस्यों ने तय किया कि बच्चे अपने है पढ़ेंगे तो खेलेगें भी क्यों न हम सब मिलकर वहां गड्ढा भर दें।

# ग्राम समिति ने दिलाई मजदूरी

ग्राम	-	कारीभून
ग्राम पंचायत	-	पाडी
ब्लाक	-	दंडौर
जिला	-	सिवनी

ग्राम पंचायत से कारीभून तक डेढ़ कि. मी. रोड़ RES से बनवाई जिसमें मजदूरी का भुगतान ५२/- रुपये की बजाय मात्रा ३०/- रुपये किया गया मजदूरी करने वालों में कुछ समिति के सदस्य भी थे।


इन्होंने ३०/- रुपये लेने से इंकार किया तो ओवरसियर मि० जैन ने कहा ठीक है मत लो ऐसे इतने ही मिलेंगे तब समिति के सदस्य ने मजदूरों से पैसा वापिस करने के लिए कहा तथा रेट बताया कि ५२/- रुपये का रेट है इतना क्यों लिया सभी ४४ मजदूरों द्वारा पैसा वापिस कर दिया गया ओवरसियर तथा उसका साथी पैसा वापिस लेकर चल दिये।

तब समिति सदस्य व अन्य मजदूरों ने गाड़ी घेर कर रोक ली और कहा गाड़ी छोड़ा लेगें अन्यथा पूरा भुगतान करो तथा मस्टर रोल में पूरी मजदूरी भरी गई तथा ठंडे मिजाज से कहा कि भाई कुछ उपर से खर्च हो जाता है यदि आप लोग चाहोगे तो अपना खर्चा निकाल जायेगा

जैसा आप करो तब २/- रुपये प्रति मजदूर प्रतिदिन के हिसाब से देना समिति द्वारा तय किया गया जिसमें ४४ मजदूरों ने ८ दिन काम किया था ।

पूरा पैसा लेकर २/- प्रतिदिन के हिसाब से ७०४/- रुपये इकट्ठा कर दे दिया और बाकी सभी का भुगतान कर दिया गया।

ग्राम मजदूरों द्वारा बताया गया कि हमे अक्सर कम मजदूरी में ही काम करना पड़ता है। क्योंकि मजदूरी दर बताने वाला कोई नहीं है। गांव में जो होशियार या कुछ



तब समिति सदस्य व अन्य मजदूरों ने गाड़ी घेर कर रोक ली और कहा गाड़ी छोड़ा लेगें अन्यथा पूरा भुगतान करो तथा मस्टर रोल में पूरी मजदूरी भरी गई तथा ठंडे मिजाज से कहा कि भाई कुछ उपर से खर्च हो जाता है यदि आप लोग चाहोगे तो अपना खर्चा निकाल जायेगा जैसा आप करो तब २/- रुपये प्रति मजदूर प्रतिदिन के हिसाब से देना समिति द्वारा तय किया गया जिसमें ४४ मजदूरों ने ८ दिन काम किया था ।

पढ़े लिखे लोग होते हैं वह उन्हीं ओव. रसियर ठेकेदार या मुंशी के साथ मिलकर बोलते हैं कुछ पैसा इनको मिल जाता है। लेकिन परियोजना द्वारा जो हमें दी जाती है वह सही है उसी का यह परिणाम है कि हमें आज अपनी मजदूरी मिली।

# जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगे उनको 251/- रुपये जुर्माना



ग्राम खरीकला का गांव गोहगांव घंसोर से ७ कि० मी० पश्चिम में स्थित है। यह गांव पूर्णतः आदिवासी गांव है। शासन द्वारा वन विभाग के माध्यम से यहां विश्व बैंक परियोजना द्वारा ६ हेक्टेयर क्षेत्र में वनौषधि बांस लेमन ग्रास लगवाया गया ताकि ग्राम के पलायन को रोका जा सके तथा ३ वर्ष तक प्रति परिवार १२००/- रुपये नगद दिया जाता रहा। तीन वर्ष बाद २००३ में यह आर्थिक सहायता बंद कर दी गई।

इस कारण गांव में पुनः पलायन शुरू हुआ जिसके चलते अधिकांश बच्चे घंसोर आकर केसर में काम करने लगे।

जिसका सीधा सीधा असर शिक्षा पर पड़ा ग्राम की सामाजिक स्थिति भी खराब

होने लगी कुछ लोग शराब बनाना शुरू कर दिए।

परिवर्तन परियोजना द्वारा बहुत सी बैठके ग्राम समुदाय के साथ शिक्षा स्वास्थ्य तथा आर्थिक सुधार पर की गई। इन्हीं बैठको में इस ग्राम का शिक्षक भी उपस्थित होते रहे जिसमें इन्होंने बताया कि ग्राम के ३ बालक बहुत दिन से शाला नहीं आ रहे हैं और उनके माता पिता भी कोई और ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत सोचने के बाद शिक्षक के सहयोग से अक्टूबर २००५ की ग्रामसभा में इस प्रश्न को रखा गया और साथ ही सर्वशिक्षा अभियान उद्देश्य भी समझाया गया।

परिणामतः ग्रामसभा में ३ बच्चों के

पालकों को बुलाकर समझाया गया तथा ग्रामसभा में यह निर्णय लिया गया कि जो पालक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगे उनको २५१/- रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। अंततः उन तीनों बच्चों का पुनः दाखिला कराया गया। इस निर्णय का आदेश पर सभी ने अमल किया अब ग्राम के सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं और पढाई कर रहे हैं।

उन तीनों बच्चों का पुनः दाखिला कराया गया। इस निर्णय का आदेश पर सभी ने अमल किया अब ग्राम के सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं और पढाई कर रहे हैं।



ग्राम	-	टिकरिया
ग्राम पंचायत	-	टिकरिया
विकास खण्ड	-	बीजाडाण्डी
जिला	-	मण्डला

विकास खण्ड से १८ कि० मी० दूर टिकरिया एक आदिवासी गरीब जनों का गांव है इस ग्राम में वर्ष २००३-२००४ में खडंजा रोड निर्माण का कार्य पंचायत द्वारा कराया गया परन्तु कार्य होने पर ५८ मजदूरों का ५५,०००/- रुपयों का भुगतान नहीं हो सका। मजदूरों जो इसी मजदूरी के भरोसे अपना जीवन चलाते हैं बहुत परेशान हुए और कई बार इन्होंने ग्राम पंचायत सरपंच के समक्ष अपनी मजदूरी भी बताई लेकिन सिर्फ भुगतान हो जाएगा

इसका आश्वासन दिया गया। ऐसा करते-करते एक वर्ष बीत गये।

इसी दौरान परिवर्तन परियोजना तरुण संस्कार से बी० डी० सी० ग्राम विकास समिति का निर्माण किया गया। बी० डी० सी० की बैठक में एक दिन इस मजदूरी प्राप्ति पर चर्चा की। चर्चा में निर्णय लिया गया कि सभी मिलकर जनपद बीजाडाण्डी का घेराव करेंगे। दिनांक १२ नवम्बर २००५ को ट्रेक्टर के साधन से ५५ श्रमिक जनपद पहुंचे। बी० डी० सी० सदस्यों ने सी० ई० ओ० तथा जनपद अध्यक्ष को अपनी व्यथा बताई।

लिखित आवेदन भी दिया गया, परन्तु सी० ई० ओ० ने कोई पावती नहीं दी। पवती देने से इन्कार कर दिया जब

धनाराम बरकड़े जनपद अध्यक्ष ने लोगो की समस्या को सुना समझ व लिखित मे सभी जनो को आश्वासन दिया। कहा में स्वयं रुचि लेकर उक्त प्रकरण की जांच कराकर मजदूरी भुगतान कराऊंगा। बी० डी० सी० की पहल से व जनपद अध्यक्ष के सहयोग से ५८ श्रमिकों की ५५,०००/- रुपये की मजदूरी का भुगतान पंचायत द्वारा कराया गया।

**बी० डी० सी० की पहल से व जनपद अध्यक्ष के सहयोग से ५८ श्रमिकों की ५५,०००/- रुपये की मजदूरी का भुगतान पंचायत द्वारा कराया गया।**

# अतिरिक्त आय का स्रोत

ग्राम बेरपानी में परियोजना द्वारा 99 समूहों का गठन किया गया है। समूह सदस्यों को निरंतर ग्राम बैठकों एवं प्रशिक्षण के दौरान नवीन-नवीन जानकारी दी गई।

समूह सदस्यों की रुचि सब्जी उत्पादन में अधिक थी यह देखकर समूहों का सम्पर्क परिवर्तन परियोजना के कार्यकर्ता ने उद्यान विस्तार अधिकारी से करवाया।

बाड़ी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बी.पी. एल. हितग्राहियों को साग सब्जी का निजी किट नवम्बर 2005 में प्रदान किया गया। 900-900 ग्राम के इन पैकेटों में टमाटर, बैंगन, लौकी, सेम, मूंगफली तथा चुकंदर के बीज उपलब्ध थे।

92 कृषकों द्वारा 90 एकड़ में सब्जी लगाई गई कृषकों द्वारा इसकी अच्छी देख-भाल की गई जिसमें इस बाद कुल उत्पादन सामूहिक रूप से इस प्रकार रहा।

क्र.	बीज उपस्थित राशि	बीज मात्रा मात्रा	बिक्री दर	कुल
1	भिण्डी	9200 ग्राम	9	
किव.	८ रु.	८00 रु.		
2	टमाटर	9200 ग्राम	2	
किव.	90 रु.	2000 रु.		
3	बैंगन	9200 ग्राम	8	
किव.	6 रु.	2800 रु.		
4	लौकी	9200 ग्राम	8	
किव.	८ रु.	3200 रु.		
5	सेम	9200 ग्राम	9	
किव.	५ रु.	५00 रु.		
6	मूंगफली	9200 ग्राम	6	
किव.	9५ रु.	६000रु.		
7	चुकंदर	9200 ग्राम	५0	
किव.	90 रु.	५00 रु.		



इस प्रकार बिक्री कर सामूहिक रूप से सभी सदस्यों ने लाभ लिये इस कार्य में मुख्य रूप से जो बात सामने आई इसमें-

1. नियमित सब्जी का उत्पादन शुरू हुआ।
2. सब्जी को गांव से बाहर बाजार तथा मण्डी तक ले जाकर बिक्री किया गया।
3. संगठित रहकर कार्य करने के महत्व को समझा गया।
4. शासकीय विभाग से सम्पर्क बढ़े।
5. स्थाई रूप से आत्मनिर्भरता की पहल शुरू हुई।

इस प्रकार कृषि के अतिरिक्त आय का स्रोत तैयार किया गया।

समूह सदस्यों की रुचि सब्जी उत्पादन में अधिक थी यह देखकर समूहों का सम्पर्क परिवर्तन परियोजना के कार्यकर्ता ने उद्यान विस्तार अधिकारी से करवाया। बाड़ी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बी.पी. एल. हितग्राहियों को साग सब्जी का निजी किट नवम्बर 2005 में प्रदान किया गया।

# अनाज संग्रह



ग्राम	-	बेरपानी
ग्राम पंचायत	-	देवरी
ब्लाक	-	बीजाडाण्डी
जिला	-	मण्डला

ग्राम बेरपानी जोकि बीजाडाण्डी ब्लाक के अंदर २५ कि.मी. की दूरी पर बसा हुआ है। परिवर्तन परियोजना के द्वारा बेरपानी में महिलाओं के समूह बनाये गये ३ समूह सदस्यों के साथ ग्राम विकास एवं स्वरोजगार को लेकर बैठकें तथा प्रशिक्षण किए गए। इसी दौरान ग्राम बेरपानी में एक महिला गंगा समूह भी बनाया गया समूह सदस्यों में समझ बनते यह तय किया गया

की पैसों की बचत के साथ साथ हम अनाज संग्रह का कार्य भी करेंगे। इस निर्णय के बाद समूह द्वारा अनाज संग्रहण करना शुरू किया गया। इसी दौरान ग्राम में समूह सदस्यों को श्रीमती सुहद्राबाई पत्नि पोढले के यहां लड़की की शादी होने की जानकारी मिली। इस पर महिला गंगा समूह द्वारा एक बैठक कर यह निर्णय लिया गया कि श्रीमती सुहद्राबाई जोकि गरीब घर से है और समूह की सदस्यता भी है। इनकी बच्ची की शादी अगले माह अक्टूबर २००५ में होना है। हम समूह के सभी सदस्य ५-५ कि. चावल तथा १-१ कि. दाल सहयोग स्वरूप प्रदान करेंगे। निर्णय का क्रियान्वयन :- समूह सदस्य श्रीमती

सुहद्राबाई के यहां लड़की की शादी में गंगा समूह द्वारा अनाज संग्रहण करके सहयोग किया।

चावल ५ कि. रु ११ सदस्य - ५५ कि. १२ रु. कि. - ६६०

दाल ११ कि. ११ सदस्य - ११ कि. २५ रु. कि. - २७५

इस प्रकार कुल ६३५/- रुपये का अनाज समूह सदस्यों द्वारा सहयोग किया गया। इस कार्य से समूह की छबि पूरे गांव में सहयोगी के रूप में बनी। आज समूह सदस्य पूरे उत्साह व एकता के साथ काम कर रहे हैं।

# महिला पुरुषों के समूह

ग्राम पिपरिया जोकि ब्लाक मुख्यालय से ७ कि.मी. की दूरी पर बसा हुआ है। मुख्य रूप से आदिवासी व पिछड़ा वर्ग के लोग निवास करते हैं।

परिवर्तन परियोजना के द्वारा ग्राम में ग्राम विकास समिति तथा महिला पुरुषों के समूह बनाये गये हैं इनकी नियमित बैठक तथा पंचायत राज्य पर चर्चा से एक समझ विकसित हुई और समूह तथा समिति सदस्यों ने मिलकर पूर्व सरपंच द्वारा किए गए कार्यों से परेशान होकर एक अच्छे व्यक्ति को सरपंच बनाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद चुनाव पूर्व समिति समूहों के सदस्यों से एक बैठक कर श्री महावीर कुम्हरे के ग्राम पिपरियो से प्रत्याशी बनाया समूह सदस्यों ने पिपरिया के अलावा विजयपुर, कुशमी, बैहर, गोदरी ग्रामों में जन संपर्क एवं प्रचार प्रसार किया गया।

भूतपूर्व सरपंच श्री बसंत बरकड़े द्वारा ग्रामवासियों को लुभाने के लिए शराब तथा रूपयों की व्यवस्था की गई परन्तु समूह व समिति के सदस्यों ने सर्तकता विभाग की भूमिका निभाई और न ही रूपये बटने दिया न ही शराब फलस्वरूप समूह समिति द्वारा चुना गया प्रत्याशी श्री महावीर कुम्हरे सरपंच पद हेतु जीत हासिल की। भूतपूर्व सरपंच द्वारा विगत पंचवर्षीय से पंचायत कार्यों में अनेक प्रकार की भ्रष्टाचारी व अनियमितताएं की गई राहत कार्यों के भुगतान हेतु खाद्यान्न जनपद द्वारा दिया गया था कुल २८ कि. जिसमें १४ कि. बीजाडाण्डी में ही बेच दिया गया था इस बात को जनपद पंचायत के प्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारी अवगत थे।

ऐसी स्थिति में उपयंत्री जी को सुनहरा मौका मिला मोटी रकम ऐठने के लिए क्योंकि मूल्यांकन तो उपयंत्री द्वारा ही किया जाना था इस सब क्रियाकलापों के चलते पूर्व सरपंच द्वारा नवनिर्वाचित सरपंच को पदभार नहीं दिया जा रहा था ऐसी स्थिति में स्वयं सहायता समूहों ने अपनी बैठक



का आयोजन सामूहिक रूप से किया व निर्णय लिया कि समूहों की ताकत से सरपंच को विजयी बनाया है तो पदभार भी दिलाया जावेगा; समूह ने बैठकों में रणनीति बनाई।

१. जनपद स्तर के प्रतिनिधियों, अधिकारियों से संपर्क व पत्र व्यवहार कर कार्यवाही की।

२. जनपद स्तर पर समस्या समाधान नहीं होता है तो जिला स्तर पर पहुंचा जाये।

३. यदि फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आंदोलन किया जाये।

उपरोक्त रणनीति के तहत समूहों ने कार्यवाही की किन्तु आश्वासन ही मिले

समाधान नहीं हुआ। जब समूहों ने जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय में 'धरना' दिया गया व फोन द्वारा जिला अधिकारियों को सूचित किया गया।

माननीय कलेक्टर महोदय जी ने तहस. लिलदार व एम.डी.एम. द्वारा दो दिन के भीतर इस समस्या का समाधान करने का वादा किया एस.डी.एम. महोदय जी द्वारा भूतपूर्व सरपंच को नोटिस दिया गया कि दो दिन के अंदर नवनिर्वाचित सरपंच को यदि पद नहीं दिया जाता तो गिरतार कर कार्यवाही की जावेगी।

उक्त नोटिस से भयभीत होकर पूर्व सरपंच ने दिनांक २०.०४.०५ को नवनिर्वाचित सरपंच श्री महावीर कुम्हरे को पदभार सौंप दिया।

# नवाचारों से हर प्रसव सुरक्षित हर बच्चा स्वस्थ

विकासखंड बैहर जिला बालाघाट में स्थित लगभग 9३०० की आबादी वाला ग्राम करवाही एक ऐसा गाँव जहाँ एक भी बच्चा कुपोषण की श्रेणी में नहीं है और गाँव में होने वाले प्रत्येक प्रसव सुरक्षित हैं। यह संभव हो सका है काफी सारे लोगों के सम्मिलित प्रयास से जिसमें शामिल हैं पेक्स और आई.एन.एच.पी. परियोजना के एनीमेटर,, स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं, आंगनवाडी कार्यकर्ता, ए.एन.एम. पंचायत प्रतिनिधि और परिवर्तनकर्ता।

विगत तीन वर्षों के दौरान संस्था द्वारा प्रारंभ किये गये छोटे छोटे प्रयासों ने अब आकार लेना प्रारंभ किया है। पोषण और स्वास्थ्य विषय पर विभिन्न स्तरों पर जागरूकता और क्षमता वृद्धि की गतिविधियाँ अलग अलग स्तरों पर अलग अलग लोगों के साथ की और अन्नप्राशन और गोदभराई जैसे नवाचारों के आयोजन ने सभी लोगों को एक साथ एक स्थान पर आने का मंच प्रदान किया।

समुदाय में प्रचलित रिवाजों गोदभराई और अन्नप्राशन को पोषण और स्वास्थ्य के मुद्दे से जोड़कर प्रसव पूर्व तैयारियों, पॉच सफाई, प्रसव नियोजन, पुरक पोषण आहार, ६ माह से शिशु को ठोस आहार, प्रसव के पश्चात शीघ्र स्तनपान, संपूर्ण स्तनपान, नाल पर कुछ ना लगाना और टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य व्यवहारों पर व्यापक स्पष्टता बनायी गयी जिसमें सेवा प्रदाताओं की संवे. दनशीलता और क्षेत्र में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पंचायत और ग्रामसभा के साथ कार्य किया गया। पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण और विशेष ग्रामसभा का आयोजन, स्वयं सहायता समूहों की बैठकों में विस्तार पूर्वक चर्चा ने



समुदाय में चेतना फैलायी और परिणाम सामने है कि आंगनवाडी में हर बच्चा जो ६ माह का होता है समारोह पूर्वक उसका अन्नप्राशन किया जाता है और प्रत्येक गर्भवती महिला का पंजीकरण होते ही गोदभराई की जाती है।

ये आयोजन अब गाँव में स्थायित्व प्राप्त कर चुके हैं, शासन की दो योजनाओं (प्रसव हेतु परिवहन और जननी सुरक्षा योजना) का लाभ भी समुदाय को प्राप्त हो रहा है इसमें पंचायत, ए.एन.एम. और आंगनवाडी कार्यकर्ता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है।

ये आयोजन अब गाँव में स्थायित्व प्राप्त कर चुके हैं, शासन की दो योजनाओं (प्रसव हेतु परिवहन और जननी सुरक्षा योजना) का लाभ भी समुदाय को प्राप्त हो रहा है इसमें पंचायत, ए.एन.एम. और आंगनवाडी कार्यकर्ता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है।

अमीन चालर्स  
परियोजना समन्वयक  
सी.डी.सी. बालाघाट

# सहयोग से मिला योग

कपसिया एक किशोरी बालिका है। इसके परिवार में इसके पिता के अलावा कोई नहीं है। माता की मृत्यु ६ साल पहले हो चुकी थी बैचारी बिना माता की बेटी कपसिया अपने बुढ़े बाप के साथ ग्राम तिन्सरा में रहती थी जो ब्लाक मुख्यालय से ६ किलोमीटर दूर बसा हुआ है।

कपसिया के पिता का बुढ़ापा और गरीबी दोनों ही कपसिया के झकझोर रही थी। वह अपनी गरीबी से परेशान थी इस हालत में उसके पिता को जवान बेटी की चिंता खाई जा रही थी।


वह सोच सोच कर परेशान था कि मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा और फिर एक दिन उसके यहां मेहमान आये उनका आदर सत्कार किया जो घर में था वह खिलाया जब शाम को मेहमान ने कपसिया के पिता से शादी की बात की तो उसके पिता चाह कर भी हां नहीं कर पा रहा था क्योंकि उनके पास शादी के लिए कोई इंतजाम नहीं था मगर मेहमान सगाई के लिए १० दिन बाद का करार करके चले गये।

अब कपसिया सोचने लगी कि अब क्या करूं हमारे पास तो स्वयं खाने के लिए अनाज नहीं हैं। सगाई कैसे होगी दिन बीतते जा रहे हैं।

कपसिया सोच में पड़ी थी तभी। संस्था द्वारा गठित किशोरी मण्डल की बालिकायें आई और कपसिया को बैठक की जानकारी दी और फिर शाम को किशोरी मण्डल की बैठक में कपसिया और सभी सदस्य उपस्थित हुये।

फिर चर्चा शुरू हुई तो कपसिया खामोश सहमी थी तो लकड़ियों ने पूछा कपसिया क्या बात है। आज तुम खामोश सहमी सहमी सी हो। कपसिया ने प्रश्न का उत्तर न देते हुये उसे टाल दिया।

परन्तु लकड़ियों ने कहा यदि तुम हम से परेशानी नहीं बताओगी तो हमें कैसे मालूम



होगा और अपन ने तो मण्डल इसीलिये बनाया हैं। वह एक दूसरे के सहयोग के लिए बनाया हैं। तब कपसिया ने उनको बताया कि छः दिन बाद मेरी सगाई होना है। हमारे पास कुछ भी अनाज का इंतजाम नहीं है। बताते बताते कपसिया की आंखों में आंसू आ गये तब मण्डल की लड़कियों ने धीरज बनाया और निर्णय लिया की प्रत्येक घर जाकर सगाई के लिए अनाज इकट्ठा करेंगे और सुबह सभी मण्डल की लकड़ियों गांव में निकली और प्रत्येक घर से अनाज इकट्ठा किया और कपसिया की सगाई की।

अब कपसिया सोचने लगी कि अब क्या करूं हमारे पास तो स्वयं खाने के लिए अनाज नहीं हैं। सगाई कैसे होगी दिन बीतते जा रहे हैं। कपसिया सोच में पड़ी थी तभी। संस्था द्वारा गठित किशोरी मण्डल की बालिकायें आई और कपसिया को बैठक की जानकारी दी और फिर शाम को किशोरी मण्डल की बैठक में कपसिया और सभी सदस्य उपस्थित हुये। फिर चर्चा शुरू हुई तो कपसिया खामोश सहमी थी तो लकड़ियों ने पूछा कपसिया क्या बात है। आज तुम खामोश सहमी सहमी सी हो। कपसिया ने प्रश्न का उत्तर न देते हुये उसे टाल दिया।

# बंजर में बहार

सिवनी जिला के घंसोर विकास खण्ड में विकास खण्ड मुख्यालय से २४ कि.मी. की दूरी पर प्राकृतिक संपदाओं से युक्त पहाडियों के किनारे सर्रा ग्राम स्थापित है। यहां की आबादी ६४६ है। सर्रा ग्राम में ७० प्रतिशत आदिवासी ५ प्रतिशत हरिजन एवं २५ प्रतिशत पि. वर्ग के लोग निवास करते हैं।

यहां २५ प्रतिशत पथरीली ५० प्रतिशत काली मिट्टी एवं २५ प्रतिशत भगदीली मिट्टी है। यह क्षेत्र उंचा नीचा है परिणामतः मिट्टी का कटाव अधिक है।

उंचा नीचा क्षेत्र होने के कारण यहां का भूमिगत जलस्तर १४० फिट गहरे में है परिणामतः कृषि में अपर्याप्त लेकिन हेण्ड पंप में पर्याप्त जल उपलब्ध है। बरगी बांध जलाशय के कारण यहां पूरा वर्ष पानी उपलब्ध रहता है। लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाता था। गांव के विष्णु प्रसाद, धर्वे जी ने बताया कि परिवर्तन परियोजना के २००३ से ग्राम संपर्क के बाद पानी के उपयोग की प्रेरणा मिली।

२५ वर्ष पूर्व ग्राम सर्रा की आबादी लगभग ४६८ थी। उस समय आय के मुख्य स्रोत कृषि, मजदूरी के साथ प्राकृतिक वन सम्पदा से आजीविका चलती थी। गांव खुशहाल था धीरे धी व्यवस्था के अभाव के कारण प्राकृतिक संपदा घटी आर्थिक समस्याये बढ़ती गई और पलायन आजी. विका का साधन बन गया। परिणाम स्वरूप जहां गांव से ७० प्रतिशत पलायन होता था वही दूसरी ओर आर्थिक समस्या बढ़ी तथा सामाजिक असुरक्षा भी होने लगी। घर में केवल बुढ़े बुजुर्ग व बच्चे रहते थे। बूढ़े बताते थे बच्चे पढाई से बंकि्त होकर घर के काम करते थे। जिसमें शिक्षा का स्तर गिरता गया। इसी प्रकार बूढ़े व बच्चों के सहारे की व्यवस्थाये छिन्न भिन्न होती गई।

यथा नौकी लकडी नब्बे चिराई।

वर्ष २००३ से तरुण संस्कार स्वयं सेवी संस्था द्वारा परिवर्तन परियोजना का शुभारंभ घंसोर विकासखण्ड में किया गया। संस्था द्वारा गांव की स्थिति का आकलन का गांव में संगठनात्मक कार्य किये गये जिसमें ग्राम विकास समिति, युवा महिला मण्डल तथा म.प्र. स्वसहायता समूह बनाया निरंतर संपर्क, नियमित बैठक प्रशिक्षण कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, शैक्षणिक यात्रा आदि कार्यक्रमों का आयोजन कर अल्प बचत करना प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था व उचित दोहन करना अनावश्यक खर्चों को रोकना आदि बनाया गया।

प्रेरित होकर समूह ने एक डीजल पंप खरीदा, व नाले के किनारे समूह ने सब्जीकी खेती की शुरूआत की। जिसमें सर्वप्रथम भिंडी, भटा, टमाटर फिर लौकी, आलू-धनिया तथा फिर सूरज मुखी की खेती की गई। जब सामूहिक बैठक में सब्जी की खेती का हिसाब निकाला गया तो अच्छा फायदा निकला परिणाम स्वरूप बैठक में उपस्थित समुदाय प्रेरित हुआ। उसी समय शैक्षणिक यात्रा में भी औषधीक खेती, व सब्जी की खेती आंदोलन आरंभ हुआ। पारंपरिक तरीके में बदलाव हुआ जिसमें खरीफ में मका की जगह व रबी में राई जगह आलू भटा टमाटर धनिया लहसुन प्याज गोभी मूली आदि लगाई गई। जिससे नगद आय आरंभ हुई। जिसमें छोटे कर्ज लेने बंद हुआ आवश्यकतायें पूरी हुई। साथ ही ७०: पलायन पर पूरी तरह रोक लगी।

इस प्रकार पलायन रूकने से स्वास्थ्य शिक्षा, खेती-पशुपालन आदि व्यवस्थायें सुचारु रूप से चलने लगी।

पूर्व में प्राथ. शाला थी लेकिन दर्ज संस्था अपेक्षा ६०: उप. होती थी। जिसमें बालिका संस्था कम रहती थी। लोग कभी

भी स्कूल नहीं जाते थे। शिक्षको में लाप. रवाही थी। आज माध्यमिक शाला है, शिक्षक समय से आते हैं लोग स्कूल जाकर देखते हैं आज उपस्थिति ६८: होती है।

पूर्व में यहां अंध विश्वास बहुत था, स्वास्थ्य कार्यकर्ता कभी कभार गांव आते थे, गर्भवती व शिशु स्वास्थ्य सुविधायें टीका आदि ४०: होता था। आज गर्भवती पंजीयन ६५: प्रथम ग्रेड में टीका जांच व प्रसव सुरक्षित होते हैं, बच्चों के टीका लगते हैं। पूर्व की अपेक्षा अंध विश्वास में बहुत कमी आई है। स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है, जिसमें डायरिया, मलेरिया, पीलिया काली खांसी कम हुई हैं - परिणामतः बालमृत्यु घटी है। लोग स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने लगे हैं। जागरूकता के फल स्वरूप आगनवाड़ी केन्द्र के संचालन में सुधार हुआ।

आज तकनीकी खेती से अर्थव्यवस्था सुहद हो रही है, सब्जी की खेती होने से नगद आय होने लगी, कर्म लेना बंद हुआ रोजमर्रा की आवश्यकता पूरी होने लगी। परिणाम स्वरूप पलायन पूरी तरह से रूक गया।

पलायन रूकने से ग्राम सभा में सक्रियता बढ़ी व शासकीय योजनाओं का लाभ भी प्राप्त होने लगा। ग्रामसभा में गांव की व्यवस्था की बात भी की ।

**पलायन रूकने से ग्राम सभा में सक्रियता बढ़ी व शासकीय योजनाओं का लाभ भी प्राप्त होने लगा। ग्रामसभा में गांव की व्यवस्था की बात भी की।**

# घुघरी की वन सुरक्षा समिति

डिण्डोरी जिले के अमरपुर तहसील से सात किलोमीटर की दूरी पर बसे वनग्राम घुघरी (पंचायत झरना) है।

निवसीड ने १९६७ में यहां कार्य शुरू किया तब गांव में ग्रामसभा नहीं बैठती थी। संस्था ने ग्राम विकास हेतु जमीन सुधार कार्य चुना। गांव की ऊंची-नीची जमीन से इतनी कम उपज मिलती थी कि उससे लोगों का जीविकोपार्जन नहीं होता और वे काम के लिए पलायन करते थे। लोगों के साथ बैठक में गांव के विकास पर चर्चा करते हुए समस्याओं पर विचार हुआ। जमीन का समतलीकरण कार्य शुरू किया जाये तो कैसे? लोगों को रोजगार के बदले कुछ राशि संस्था के माध्यम से दी जाएगी और कुछ अंशदान के रूप में गांव के नाम से बैंक में जमा की जायेगी। हो सकता है या नहीं? गांव के लोगों ने कहा ठीक है, हम अपने जमीन में कार्य करेंगे यह निर्णय ग्रामवासियों ने लिया।

समय-समय पर आयोजित बैठकों के माध्यम से लोगों को वन सुरक्षा समिति तथा ग्रामसभा के बारे में समझ बनने लगी। स्वयंसमर्थन प्रकल्प के माध्यम से लोगों को वन सुरक्षा समिति, ग्रामसभाएं, शासकीय योजनाओं की जानकारी, महिला स्वयंसहाय्य समूह गठन, प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन आदि प्रक्रिया गत दो वर्षों से चलायी जा रही है।

स्वयंसमर्थन प्रकल्प के माध्यम से वन सुरक्षा समिति का पता लगा गया। वन सुरक्षा समिति के कार्य के बारे में जानकारी संस्था द्वारा गांववासियों को देकर सुझाया गया कि सक्रिय वन सुरक्षा समिति से गांव का विकास का कार्य हो सकता है। वे इस समिति के बारे में जानते नहीं थे। गांववालों ने कार्यकर्ता को बताया कि, “हमको आज मालूम हो रहा है कि वन सुरक्षा समिति में कितने कार्यकारिणी सदस्य होते हैं तथा इसका कार्य क्या है।”

कवि सर ने कहा मैं आप लोगों को मनाने के लिये नहीं आया हूँ। आप जंगल काटने दोगे तो आपके वन समिति द्वारा लकड़ी कुप से जो बिकेगा उसके पैसे से गांव में जमीन समतलीकरण, तालाब निर्माण, सड़क निर्माण जैसे विकासात्मक कार्य होंगे। ग्रामवासियों ने पूछा कि नांदा अलौनी में वन सुरक्षा समिति नहीं है फिर भी वहां विकास का कार्य क्यों करवाया जा रहा है? हमें कोई कार्य नहीं करवाना है। इसके पहले वन समिति नहीं बनी थी तब भी जीते थे और गांव का विकास नहीं होगा तो भी जियेंगे।

## क्षेत्रीय कार्यकर्ता एवं प्रकल्प समन्वयक का सुगम कार्य

स्वयंसमर्थन प्रकल्प की क्षेत्र कार्यकर्ता मैना यादव ने समन्वयक श्री गणेशजी को बताया कि वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के असहयोग से गांववालों के उनके प्रति विचार बदल गये। गांववालों ने ये सोचा कि जानकारी ले कर समिति के द्वारा विकास कार्य हो सकता है लेकिन अध्यक्ष बुलाने पर भी बैठक में क्यों नहीं आते। एक बैठक में उप-सरपंच भी उपस्थित थे। ग्रामवासियों ने क्षेत्र कार्यकर्ता मैना यादव को वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष श्री गंगासिंह मरकामजी को फिर से आमंत्रित करने को कहा। क्षेत्र कार्यकर्ता ने श्री मरकामजी के घर जा कर उन्हें सूचित किया कि आज गांववालों ने बैठक रखी है तथा इसमें वे वन सुरक्षा समिति के उद्देश्य कार्य, नियम तथा सदस्यों के बारे में आपसे जानना चाहते हैं।

गंगासिंहजी ने हाँ कहा लेकिन बैठक में नहीं आए। मैना यादव ने यह समस्या स्वयंसमर्थन प्रकल्प अमरपुर संकुल के समन्वयक गणेश कैवर्त तक पहुँचाई। उन्होंने भी गंगासिंहजी के घर जा कर उनका बैठक में आना कैसे अनिवार्य है यह समझाया। लेकिन गांववालों के साथ अच्छे संबंध होने की महत्ता वे शायद नहीं समझ रहे थे

इसलिए ‘बैठक में आऊंगा’ ऐसा कहकर भी वे वन परिक्षेत्र अमरपुर स्थित कार्यालय चले गये।

## ग्रामवासियों का आवेदन

ग्रामवासियों ने संस्था के मार्गदर्शक अमरपुर के वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री सिंग आवेदन लिखा और वे घुघरी आये तब उनके सामने अपनी समस्याएं रखी : “वन समिति के अध्यक्ष हमें जानकारी नहीं देते। विभाग के बीट गार्ड अध्यक्ष के घर पर ही बातें करके वापस हो जाते हैं या वन समिति के अध्यक्ष को अमरपुर बुला लेते हैं। मजदूरी देने का वादा कर गांव के लोगों से जंगल सफाई और लेन्टाना उखाड़ने का कार्य करवाया गया। लेकिन सिर्फ तीन दिन का मजदूरी दी गयी।” वन परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा ग्रामवासियों का समाधान नहीं हो पाया।

## कूप कटाई

जनवरी ६४ में वन अधिकारी शर्माजी एवं उप-मंडल अधिकारी एवं वन परिक्षेत्र अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन किया गया। फरवरी ६४ से वन विभाग की ओर से कूप कटाई का कार्य शुरू किया गया। इसके

कवि सर ने कहा मैं आप लोगों को मनाने के लिये नहीं आया हूँ। आप जंगल काटने दोगे तो आपके वन समिति द्वारा लकड़ी कुप से जो बिकेगा उसके पैसे से गांव में जमीन समतलीकरण, तालाब निर्माण, सड़क निर्माण जैसे विकासात्मक कार्य होंगे। ग्रामवासियों ने पूछा कि नांदा अलौनी में वन सुरक्षा समिति नहीं है फिर भी वहां विकास का कार्य क्यों करवाया जा रहा है? हमें कोई कार्य नहीं करवाना है। इसके पहले वन समिति नहीं बनी थी तब भी जीते थे और गांव का विकास नहीं होगा तो भी जियेंगे।

ग्रामवासियों ने सोचा कि अध्यक्ष विभाग के कर्मचारी कहते हैं वही करता है। वन कट जायेगा तो पर्यावरण प्रदूषित होगा। जंगल कटाई से वर्षा समय पर नहीं होगी तो हम जीविकोपार्जन कैसे करेंगे? समय पर वर्षा न होने से फसल बराबर नहीं होगी। इसलिए गांववालों ने जंगल कटाई पर रोक लगायी। वन विभाग की ओर से जंगल कटाई के नियमानुसार ५६ हेक्टर जंगल से एक हेक्टर क्षेत्र से केवल पाच पेड़ काटना था लेकिन एक हेक्टर से कम क्षेत्र से आठ से दस पेड़ काटे जा चुके थे। पेड़ काटते समय छोटे पेड़ नष्ट हो गये हैं।

अंतर्गत वन विभाग की ओर से बूढ़े पेड़ों को काटने के लिए पेड़ों को चिन्हित किया गया। वन विभाग की ओर से ३६६ वृक्ष काटे गए। इस कटाई में वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष भी शामिल थे क्योंकि उत्पादन विभाग उनको दैनिक मजदूरी देते थे। गांववाले वन की दशा देख कर नाराज हुए और उन्होंने जंगल काटना बंद करवा दिया। ग्रामवासियों ने वन विभाग मंडल डिप्टी की ओर से वन परिक्षेत्र अमरपुर में तथा पुलिस चौकी अमरपुर को आवेदन दिया। इसमें वन विभाग की अनुमति से करवाया जा रही वन कटाई के बारे में बात रखी थी।

### कटाई पर रोक

ग्रामवासियों ने सोचा कि अध्यक्ष विभाग के कर्मचारी कहते हैं वही करता है। वन कट जायेगा तो पर्यावरण प्रदूषित होगा। जंगल कटाई से वर्षा समय पर नहीं होगी तो हम जीविकोपार्जन कैसे करेंगे? समय पर वर्षा न होने से फसल बराबर नहीं होगी। इसलिए गांववालों ने जंगल कटाई पर रोक लगायी। वन विभाग की ओर से जंगल कटाई के नियमानुसार ५६ हेक्टर जंगल से एक हेक्टर क्षेत्र से केवल पाच पेड़ काटना था लेकिन एक हेक्टर से कम क्षेत्र से आठ से दस पेड़ काटे जा चुके थे। पेड़ काटते समय छोटे पेड़ नष्ट हो गये हैं।

### झिरिया निर्माण

वन समिति एवं वनविभाग की ओर से घुघरी में कटाई के एक माह पहले झिरिया

निर्माण का कार्य हुआ। तब ग्रामवासियों से चर्चा नहीं की गयी। वनसुरक्षा समिति के अध्यक्ष, डिप्टी रेन्जर एवं बीट गार्ड ने मिलकर एक नाला में झिरिया बनवाया। इसे लेकर गांववालों ने अध्यक्ष से पूछा। लेकिन कुल मिलाकर अध्यक्ष गांववालों से मिलजुल कर रहना नहीं चाहते हैं।

जंगल कटाई अवैध होने के कारण रोक लगायी गयी। ग्रामवासियों ने इस समस्या निराकरण के लिए लिखित आवेदन वन विभाग और वन परिक्षेत्र, पुलिस विभाग को दिया। पुलिस विभाग जांच के लिये गया वहां पर लोगों ने समस्या बतायी।

### वनमंडल अधिकारी के साथ बैठक

३ अप्रैल ६४ को ग्यारह बजे श्रीमान वन मंडल अधिकारी एवं जिला स्तर के उप विभागीय अधिकारी के साथ बैठक हुई। अधिकारी एवं वन स्तर के उप विभागीय अधिकारी वन परिक्षेत्र से रेन्जर सर शर्माजी डिप्टी रेन्जर झिरियाजी, बीटगार्ड तथा संस्था से संकुल समन्वयक व एक सामुदायिक कार्यकर्ता सभी शामिल थे।

शर्माजी ने आते बराबर पूछा कि बैठने के लिए दरी की व्यवस्था नहीं है। गांववालों ने जवाब दिया-जी नहीं, इस गांव में नहीं है पर झरना पंचायत से दरी लायी जा सकती है। केवर्त अपनी गाड़ी लेकर झरना आये। शर्माजी ने रेन्जर सर से पूछा कि, “मासिक बैठक में मैं हर बार बोलता हूं तुम लोग वनसुरक्षा समिति के लिए दरी एवं गैस निकलवा कर ले आओ। तो आप लोग नहीं सुनते हैं। वेतन काटूंगा तब समझ में आ जायेगा।” वन परिक्षेत्र अधिकारी ने जवाब दिया कि जैसा सब लोगों का काटेंगे वैसा मेरा भी काट लेना।

शर्माजी ने गांववालों से पूछा आपके गांव में वन सुरक्षा समिति बनी है यह आपको मालुम है या नहीं? लोगों ने जवाब दिया कि समिति बनी यह बात मालुम है परंतु क्यों बनी है, इसका काम क्या है, ये हम गांव वालों को मालुम नहीं। डिप्टी रेन्जर एवं बीट गार्ड गांव में आते हैं और अध्यक्ष से मिल कर वापस चले जाते हैं। वन विभागवाले गांववाले से बात भी नहीं करते हैं। ज्यादा है तो जंगल घूमने या अपने काम से जाते हैं।

समन्वयक और क्षेत्र कार्यकर्ता से पूछताछ

शर्माजी ने हम दोनों को संकुल समन्वयक गणेश केवर्त एवं क्षेत्र कार्यकर्ता मैना यादव - बुलाया और पूछा की तुम लोग संस्था से हो? इस गांव में कितने वर्षों से कार्य कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, जी हाँ निवसीड संस्था से हम लोग दोनों हैं।

सवाल : गांव स्तर में आप लोगों का कार्यक्रम क्या है?

जवाब : हम लोगों का कार्य इस प्रकार है। ग्रामसभा बैठक में जाने के लिए लोगों को प्रेरित करना, ग्रामसभा के अधिकार एवं कर्तव्यों के संबंध में हम उन्हें जानकारी देते हैं। स्वयंसहायता समूहों का गठन करने से लेकर उन्हें सक्रिय बनाने तक हमारा प्रयास रहता है। वन सुरक्षा समिति तथा वन समिति के शासन द्वारा चल रहे कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए संस्था द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है। संस्था द्वारा ५६-६४ में जमीन समतलीकरण का कार्य कराया गया है।

सवाल : जमीन सुधार का कार्य करवाते हो तो लोगों को भुगतान कहाँ से करवाते हो?

जवाब : भुगतान संस्था द्वारा किया जाता है।

शर्माजी ने आते बराबर पूछा कि बैठने के लिए दरी की व्यवस्था नहीं है। गांववालों ने जवाब दिया-जी नहीं, इस गांव में नहीं है पर झरना पंचायत से दरी लायी जा सकती है। केवर्त अपनी गाड़ी लेकर झरना आये। शर्माजी ने रेन्जर सर से पूछा कि, “मासिक बैठक में मैं हर बार बोलता हूं तुम लोग वनसुरक्षा समिति के लिए दरी एवं गैस निकलवा कर ले आओ। तो आप लोग नहीं सुनते हैं। वेतन काटूंगा तब समझ में आ जायेगा।” वन परिक्षेत्र अधिकारी ने जवाब दिया कि जैसा सब लोगों का काटेंगे वैसा मेरा भी काट लेना।

ग्रामवासियों का कहना था कि वन समिति के अध्यक्ष द्वारा वन विभाग से मिलकर जंगल कटवाया जा रहा है। कुछ लोगों की सोच थी कि वन समिति जंगल कटवा रही है। शर्माजी सर ने ग्रामवासियों को समझाया कि जंगल अध्यक्ष नहीं वन विभाग कटवा रहा है। आपका जंगल ५६ हेक्टर का है। इसमें से सात हेक्टर से पांच बूढ़े वृक्ष ही काटे जायेंगे। इसे उदाहरण से समझाते हुए उन्होंने कहा कि जैसा परिवार में मुखिया बुढ़ा हो जाता है तब कई प्रकार की बीमारी उसको घेर लेती है और एक दिन उसे मरना पड़ता है।

## गांववालों से सवाल-जबाब

इसके उपरांत शर्माजी सर ने बुला लिया।

शर्माजी सर ने गांववालों से पूछा, क्यों भाई आप लोग विभागवालों को जंगल क्यों नहीं काटने दे रहे हो?

गांववालों ने मिलकर जवाब दिया हम जंगल नहीं काटने देंगे, जंगल हमारा है।

सवाल : लेकिन क्यों? जंगल काटने से क्या नुकसान होगा?

सुकृती सिंह धुर्वे (ग्रामवासी) ने कहा कि हम ग्रामवासियों की सोच है कि जंगल कट जाने से वर्षा समय पर नहीं होती है पर्यावरण प्रदूषित होगा।

शर्माजी जंगल न कटने से लाभ बताओ। जवाब : जंगल घना होगा तो वर्षा समय पर होगी। पर्यावरण बना रहेगा।

शर्माजी सर ने डिप्टी रेन्जर से पूछा : इस गांव में वन विभाग की ओर से कुछ निर्माण कार्य हुआ है ?

डिप्टी रेन्जर सर : जी हां वन समिति द्वारा झिरिया निर्माण कार्य करवाया गया है।

शर्माजी ने ग्राम वासियों से पूछा: क्यों भाई आप लोगों को मालूम है वनसमिति की ओर से झिरिया निर्माण करवाया गया ।

ग्रामवासियों का जवाब : कुछ भी नहीं दिया ।

सरपंच श्री छत्तर सिंह मरकाम: झिरिया वन विभाग समिति की ओर से बन गया। लेकिन ग्रामवासियों से सलाह नहीं की गई है ।

शर्माजी सर ने वन विभाग के कर्मचारियों से कहा ऐसा क्यों करते हो? गांव के लोगों से सलाह लेकर बैठक में प्रस्तावित करके कार्य करवाना चाहिये। गांववालों के साथ बैठक में प्रस्तावित करके बनाया होता तो ज्यादा परिवार के लोगों को पीने का पानी मिलता है।

उप-मंडल अधिकारी ने पूछा - इस गांव में कितने परिवार हैं?

गांववासियों ने कहा ६४ परिवार तथा २५४ जनसंख्या है। गांव में चार हैण्डपम्प तथा दो कुएं हैं।

## विचार-विमर्श

ग्रामवासियों का कहना था कि वन समिति के अध्यक्ष द्वारा वन विभाग से मिलकर जंगल कटवाया जा रहा है। कुछ लोगों की सोच थी कि वन समिति जंगल कटवा रही है। शर्माजी सर ने ग्रामवासियों को समझाया कि जंगल अध्यक्ष नहीं वन विभाग कटवा रहा है। आपका जंगल ५६ हेक्टर का है। इसमें से सात हेक्टर से पांच बूढ़े वृक्ष ही काटे जायेंगे। इसे उदाहरण से समझाते हुए उन्होंने कहा कि जैसा परिवार में मुखिया बुढ़ा हो जाता है तब कई प्रकार की बीमारी उसको घेर लेती है और एक दिन उसे मरना पड़ता है। शर्माजी ने कहा उन वृक्षों को नहीं काटने दोगे तो वे गिर के सड़ जायेंगे और किसी काम के नहीं होंगे। ग्रामवासियों का कहना था कि आज हम परिवार में बुढ़े हो चुके हैं। तो हम को जान से मार डालो। ग्रामवासियों का एक ही जवाब था कि हम अपना जंगल नहीं काटने देंगे। उन्होंने बार-बार यही जवाब कवि सर जी को दिया। महिलाओं ने ज्यादा सवाल-जवाब किया।

कवि सर ने कहा मैं आप लोगों को मनाने के लिये नहीं आया हूँ। आप जंगल काटने दोगे तो आपके वन समिति द्वारा लकड़ी कुप से जो बिकेगा उसके

गांव में जमीन समतलीकरण, तालाब निर्माण, सड़क निर्माण जैसे विकासात्मक कार्य होंगे। ग्रामवासियों ने पूछा कि नांदा अलौनी में वन सुरक्षा समिति नहीं है फिर भी वहां विकास का कार्य क्यों करवाया जा रहा है? हमे कोई कार्य नहीं करवाना है। इसके पहले वन समिति नहीं बनी थी तब भी जीते थे और गांव का विकास नहीं होगा तो भी जियेंगे।

शर्माजी ने वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष से पूछा समिति के खाते में कितने पैसे हैं अभी? तब अध्यक्ष श्री गंगा सिंह मरकाम ने जवाब में बताया: रु. १,४६,६६६। शर्माजी सर ने ग्रामवासियों से पूछा डेढ़ लाख रुपये कहां से आया बताओ भाई! ये पेंक्स कुपकटाई से लाभ मिलता तो समिति के खाते में दिया जाता है। उससे गांव के विकास के लिए वन समिति द्वारा गांव के लोगों से करवाया जाता है। शर्माजी सर ने ग्रामवासियों से कहा कि कोई बात नहीं मैं आप को मनाने के लिए नहीं आया हूँ। आप की मर्जी। ग्रामवासियों का जवाब था कि “चाहे कुछ भी हो हम को अपना जंगल नहीं काटने देंगे।”

## ग्रामीणों की चर्चा

वन समिति के अध्यक्ष: जब जंगल नहीं काटने देते, तो समिति से कोई मतलब नहीं है। समिति से गांववालों को मतलब रहेगा क्यों नहीं रहेगा ऐसा शर्माजी सर ने कहा। ग्रामवासियों से शर्माजी सर ने कहा कि अध्यक्ष वन समिति के संबंध में बैठक नहीं

कवि सर ने कहा मैं आप लोगों को मनाने के लिये नहीं आया हूँ। आप जंगल काटने दोगे तो आपके वन समिति द्वारा लकड़ी कुप से जो बिकेगा उसके पैसे से गांव में जमीन समतलीकरण, तालाब निर्माण, सड़क निर्माण जैसे विकासात्मक कार्य होंगे। ग्रामवासियों ने पूछा कि नांदा अलौनी में वन सुरक्षा समिति नहीं है फिर भी वहां विकास का कार्य क्यों करवाया जा रहा है? हमे कोई कार्य नहीं करवाना है। इसके पहले वन समिति नहीं बनी थी तब भी जीते थे और गांव का विकास नहीं होगा तो भी जियेंगे।

ग्रामवासियों द्वारा पहला प्रस्ताव रखा यह गया कि समिति से सलाह लिए बिना कूप कटाई नहीं होगी। इस पर चर्चा विस्तारपूर्वक की गई। नयी वन सुरक्षा समिति का अनुमोदन के संबंध में चर्चा तथा वृक्ष साहब के पास आठ लोग वन मंडल अधिकारी के पास जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में सवाल-जवाब चलते ही रहा। ग्रामवासियों ने निर्णय किया कि जंगल में कोई काम लगता है तब ग्रामवासियों की सलाह लिये बगैर दूसरे गांव से मजदूर नहीं बुलाया जाए। समिति में जागरूकता लाने के लिए माह में एक बैठक आवश्यक होगा। गांववालों ने वन विभाग एवं संस्था से समय-समय पर मार्गदर्शन की अपेक्षा जताई है।

बुलाता, तो ग्रामवासी ही बैठक में अध्यक्ष को बुला के लाना चाहिए। ग्रामवासियों का जवाब - परमसिंह ने कहा कि श्रीमान्जी बुलाने के बाद भी बैठक में नहीं आते।

श्री सुकृतिसिंह धुर्वे: गांववाले कहते हैं कि अध्यक्ष जंगल को कटवा रहा है। सर मैं सुशिक्षित हूँ, मैं समझता हूँ।

श्री सुकृतिसिंह धुर्वे: अध्यक्ष के पक्ष में बोलने वाला होता कौन है?

फगनी बाई सुकृति : बाबू ऐसा बोलना नहीं क्योंकि हमारे गांव विकास के लिए अध्यक्ष चार वर्ष बीत गए क्या किया है बताओ।

उर्मिला : सर वनसमिति वालों को काम कैसे मिले इस संबंध में अध्यक्ष को सोचना चाहिए। ये अध्यक्ष हम को नहीं चाहिए। ऐसा सारे गांव के महिला एवं पुरुष बोलने लगे।

अमलो बाई : जा साहब चले जा जान थन तोला स्कुल मां आये रहस वह दफी तुम कहत हो कैसे होय गांव बारनला बहला फुसला के जंगल काटने के लिए हॉ कह देती तो अच्छा रहय असना सोचत हो।

(जाइये साहब चले जाइये आपको जानते हैं हम, शाला में आये थे उस दिन

आपने कहा था किसी भी तरीके से गांव वालों को बहला-फुसलाकर जंगल काटने के लिये हां कहलवा दो तो अच्छी सहायता होगी।)

श्रीमान शर्माजी सर, उप-विभागीय अधिकारी सर एवं सभी वन विभाग वालों ने समझाया कि ३६६ वृक्ष काटे जा चुके हैं। केवल ५६६ वृक्ष और काटे जायेंगे, छोटे पौधों को नुकसान नहीं होगा। बाकी १००० (हजार) ठूठ काटेंगे।

### जंगल निरीक्षण

महिलाओं ने जवाब दिया "काहिन बताथस साहब तैय अतना पेड़ नुकसान होईन है चल दिखा थन तोला।" (क्या बता रहे हैं सर आप, चलिये आपको दिखाते हैं कितने पेड़ों का नुकसान हुआ है।) दोपहर दो बजे गांववासी शर्माजी को जंगल दिखाने ले गये। वन विभाग के कर्मचारी और स्वयंसमर्थन संकुल समन्वयक एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ता भी उनके साथ थे।

जंगल में जहां-जहां पर चट्टा लगाये गये थे वहां पर दिखाये। बात समझ में यह आयी कि लोग अपने गांव के जंगल नहीं काटने देना चाहते हैं। जंगल देखते हुए गांववालों से चर्चा करते थे। श्रीमान रास्ते एवं जंगल में लोगों को समझाया। लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे। ग्रामवासियों एक ही शब्द कहते थे कि हमको जंगल नहीं कटवाना।

### संस्था का मार्गदर्शन

स्वयंसहायता समूह की महिलाएं, ग्रामदूत तथा सरपंच सब को समन्वयक एवं कार्यकर्ता द्वारा मार्गदर्शन कर छह बजे तक समझाया गया। इससे लोगों के विचार में परिवर्तन आया। "हमने जंगल काटने पर रोक लगा दी लेकिन हमारा जीवन वन के अधीन है। नक्शा, खसरा, पूरा रिकार्ड वन विभाग से मिलता है। आज हमने जंगल कटाई में रोक लगा दी इसका दूसरे गांववाले फायदा उठायेंगे। जंगल कटाई के पूर्व ऐसी शर्त रख लो कि आपकी मांग पूरी हो जाये और वन विभाग से कार्य भी मिल जाये ऐसा रस्ता चुनो।" इन्हें लेकर संकुल समन्वयक गणेश कैवर्त, डिण्डोरी लेकर गये। लोगों को लगातार समझाने बाद जाकर उनके मन में बात बैठी।

### समिति का सहमति से चयन

उन्होंने तय किया कि हम दूसरे अध्यक्ष का चयन करेंगे समिति के नियमानुसार सभी की सहमति से जेहरसिंह को वन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष, श्रीमती खेमवती मरकाम को कोषाध्यक्ष तथा तेरह कार्यकारिणी सदस्य भी चुने गए। स्वयंसहाय्य समूह की महिला सदस्य भी वन सुरक्षा समिति की सदस्य बनी।

### सहभागी निर्णय

ग्रामवासियों द्वारा पहला प्रस्ताव रखा यह गया कि समिति से सलाह लिए बिना कूप कटाई नहीं होगी। इस पर चर्चा विस्तारपूर्वक की गई। नयी वन सुरक्षा समिति का अनुमोदन के संबंध में चर्चा तथा वृक्ष साहब के पास आठ लोग वन मंडल अधिकारी के पास जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में सवाल-जवाब चलते ही रहा। ग्रामवासियों ने निर्णय किया कि जंगल में कोई काम लगता है तब ग्रामवासियों की सलाह लिये बगैर दूसरे गांव से मजदूर नहीं बुलाया जाए। समिति में जागरूकता लाने के लिए माह में एक बैठक आवश्यक होगा। गांववालों ने वन विभाग एवं संस्था से समय-समय पर मार्गदर्शन की अपेक्षा जताई है।

- मैना यादव

# फलोद्यान

राजस्व ग्राम गिठौरी तथा वनग्राम गोरखपुर अमरपुर (डिण्डोरी, म.प्र.) के एक ही - गिठौरी - पंचायत के एक दूसरे से लगे हुए गांव हैं। जिले से इनकी दूरी लगभग ३४ कि.मी. तथा ब्लॉक से ७ कि.मी. है। यहां मूल रूप से गोंड जनजाति (७५ प्रतिशत) निवास कर रही है। शेष (१३ प्रतिशत) अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय है। दोनों गांव की कुल जनसंख्या ६५२ (२५१ महिलाएं) है।

यहां की जमीन काफी खराब ऊंची-नीची व पहाड़ी ढलानदार है। खेती के लिए सिंचाई का कोई साधन नहीं है। इसलिए खेतीबाड़ी पूर्णतः वर्षा आधारित व एक फसली है। इस प्रकार की खेती से वर्ष के अधिकतम ६-१६ माह के लिए खने का अनाज मिल पाता है। शेष दो से पांच माह के लिए लोगों को स्थानीय स्तर पर मजदूरी करनी पड़ती है। बेरोजगारी के कारण कुछ लोग गांव से बाहर पलायन करते हैं।

## निवसीड का आगमन

शिक्षा व जागरूकता तथा उचित मार्गदर्शन के अभाव में २६ वर्ष से क्षेत्र में संचालित शासकीय विकास योजनाओं का सही लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। नागपुर की समाज सेवी संस्था निवसीड, ने इस क्षेत्र में १ जुलाई १९६२ से कार्य शुरू

यहां की जमीन काफी खराब ऊंची-नीची व पहाड़ी ढलानदार है। खेती के लिए सिंचाई का कोई साधन नहीं है। इसलिए खेतीबाड़ी पूर्णतः वर्षा आधारित व एक फसली है। इस प्रकार की खेती से वर्ष के अधिकतम ६-१६ माह के लिए खने का अनाज मिल पाता है। शेष दो से पांच माह के लिए लोगों को स्थानीय स्तर पर मजदूरी करनी पड़ती है। बेरोजगारी के कारण कुछ लोग गांव से बाहर पलायन करते हैं।

किया। उदरनिर्वाह व आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में संस्था द्वारा संचालित गतिविधियों में गतिविधि वृक्षारोपण (फलोद्यान) महत्वपूर्ण है। इसे गांव स्तर में लागू करने के पूर्व प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है।

## फलोद्यान अभियान के पूर्व

दोनों संकुल क्षेत्रों से ५६ गांव के कृषकों के लिए ३ अक्टूबर १९६३ को अमरपुर में आयोजित उचित कृषि प्रशिक्षण में संसाधन व्यक्ति श्री अभय गंधे ने स्थायी व उचित कृषि पर मार्गदर्शन करते हुए विशेषकर फलोद्यान पर ध्यान दिया। श्री गंधे ने इस प्रशिक्षण के चार माह बाद क्षेत्र में पहुंचकर ७ फरवरी १९६४ को समीक्षा की और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण दिया। इस समय वृक्ष लगाने की तकनीक विस्तार से श्री गंधे ने स्पष्ट कर समझाया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने लोगों से गांव स्तर पर बैठकों में १६ मार्च ६४ तक फलोद्यान संबंधी बातें की।

## फलोद्यान अभियान

होली अवकाश के बाद अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बताई गई तकनीक के अनुसार चयनित कृषकों के प्लॉट नापे गये तथा गड्डों की खुदाई भी शुरू की गई। इस खुदाई के क्रम में गिठौरी के मंशाराम मरावी का प्लॉट सबसे पहले तैयार हुआ जिसमें १६ गड्डे तैयार किये गये। इसके बाद इसी गांव से छम्मीलाल व रामप्रसाद माकौ तथा गोरखपुर में तितरू सिंह, प्रताप सिंह मराठी, और रामसिंह धूमकेती, ने दस पौधे के लिए तथा अजगर सिंह धूमकेती ने बारा पौधे के लिए प्लॉट नपवाये।

कार्यक्षेत्र के अन्य दो गांवों में भी फलोद्यान अभियान चला। मोहनसिंह रैयत में सोमादर सिंह कुशराम व लालसिंह कुशराम दस पौधे के लिए प्लॉट में लेआऊट बनाए तथा खुददुरपानी में धरम. सिंह परस्ते ने बीस पौधे के लिए लेआऊट किया। उपरोक्त ग्रामों में कृषकों का चयन

व प्लॉट में ले-आऊट करना तथा गड्डा खुदाई कार्य में कार्यकर्ता के जनसंपर्क व बैठकों द्वारा नियमित मार्गदर्शन व प्रेरणा महत्वपूर्ण है।

## प्रशिक्षण व कार्यकर्ताओं के प्रयास

उचित कृषि प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण के बाद गांव में जाकर जनसंपर्क व बैठकों की गई। बैठकों के दौरान फलोद्यान पर चर्चा, उसके उद्देश्यों व भविष्य में होनेवाले लाभ के बारे में जानकारी दी। लोगों की समझ और भी स्पष्ट करने के लिए गणितीय विधि के आंकड़ों में समझाया। इसका एक प्रभावी परिणाम आगे श्री अभय गंधे के आगमन व फिल्ड विजिट के झरोखे से परिलक्षित है। विजिट पूर्व की बैठक : श्री अभय गंधे के आगमन पर ६ मई १९६४ को प्रातः १६ बजे फिल्ड विजिट के पूर्व बैठक की गई। जिसमें उन्हीं के द्वारा पूर्व में दिये गये सुझावों के अनुसार गड्डे की तैयारी पर चर्चा शुरू की गई। एक सवाल के जवाब से आपने हर एक कार्यकर्ता के गांव में हुए गड्डे व स्थिति से

उचित कृषि प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण के बाद गांव में जाकर जनसंपर्क व बैठकों की गई। बैठकों के दौरान फलोद्यान पर चर्चा, उसके उद्देश्यों व भविष्य में होनेवाले लाभ के बारे में जानकारी दी। लोगों की समझ और भी स्पष्ट करने के लिए गणितीय विधि के आंकड़ों में समझाया। इसका एक प्रभावी परिणाम आगे श्री अभय गंधे के आगमन व फिल्ड विजिट के झरोखे से परिलक्षित है। विजिट पूर्व की बैठक : श्री अभय गंधे के आगमन पर ६ मई १९६४ को प्रातः १६ बजे फिल्ड विजिट के पूर्व बैठक की गई। जिसमें उन्हीं के द्वारा पूर्व में दिये गये सुझावों के अनुसार गड्डे की तैयारी पर चर्चा शुरू की गई।

अवगत हुए तथा जिन गांवों में गड्डे बताये गये उन्हें चिन्हित करते हुए विजिट के लिए निर्णय लिया।

क्षेत्र भेंट : ग्राम खजरी से लौटने के बाद ग्राम गोरखपुर में विजिट की गई। जिसमें सर्वप्रथम अजमेर सिंह के प्लॉट देखे गये। जिसमें अभय गंधे द्वारा निम्न बातें पूर्व सूचना अनुसार सत्य पाई गई।

१ गड्डे १० मीटर की दूरी पर स्थित वर्गाकार आकार में सही पाये गये।

२ गड्डे दिये गये नाम के आधार पर सही पाये गये।

३ गड्डे की मिट्टी सुझाव के अनुरूप तीन स्थानों में अलग-अलग रखे गये थे।

४ गड्डे से बाहर निकाले गये बड़े बोल्टर व टूटे पत्थर पड़े हुए थे जो कठोर श्रम का इल्जाम दे रहे थे।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर प्रशंसा करते हुए मुझे अभय गंधे ने शाबासी दी। इसके बाद घर के मुखिया के न रहने पर उसकी पत्नी झुन्नाबाई को बुलाया गया। गंधे ने उनसे निम्न सवाल किये जिसका जवाब अपने तरीके से दिया गया:

१ ये गड्डे किसने किये?

हम दोनो पति-पत्नी ने।

२ इतने बड़े गड्डे क्यों कर डाले?

(कार्यकर्ताओं की ओर इशारा करते हुए) इन्होंने ऐसा ही खोदने को कहा था।

३ एक दिन में कितने गड्डे करते हो?

मिट्टी ही मिट्टी मिलने पर तीन गड्डे तैयार करते हैं। लेकिन बोल्टर व कठोर पत्थर मिलने एक गड्डा करने में दिन भर का समय लग जाता है।

४ इसे कब और कैसे भरोगे?

इस सवाल के जवाब में चुप रही। कारण कि इसके संबंध में उसे जानकारी ही नहीं थी।

अभय गंधेजी ने संतोष कोड़ापे को

जिम्मेदारी देते हुए कहा कि गड्डे करने के नियम इसे बताने को कहा। कोड़ापे ने महिला को निम्न विधियां बतायीं :

१ गड्डे के निचली सतह में ३-४ इंच घासफूस भरना।

२ पहली मिट्टी घासफूस के बाद भरना।

३ दूसरी मिट्टी केंचुआ खाद या गोबर खाद मिलाकर भरना तथा तीसरी मिट्टी सबसे ऊपर गोबर के जमीन के सतह से ५ इंच ऊपर तक रखना।

४ इसके बाद बीच में पहचान हेतु एक खुत्था गाड़ना ताकि बरसात गिरने के बाद उस स्थान में पौधे लग सके।

गंधेजी द्वारा दिया गया सुझाव निम्नवत है :

५ बताये गये नियम के अनुसार १६-१४ दिन बाद मिट्टी डालना।

६ बोल्टर और पत्थर बिल्कुल बाहर कर देना।

७ यदि मिट्टी कम पड़े तो कहीं बगल से अच्छी मिट्टी भरना।

८ इतने बड़े गड्डे को भरने के लिए ज्यादा दूर से मिट्टी लाने का जोखिम न उठाना।

९ कल के प्रशिक्षण में (७ मई १९६४) घर के मुखिया के अवश्य भेजना।

इसके बाद अन्य लोगों के प्लॉट देखे गये।

उपरोक्त प्लॉट का अवलोकन करते हुए अधूरे गड्डे को जल्द पूरा करने संबंधी सुझाव रखते हुए उपरोक्त बातें दुहराई गईं। कोइलार भाजी (यह भाजी आदिवासियों की मुख्य सज्जियों में आती है। वे इसे सुखाकर रखते हैं व साल भर उपयोग करते हैं।) सब्जी तोड़ती महिला का फोटो लिया गया।

सुझाव : उपरोक्त प्लॉट को देखने के बाद मंशाराम को बताया कि आप के गड्डे १६ दिन पूर्व से खुदे हैं अतः आप इन्हें

भरना शुरू करें। हम्मीलाल व रामप्रसाद दोनों घर में नहीं थे इसलिए उनकी पत्नियों को बताया कि अधूरे गड्डे जल्दी खोद डाले और ७ मई १९६४ के प्रशिक्षण में अमरपुर अवश्य पधारें ताकि शेष जानकारी उन्हें मिल सके।

- शिवप्रसाद पोयाम

होली अवकाश के बाद अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बताई गई तकनीक के अनुसार चयनित कृषकों के प्लॉट नापे गये तथा गड्डों की खुदाई भी शुरू की गई। इस खुदाई के क्रम में गिठौरी के मंशाराम मरावी का प्लॉट सबसे पहले तैयार हुआ जिसमें १६ गड्डे तैयार किये गये। इसके बाद इसी गांव से छम्मीलाल व रामप्रसाद माकौ तथा गोरखपुर में तितरु सिंह, प्रताप सिंह मराठी, और रामसिंह धूमकेती, ने दस पौधे के लिए तथा अजगर सिंह धूमकेती ने बारा पौधे के लिए प्लॉट नपवाये। कार्यक्षेत्र के अन्य दो गांवों में भी फलोद्यान अभियान चला। मोहनसिंह रैय्यत में सोमादर सिंह कुशराम व लालसिंह कुशराम दस पौधे के लिए प्लॉट में लेआऊट बनाए तथा खुददुरपानी में धरमसिंह परस्ते ने बीस पौधे के लिए लेआऊट किया। उपरोक्त ग्रामों में कृषकों का चयन व प्लॉट में लेआऊट करना तथा गड्डा खुदाई कार्य में कार्यकर्ता के जनसंपर्क व बैठकों द्वारा नियमित मार्गदर्शन व प्रेरणा महत्वपूर्ण है।

## श्रमदान

भैसवाही ग्राम के प्रायः सभी परिवार कृषक हैं। अपने खेती में कार्य करना और हल चलाना यह मुख्य व्यवसाय है। बारिश के समय 'बिगार' खेती के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए लगाया जाता है और खेती का कार्य पूरा किया जाता है। जमीन को सुधारने के लिए ग्रामवासियों का कोई विचार नहीं था। सभी परंपरागत तरीके से खेती कर फसल लेते थे। फसल निकलने के बाद लोग शादी, दशगात्र, ग्राम घूमने तथा बाहर जाने में खाली समय लगाते थे।

स्वयंसमर्थन परियोजना के पहले भैसवाही ग्राम में कृषक समिति गठित नहीं थी। हल चलाना या ईंटें बनाने जैसे काम कृषक अपने खेती में व्यक्तिगत करते थे। समिति गठित होने के पश्चात समिति के सदस्य खेत में सामूहिक रूप से कार्य करके सुधार किये हैं।

स्वयंसमर्थन कार्यकर्ता ने भैसवाही के कृषि का भ्रमण किया। जमीन ज्यादा उपज नहीं देती थी। बंधियां या गटर न होने से ऊंची-नीची जमीन के कारण बारिश में उपजाऊ मिट्टी पानी के साथ बह जाती थी। इससे कृषकों को उत्पादन दिन-ब-दिन कम मात्रा में होता था। कार्यकर्ताओं ने निदान किया कि इस के लिए जमीन सुधार करना की अनिवार्य है। भैसवाही के पास ही सक्का रैय्यत में जमीन सुधार हेतु श्रमदान कार्य शुरू था। उसे देखने पर कुछ लोगों के मन में भावना पैदा होती थी कि "हम भी श्रमदान करें तो हमारा भी खेत अच्छा बनेगा।"

जमीन समतलीकरण, बंधियां निर्माण, सदस्यों के कमजोर मकान का निर्माण, ईंट बनाना, समिति में प्रति माह रु. ४ बचत करना, आपातकालीन सहायता देना, सामा. जिक उत्तरदायित्व समझकर सहयोग करना

इत्यादि समिति के कार्य हैं।

स्वयंसमर्थन कार्यकर्ता ने भैसवाही के कृषि का भ्रमण किया। जमीन ज्यादा उपज नहीं देती थी। बंधियां या गटर न होने से ऊंची-नीची जमीन के कारण बारिश में उपजाऊ मिट्टी पानी के साथ बह जाती थी। इससे कृषकों को उत्पादन दिन-ब-दिन कम मात्रा में होता था। कार्यकर्ताओं ने निदान किया कि इस के लिए जमीन सुधार करना की अनिवार्य है।

भैसवाही के पास ही सक्का रैय्यत में जमीन सुधार हेतु श्रमदान कार्य शुरू था। उसे देखने पर कुछ लोगों के मन में भावना पैदा होती थी कि "हम भी श्रमदान करें तो हमारा भी खेत अच्छा बनेगा।"

कार्यकर्ता ने भैसवाही के कृषकों की बैठकें लेकर उन्हें समझाया कि हमारी आय का एकमात्र साधन कृषि से हम फसल ले कर अपना पेट भरते हैं लेकिन उसका हम खयाल नहीं रखते। आदमी को बीमारी होने पर मुंह से बताता है लेकिन खेती अपनी बीमारी का बयान नहीं कर सकती। तो उसे कैसे पहचानेंगे? बीस-तीस वर्ष पहले कितनी कृषि उपज थी और वर्तमान में कितनी है यह सोचना जरूरी है।

बंजर बन रही खेती की ओर ध्यान नहीं देने पर हमारे बच्चों के समय में यह पत्थर बन जायेगी। स्वयंसमर्थन परियोजना में हम खेती में स्वयं कार्य करेंगे न की शासन के ऊपर निर्भर रहेंगे।

भैसवाही के श्रमदान कृषक समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष सहित ग्यारह सदस्य हैं। समिति के उद्देश और नियम तय किए गए हैं। श्रमदान कृषक समिति के बैठक का रजिस्टर भी लिखा जा रहा है। समिति का शुभारंभ श्री. पवन साण्ड्या, (जनपद पंचायत समिति, भैसवाही,) और भैसवाही के वर्तमान सरपंच श्री. अरविंद साण्ड्या ने श्री दालसिंह तेकाम के खेत में किया गया।

समिति के सदस्य जमीन सुधार, गाठर बांध, बंधियां निर्माण, ईंट बनाना, मकान निर्माण, टेका लेना और अन्य कार्यक्रम शुरू हैं। रु. ४६६६ का निम्नलिखित कार्य श्रमदान समिति के माध्यम से किया।

भैसवाही के श्रमदान कृषक समिति के सदस्यों ने रु. ३६६ का टेका लेकर नवलसिंह धुर्वे के घर की एक दिन छबाई की और शिवप्रसाद विश्वकर्मा कि ईंट ढुलाई (रु. ५६६६) की। बारिश में सामूहिक हल चलाने का सुझाव दिया गया।

- गणेश सलामे

भैसवाही के श्रमदान कृषक समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष सहित ग्यारह सदस्य हैं। समिति के उद्देश और नियम तय किए गए हैं। श्रमदान कृषक समिति के बैठक का रजिस्टर भी लिखा जा रहा है। समिति का शुभारंभ श्री. पवन साण्ड्या, (जनपद पंचायत समिति, भैसवाही,) और भैसवाही के वर्तमान सरपंच श्री. अरविंद साण्ड्या ने श्री दालसिंह तेकाम के खेत में किया गया।

# मोहनझीर के ग्रामदूत सरपंच

## पंचायत में नेतृत्व परिवर्तन

डिण्डोरी जिले में अमरपुर विकासखंड का मोहनझीर माल राजस्व ग्राम है। डिण्डोरी से इस गांव की दूरी ३४ कि.मी. है। सरकारी रिकार्ड के अनुसार मोहनझीर ३२८.३७ हेक्टर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा परिवार गोंड, बैगा तथा अहीर और पनिका है जबकि एक चमार परिवार है।

तीस वर्ष से मोहनझीर पंचायत में एक ही श्रीमन्त मरावी परिवार का वर्चस्व रहा जो पीढ़ी दर पीढ़ी मुकद्दम सरपंच होते चले आये। लम्बे समय से इस परिवार ने राजनीति के क्षेत्र में काफी अनुभव होने से इनके रणनीति के सामने दूसरे को मौका नहीं मिला। जनपद में सदस्य भी रहे इसलिए ब्लॉक तथा जिले में भी इनकी पहुंच बन रही। मोहनझीर में एक तरफ राजनीति का पलड़ा भारी होने तथा एक ही परिवार में केन्द्रित होने से गांव तक जो योजनाएं पहुंचती रही वह उन्हीं के सेवा में समर्पित होती रही और आज के स्थिति में विकास नहीं के बराबर है। संस्था निवसीड चार उद्देश्य लेकर स्वयंसमर्थन परियोजना के साथ जुलाई १९६२ में मोहनझीर में पहुंची।

१ जन संस्थाओं को सशक्त करना।

२ विकास के सभी क्षेत्रों में स्थानिक नेतृत्व, विशेष महिलाओं को प्रोत्साहित करना।

३ प्रति परिवार आयवृद्धि व आजी. विका से जुड़े प्रश्न, गरीबों के जमीन संबंधी अधिकार, लघु वन उपज व वन का विस्तार अधिकार के संबंध में प्रयास करना; और ...

४ वर्तमान सरकारी नीतियों को प्रभावित करना व दुर्लक्षित समूह के पक्ष में बदलाव हेतु समर्थन करना।

इस भूमिका के तहत गरीबों के विकास के दिशा में अनेक गतिविधियां संचालित की

गईं। जिसके तहत ग्रामदूत के चयन प्राथमिकता के तौर पर लिया गया।

प्रारंभिक दौर में कार्यकर्ता ने मोहनझीर माल में जन सम्पर्क किया। कुछ समय बाद साधारण बैठकें व ग्रामसभा आयोजित कर मोहनझीर गांव में पहुंचने का निवसीड का उद्देश्य तथा ग्रामदूत की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। लोगों ने सुना-समझा तथा इस मुद्दे पर गहराई से विचार करने के लिए कुछ समय लिया। ११ दिसम्बर २००३ को मोहनझीर माल के पंचायत भवन में श्री आर. एस. मरावी के अध्यक्षता में आयोजित बैठक में श्री मोहन सिंह धुर्वे को सर्व सहमति से ग्रामदूत चयन किया। इस ग्रामदूत चयन की विशेषता रही कि ग्राम पंचायत के बैठक में यह प्रक्रिया सम्पन्न हुई तथा इसमें जनपद सदस्य, माध्यमिक शाला के प्रधानाचार्य व पंचायत सचिव शामिल रहे। मोहनझीर का बेसलाइन सर्वेक्षण तथा सूक्ष्म नियोजन कर महिलाओं का स्वयं सहायता समूह गठित किया। चयन बाद ग्रामदूत के सहयोग से मोहनझीर माल में उद्यमिता अभियान, वृक्षारोपण, सागवाटिका और बीजकोष जैसी गतिविधिया क्रियान्वित की गईं। श्रमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से किए गए जीवन के गुणवत्ता कार्यक्रम में तीन गांवों के बीस परिवारों को शामिल किया। मोहनझीर में उपरोक्त गतिविधियों के क्रियान्वयन में ग्रामदूत के साथ कार्यकर्ता ने भी काफी मेहनत की है। लेकिन सन्तोषजनक परिणाम नहीं मिला। ग्रामदूत ने बताया कि २६ वर्ष पूर्व से सत्ता एक ही परिवार के हाथ में रहने से 'कल, छल व धन' के बल प्रयोग से मोहनझीर की राजनीति दूषित हो चुकी है। इसलिए लोग चाहते हुए भी डर व भय से संस्था के कार्यों में खुलकर मदद नहीं कर पा रहे हैं।

## कार्यकर्ता के सुझाव

इन परिस्थितियों में कार्यकर्ता ने ग्रामदूत को सुझाया कि सौभाग्य से ग्रामदूत चुने

जाने के बाद वे स्वयंसमर्थन गतिविधियों को लेकर लोगों में घुल-मिल कर रहे और उनके सुख-दुख में सहभागी बने। जहां तक संभव हो विशेष परिस्थितियों में उनकी मदद करें। जनसम्पर्क के दौरान राजनीतिक लाभ-हानि को पारदर्शिता के साथ खुलासा करें। पंचायत की अगली चुनाव में कुछ परिवर्तन कर विकास को दिशा में मोहनझीर को ले जा सकते हैं। ग्रामदूत के अलावा मोहनझीर माल के गांव बैठकों में कार्यकर्ता ने समयानुसार मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि गांव की जनता द्वारा चुने पंच, सरपंच व उपसरपंच पांच साल तक गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा गांव के विकास की योजनाओं की जिम्मेदारी उठाते हैं। ग्रामपंचायत या आमसभा के माध्यम से इसकी जानकारी देना चाहिए। इसलिए गांववालों का दायित्व बनता है कि जिनको जिम्मेदारी दी है उन पर निगरानी रखें। ग्रामसभा में भागीदारी निभाना जरूरी है। इस प्रकार जनसम्पर्क व बैठकों के दौरान गांववालों से विचार-विमर्श होता रहा। पंचायत चुनाव करीब आने पर लोगों में श्री मोहनसिंह धुर्वे का नाम चर्चा में उभरकर आया। विपक्ष ने जनसम्पर्क व गुप्त बैठकें कर प्रलोभन भी दिया तथा मोहनसिंह धुर्वे को बदनाम करने का प्रयास किया। कार्यकर्ता ने ग्रामदूत श्री मोहनसिंह धुर्वे को समझाया कि यदि आप गांव की दृष्टि में गलत नजर आ रहे हैं तो माफी मांगिये और वे जो कहें उसे इन्कार न करें। घर-घर जाकर उन्हें आश्वासन दें कि सरपंच होने के बाद मैं हर काम व निर्णय आपको साथ लेकर करूंगा।

जनवरी १९६४ में पंचायत का चुनाव सम्पन्न हुआ जिसमें मोहनझीर पंचायत से ६ प्रत्याशियों ने सरपंच पद के लिए बाजी लगाई। लेकिन गांववालों ने इस बार मोहन. सिंह धुर्वे को विजयी बनाया। इस प्रकार स्वयं समर्थन ग्रामदूत आज सरपंच है। उन्होंने कहा मैं सरपंच होते हुए भी ग्रामदूत बना रहूंगा।